



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2008 (वैशाख 27, 1930)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2008 (VAISAKHA 27, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए.-19014/12/2007-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 5/6/2007-सी एस I(डेस्क) के अनुसरण में राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के के. सचि.से. संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव (जन्म की तारीख 05-11-1963) (सी एस एल सं. 5787) को सं. लो. से. आ. कार्यालय में 31 जुलाई, 2007 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर के. स. से. के ग्रेड-1 में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:-

(I) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए या ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(III) उपर्युक्त नियुक्ति एम. ए.सं. 2170/2006 ओ.ए.सं. 2793/2005, एम.ए.सं. 2710/2005 के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खंडपीठ के दिनांक 11.1.2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. ए.-19014/18/2007-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 27-9-2007 के आ.सं. 5/17/2007-सी एस I(डेस्क) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के के.सचि.से. संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री एस. एस. कटारिया (अ.जा.) (जन्म की तारीख 1-5-1965) (सी.एस.एल.सं. 5898) को, 10-10-2007 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक सं.लो.से.आ. कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर के.सचि.से. के ग्रेड-1 में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :-

(I) इस तदर्थ पदोन्नति से उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या निर्यामित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(III) उपर्युक्त नियुक्ति एम. ए.सं. 2170/2006, ओ.ए.सं. 2793/2005, एम.ए.सं. 2710/2005 के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खंडपोठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.1.2007 के आदेश के अधधीन होगी।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 24 अक्टूबर 2007

सं. ए.-19011/5/2007-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार सिन्हा, भार.ले.से.(91) को दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 29 अक्टूबर 2007

सं. ए.-19014/21/2007-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री रोहित भारद्वाज, आई. एस. एस.(98) को संघ लोक सेवा आयोग में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में दिनांक 26-10-2007 के पूर्वा. से अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, चार वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उपसचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 मई 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/0083/3/19/2001--श्री पंकज सक्सेना, भा.पु. सेवा (जम्मू कश्मीर : 1992), पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.अ.ब्यूरो की सेवाएं केंद्र में उनकी प्रतिनियुक्ति के पूरा होने पर दिनांक 11.04.2008 अपराह्न से जम्मू और कश्मीर सरकार को सौंपी जाती हैं।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. 2/27/07-प्रशा./9720--सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा आयोग में निजी सहायक श्री विनीत आनंद को निजी सचिव के पद पर वेतनमान

रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 22.04.2008 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री विनीत आनंद की निजी सचिव के पद पर नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (निजी सचिव) भर्ती नियमावली, 2006 के नियम 3(2) के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

सतविंदर सिंह
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. ओ.दो.3597/2007-कार्मिक-1--अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने के फलस्वरूप, श्री एस. आई. एस. अहमद भा.पु.से. (डब्ल्यूबी-70) ने महानिदेशक, के.रि.पु. बल का पदभार दिनांक 31-03-2008 (अपराह्न) में त्याग दिया है। तदनुसार अधिकारी को दिनांक 31-03-2008 (अपराह्न) से के.रि.पु. बल की नफरी से बाहर समझा जाएगा।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 24 अप्रैल 2008

सं. ओ.दो.3604/2008-कार्मिक-1--भारत सरकार ने श्री वी. के. जोशी भा.पु.से. (बिहार : 71) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 26,000/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने की तिथि, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए महानिदेशक पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने दिनांक 31-03-2008 अपराह्न में महानिदेशक, के.रि.पु. बल, का पदभार ग्रहण कर लिया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 29 अप्रैल 2008

सं. ओ.दो.4212/2008-कार्मिक-1--श्री सुनील कुमार, उप कमाण्डेंट (इरला-4212) 75 बटांतियन, के.रि.पु.बल, का सरकारी सेवा से त्यागपत्र नोटिस दिनांक 11-03-2008 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 05-04-2008 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 05-04-2008 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.2420/87.(कार्मिक-1)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने संबंधी नोटिस दिनांक 10-01-2008 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री अशोक बाली कमाण्डेन्ट (इरला-2676), 119 बटालियन, के.रि.पु.बल, ने दिनांक 15-04-2008 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 15-04-2008 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 अप्रैल 2008

सं. ई-16015(2)/2/2007/कार्मिक.1/116--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित वरिष्ठ कमाण्डेन्टों को 14,300-400-18,300/- रुपये + 400/- के विशेष वेतनमान में अपर उप महा निरीक्षक के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	अपर उप महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
----------------	---	--

(सर्व श्री)

जी. एस. नायर	आरटीसी बरवाह	01.04.2008
--------------	--------------	------------

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-16015 (2)/2/2007/कार्मिक.1/117--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित निरीक्षक/अग्नि को नियमित पदोन्नति पर के.औसुब में सहायक कमाण्डेन्ट/अग्नि के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेन्ट/अग्नि के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
----------	----------------	---	--

(सर्व श्री)

1.	कुमुद चन्द्रा पटेल	एफएसटीआई हैदराबाद	27.03.2008
2.	ध्यान सिंह	एसएसपी सेलम	13.03.2008

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-16015 (2)/2/2007/कार्मिक.1/118--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित निरीक्षक/ (अनुसचिवीय) को नियमित पदोन्नति पर के.औसुब में सहायक कमाण्डेन्ट/जे.ए.ओ के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेन्ट/जे.ए.ओ के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
----------	----------------	---	---

(सर्व श्री)

1.	अजय कुमार बारीक	निसा हैदराबाद	31.03.2008
2.	पी.पी.के. सिन्हा	ओएनजीसी नजीरा	30.03.2008

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

दिनांक 1 मई 2008

सं. ई-28017/1/नोटी/2008/कार्मिक/2/876--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री महेश कुमार ने दिनांक 07.04.2008 (पूर्वाह्न) से सहायक कमाण्डेन्ट/फायर, के.औसुब इकाई, एस.एस. टी.पी.एस. शक्तिनगर पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

(भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 1 मई 2008

सं. प्रशा.1/ले.प./पी-13044/2008/50--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिये सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1	2	3
सर्वश्री		
1.	राजेन्द्र सिंह लाठर	01.01.2008
2.	दामोदर	01.01.2008
3.	कमल किशोर माथुर	01.01.2008
4.	अशोक कुमार भण्डारी	01.01.2008

1	2	3
	सर्वश्री	
5.	पित राम	01.01.2008
6.	दिलेर सिंह	01.01.2008
7.	हेत राम वर्मा, अ.जा.	01.01.2008
8.	चांद बिहारी माथुर	01.01.2008

वी. के. जैन, वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा. I/ले.प./पी-13044/2008--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित सहा. लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिये सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
	सर्वश्री	
1.	लादू राम	19.11.2007
2.	कंसरी चन्द तंवर	28.12.2007
3.	जग मोहन गंग	28.12.2007
4.	नारायण प्रसाद शर्मा	01.01.2008
5.	भंवर लाल तंवर	01.01.2008
6.	महेन्द्र कुमार शर्मा	01.01.2008
7.	दलीप सिंह	01.02.2008
8.	राजेन्द्र प्रसाद	03.03.2008
9.	दुष्यन्त कुमार शर्मा	25.04.2008

वी. के. जैन, वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

सं. प्रशा. I/ले.प./पी-13044/2008--प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- में सहा. लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर आगामी आदेशों तक के लिये सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
	सर्वश्री	
1.	राजेन्द्र सिरौहिया	19.11.2007
2.	श्रीमती अमरजीत नानरा	19.11.2007
3.	अमर सिंह जांगिड	19.11.2007

1	2	3
	सर्वश्री	
4.	नाथू लाल शर्मा	01.01.2008
5.	मनजिंदर सिंह अटवाल	01.01.2008
6.	आनन्द चन्द शर्मा	01.01.2008
7.	आलोक कुमार गोयल	01.01.2008
8.	राजेश सन्दूजा	01.01.2008
9.	प्रदीप कुमार कांकाणी	07.01.2008
10.	विष्णु प्रसाद गुप्ता	22.01.2008
11.	जग मोहन राजौरा, अ.जा.	01.02.2008
12.	पूरण सिंह	01.02.2008
13.	राजेन्द्र प्रसाद जांगिड	03.03.2008
14.	भगवान दास	03.03.2008
15.	मुकेश धींगडा	25.04.2008

वी. के. जैन, वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. 5/1/2008-सी.पी.आई.--मार्च, 2008 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 =100) 2 अंक बढ़ कर 137 (एक सौ सैंतीस) अंकों के स्तर पर रहा।

आर. के. गुप्ता

संयुक्त निदेशक

वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 अप्रैल 2008

सं. ए-32013/1/2006-प्रशा.-6--राष्ट्रपति, सहर्ष भारतीय निरीक्षण सेवा (वर्ग क) के वरिष्ठ समथमान (द्वितीय ग्रेड (अकार्य)) के निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यभार ग्रहण करने की तारीखों से 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक गु.आ. के रूप में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	आर. करुपैया	24.01.2008
2.	पारितोष सिंहल	04.02.2008
3.	आर. एस. पांडे	24.01.2008

1	2	3
	सर्वश्री	
4.	एच. आर. शर्मा	11.02.2008
5.	आर. के. अग्रवाल	28.01.2008
6.	आर. डी. शिवशरण	31.01.2008
7.	एस. सी. मंडल	29.01.2008

उपरोक्त पदोन्नतियां अस्थायी हैं तथा श्री एस. सी. मंडल द्वारा दायर अवज्ञा याचिका ओ. ए. सं. 889/2004 तथा श्री आशिसन टर्की द्वारा न्यायधिकरण, कोलकाता पीठ में दायर ओ. ए. सं. 347/2005 तथा किसी भी उच्च न्यायालय/केट में लंबित अन्य याचिकाओं, यदि कोई है तो, के परिणाम के अध्वधीन हैं।

के. के. सक्सेना
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

सं. ए-19012/449/2008--स्था. ए. पी. पी.--अत्यंत खेद के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुषमा ज. कपूर, सहायक प्रशासन अधिकारी दिनांक 06.03.2008 का शाम में दुःखद निधन हो गया। अतएव भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों की सूची से उनका नाम निकाल दिया गया है।

एस. दास गुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

नागपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

सं. ए-19012/469/2008 स्था.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ए. एस. राठोर, अधीक्षक प्रारूपकार को भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर में दिनांक 28.03.2008 (पूर्वाह्न) से सहायक नक्शान्वित अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दास गुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2008

सं. ए-32014/AC/3/2006--स्था. 1--भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने निम्नलिखित भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रशासनिक सहायकों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से उसी विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। ये पदोन्नतियां अगला आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगी :--

क्रम सं.	नाम	प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस. के. करवन्डे	01.01.2008
2.	श्री पैटिक बुद्धा	03.03.2008

आर. बी. थापा
मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 (स्थापना अनुभाग)
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 15 अप्रैल 2008

सं. पीडी/11(2)/2007-आर-III/2008/3224--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती अजिता थरीयन, सहायक, को दिनांक 17.01.2008 (पूर्वाह्न) से 29.02.2008 (अपराह्न) तक रुपए 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न नियुक्ति करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. पीडी/6(2)/2008-आर-III/2008/3275--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती देवकी एस. शेड्डी, सहायक, भापअ केन्द्र मुंबई को दिनांक 01.04.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 17 अप्रैल 2008

सं. पीडी/12(5)/2001-आर-III/2008/3327--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती निलोफर खान, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को दिनांक 18.02.2008 (पूर्वाह्न) से 19.03.2008 (अपराह्न) तक रुपए 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 22 अप्रैल 2008

सं. पीडी/4(4)/2005-भर्ती-III/2008/3393--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री राजे अरस रविंद्र कुमार, निजी सचिव

(गैर-सचिवालयीन), को दिनांक 01.04.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपए 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में आरएमपी, मैसूर में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/11(1)/2008-आर-III/2008/3425--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती देवकी एस. शेट्टी, सहायक, को दिनांक 14.01.2008 (पूर्वाह्न) से 31.03.2008 (अपराह्न) तक रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 24 अप्रैल 2008

सं. पीडी/4(1)/2006-आर-III/2008/3542--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती पी. जॉर्ज, सहायक लेखा अधिकारी, डीपीएस, मुंबई को दिनांक 10.04.2008 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में भाषअ केन्द्र, मुंबई में लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 21/9(1)/2008-सीसीएस/04--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्रीमती यशोधरा योगेश, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-13,500/-), निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुंबई को दिनांक 28.01.2008 (पूर्वाह्न) से दिनांक 29.02.2008 (अपराह्न) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी निदेशालय में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. एईसी-1(2)/08/2929--राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन संबंधी भारत सरकार के दिनांक 1 मार्च, 1958 के संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा. (समय-समय पर यथा संशोधित) के पैराग्राफ 3(1) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए ;

पैराग्राफ 3 (ए)

आयोग में पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे और सदस्यों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी।

2. तदनुसार, अब किए गए संशोधन के साथ, सरकार के दिनांक 1 मार्च, 1958 के संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा. की एक प्रति इसके साथ प्रेषित है।

के. मुरलीधर
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन

दिनांक 01 मार्च 1958 का संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा. (निम्नलिखित टिप्पणों द्वारा यथा संशोधित)

- (i) दिनांक 06 मार्च, 1962 का सं. डीईसी-1-एच
- (ii) दिनांक 24 जनवरी 1981 का सं. 3(5)/81-प्रशा.-I
- (iii) दिनांक 13 अक्टूबर 1983 का सं. 3(5)/81-प्रशा.-I
- (iv) दिनांक 20 मार्च 1984 का सं. एईसी-1(2)/84
- (v) दिनांक 17 मार्च 1986 का सं. एईसी-1(2)/86
- (vi) दिनांक 14 जून 2004 का सं. एईसी-1(2)/04
- (vii) दिनांक 27 दिसम्बर 2004 का सं. एईसी-1(2)/04/24 एवं
- (viii) दिनांक 30 अप्रैल 2008 का सं. एईसी-1(2)/08/2929

परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई और तब से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में महत्वपूर्ण एवं तीव्र गति से प्रगति हुई है और भविष्य के लिए एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा के उपयोग हेतु आवश्यक सभी मूलभूत पदार्थों के उत्पादन में सक्षम बनाना तथा परमाणु बिजलीघरों की श्रृंखला का निर्माण करना है जो देश में विद्युत शक्ति के उत्पादन में लगातार वृद्धि हेतु अपना योगदान देंगे। इन विकास कार्यों के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके पास गहन तकनीकी एवं आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित अपनी योजनाएँ तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का पूर्ण अधिकार हो और जो भी अनावश्यक प्रतिबंधों या गैर लचीले नियमों से मुक्त हो। ऐसे संगठन का निर्माण करते समय परमाणु ऊर्जा की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षेत्र की नवीनता, इसकी गतिविधियों की सामरिक प्रकृति तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय एवं राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखना होगा।

2. गंभीरता पूर्वक विचार के पश्चात भारत सरकार ने लगभग रेलवे बोर्ड के मॉडल पर आधारित पूर्ण कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियों से युक्त परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह आयोग, पूर्ववर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में दिनांक 10 अगस्त 1948 की अधिसूचना सं. एफ 402/डीएसआर/48, जिसे एतद्वारा निरस्त किया जाता है, के द्वारा स्थापित आयोग को प्रतिस्थापित करेगा।

3. आयोग का गठन

(क) आयोग में पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक सदस्य होंगे और आयोग के कुल सदस्यों की संख्या तीन से कम एवं बारह से अधिक नहीं होगी।

(ख) भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में सचिव, आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(ग) आयोग का एक सदस्य, सदस्य, वित्त होगा जो परमाणु ऊर्जा विभाग में वित्तीय मामलों में भारत सरकार का पदेन सचिव भी होगा।

4. कार्य :--

परमाणु ऊर्जा आयोग के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :--

(क) प्रधानमंत्री के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करना।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार करना एवं सरकार से इसे अनुमोदित कराना; और

(ग) परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों में सरकार की नीति का कर्तव्यनियमन करना।

5. संसद द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों की सीमा के अन्दर, परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यों को करने के लिए आयोग के पास भारत सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय, दोनों शक्तियां सन्निहित होंगी।

6. अध्यक्ष :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव की हैसियत से अध्यक्ष, तकनीकी मामलों में निर्णय लेने तथा परमाणु नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के अधीन उत्तरदायी होंगे। नीतिगत एवं संबंधित मामलों में आयोग की सभी सिफारिशें अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) अध्यक्ष को आयोग के अन्य सदस्यों के प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि सदस्य, वित्त को यह अधिकार होगा कि जिस वित्तीय मामले में वे अध्यक्ष से सहमत नहीं हैं उसको प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री को भेजने की मांग कर सकेंगे।

(ग) अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयानुसार आयोग के किसी भी सदस्य को समय-समय पर जारी सामान्य या विशिष्ट आदेशों के तहत अपनी ओर से शक्तियों एवं दायित्वों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

7. सदस्य, वित्त

सदस्य, वित्त परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित वित्तीय मामलों में भारत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे सिवाय उन शक्तियों के जो विभाग के पास निहित हैं या भविष्य में विभाग को प्रदान या प्रत्यायोजित की जाएंगी।

8. आयोग के पास अपनी कार्यविधि से संबंधित नियम बनाने की शक्ति होगी। आयोग की बैठकें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयों एवं स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।

दिनांक 1 मई 2008

सं. पऊआ-1(1)08/2931--राष्ट्रपति, वर्ष 2008 के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग (पऊआ) का पुनर्गठन निम्नानुसार करते हैं:--

- | | |
|--|------------------|
| 1. डॉ. अनिल काकोडकर, | - अध्यक्ष (पदेन) |
| सचिव, भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग | |
| 2. श्री पृथ्वीराज चव्हाण, | - सदस्य |
| राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय | |
| 3. श्री एम. के. नारायणन, | - सदस्य |
| राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | |

- | | |
|---|-----------------|
| 4. श्री टी. के. ए. नायर, | - सदस्य |
| प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | |
| 5. श्री के. एम. चंद्रशेखर, | - सदस्य |
| मंत्रिमंडल सचिव | |
| 6. डॉ. डी. सुब्बा राव, | - सदस्य |
| वित्त सचिव एवं सचिव, भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग | |
| 7. श्री शिव शंकर मेनन, | - सदस्य |
| विदेश सचिव | |
| 8. श्री आर. सी. जोशी, | - सदस्य (वित्त) |
| सचिव, भारत सरकार | |
| 9. प्रो. सी. एन. आर. राव, | - सदस्य |
| मानद अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू
प्रगत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलौर | |
| 10. डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन, | - सदस्य |
| पूर्व अध्यक्ष, पऊआ | |
| 11. प्रो. पी. रामा राव, | - सदस्य |
| इसरो डॉ. ब्रह्म प्रकाश प्रतिष्ठित प्रोफेसर, | |
| 12. डॉ. एस. बनर्जी, | - सदस्य |
| निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई | |

के. मुरलीधर
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2008

सं. ए-32013/06/2007-स्था. II--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारियों की उपनिदेशक/नियंत्रक उड़नयोग्यता के ग्रेड में तदर्थ आधार पर प्रोन्नति को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से अगले छह माह की अवधि तक या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हों, आगे बढ़ाते हैं :--

क्रम सं.	नाम	निम्नलिखित तारीख से तदर्थ अवधि के बढ़ाया गया
1.	पी. के. भक्ता	24.01.2008
2.	के. रामकृष्णा	26.01.2008
3.	बी. सी. बेहरा	19.01.2008

2. राष्ट्रपति जी, श्री डी. के. दास, वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारी को नागर विमानन महानिदेशालय में दिनांक 08.02.2008 (पूर्वाह्न) से उपनिदेशक/नियंत्रक उड़नयोग्यता के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में छह मास की अवधि तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो नियुक्त करते हैं।

मीना शर्मा
उपनिदेशक प्रशासन

निर्माण महानिदेशालय

मुख्य वास्तुक (उ.क्षे.) का कार्यालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2008

सं. 27/86/91/मु.वा.(उ.क्षे.)/स्था./265-70--इस कार्यालय के श्री हुकुम सिंह, दफ्तरी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 29-02-2008 को (अपराहन) सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डॉ. एस. कपूर
वास्तुक/संपर्क अधिकारी
(मु.वा.-उ.क्षे.)

कम्पनी मामले मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 मई 2008

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में।

सं. आरओसी/दिल्ली/560(3)रेगुलर/39/467--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद निम्नलिखित कम्पनियां 1 से 39 तक के नाम इनके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं होने पर। तदुपश्चात इन कम्पनियों के नाम काट दिये जायेंगे और कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

1	2	3
1.	43451	मैसर्स इन्फोमैट पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	154254	मैसर्स इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
3.	140323	मैसर्स एके कम्प्यूटर्सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	110141	मैसर्स स्पिंग्स इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	071129	मैसर्स शिल्पी फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	143109	मैसर्स एमआरवी म्यूज़िक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	091875	मैसर्स एन जी पावर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	002491	मैसर्स रूरल टस्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	002505	मैसर्स श्री जैन टेक्टर्स एण्ड आर्टो स्पेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	140845	मैसर्स गोल्डन टोरटल एजुकेशन एण्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	107975	मैसर्स ए ए रिसोर्स डवलपमेंट सपोर्ट सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
12.	103347	मैसर्स आईटीआईएल आनलाईन प्राईवेट लिमिटेड
13.	54308	मैसर्स हाटलाइन कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	26400	मैसर्स के. एम. एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
15.	67354	मैसर्स आशिकाश एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
16.	106875	मैसर्स बीबीआईएल टीवी चैनल प्राईवेट लिमिटेड
17.	119854	मैसर्स राय मूवीज प्राईवेट लिमिटेड
18.	009222	मैसर्स विनय राय एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	046081	मैसर्स आईसीसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
20.	051774	मैसर्स उषा सिक्कोरिटीज़ एण्ड सपोर्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
21.	102107	मैसर्स एस एस नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
22.	123587	मैसर्स पीमाको ट्रेवल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
23.	78591	मैसर्स प्रहार क्रीसैक्लीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	88341	मैसर्स जे. के. सॉफ्टवेयर एण्ड सोल्यूशन्स लिमिटेड
25.	106758	मैसर्स डिलोर्ड्स डिपार्टमेंटल स्टोर प्राईवेट लिमिटेड
26.	71673	मैसर्स आराम सेल्स एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
27.	68888	मैसर्स एवरअैक स्पेशियलिटी कैमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	080993	मैसर्स केएलएम फिन-मैन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
29.	071121	मैसर्स ब्रिलियन्स होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	071117	मैसर्स स्टारग्लो कैपीटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	62115	मैसर्स सुरक्षित ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
32.	72471	मैसर्स जीयस कम्प्युनिकेशन्स लिमिटेड
33.	83344	मैसर्स मूल्यांकन इन्वैस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	143280	मैसर्स एमआरवी स्पिंगिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	029347	मैसर्स पी सी मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	122187	मैसर्स जीबीएन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	123767	मैसर्स सिमरन क्लॉथिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
38.	74184	मैसर्स विनायका इन्फिन लिमिटेड
39.	22965	मैसर्स प्रीरिट चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड

टी. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा.क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/3/--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इनके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनियों का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और, उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

S.NO.	CIN NO.	कम्पनी का नाम
1	U99999RJ1980PTC002107	रोकसी इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
2	U14101RJ1980PTC002109	वीन्स मार्बल्स इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
3	U51101RJ1980PTC002110	धवन इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
4	U55101RJ1980PTC002112	इमराल्ड होटल्स एण्ड रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5	U51420RJ1980PTC002117	संजय इंजिनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
6	U51101RJ1980PTC002119	पंचशील एंजेन्मीज प्राईवेट लिमिटेड
7	U51101RJ1980PLC002123	कुटुम्ब जनरल ट्रेडिंग क0 लिमिटेड
8	U26943RJ1980PLC002130	श्री एसबेस्टस सीमेन्ट राजस्थान लिमिटेड
9	U31103RJ1980PTC002131	विकास इन्सूलेशन क0 प्राईवेट लिमिटेड
10	U51101RJ1980PTC002135	लेकसिटी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
11	U24117RJ1980PTC002139	रोडा केम इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
12	U26933RJ1980PTC002142	अग्रवाल श्रमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
13	U17121RJ1980PTC002143	राज मंगल सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
14	U74999RJ1980PLC002146	राजस्थान सरेसोल्ल्स लिमिटेड
15	U15497RJ1980PTC002149	पोली-प्रोटीन प्राईवेट लिमिटेड
16	U24117RJ1980PTC002150	श्री अन्नपूर्णा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
17	U17124RJ1980PTC002151	कुमार फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
18	U17124RJ1981PTC002158	त्रिपुरा फाब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19	U24139RJ1981PTC002163	ओरिएण्ट जेम इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
20	U25111RJ1981PTC002166	स्वास्तिका टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
21	U29212RJ1981PTC002170	संवत एगो इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
22	U17115RJ1981PTC002171	राजस्थान थ्रेड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
23	U26102RJ1981PTC002173	दरंगलाईट फाइबर ग्लास प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24	U25191RJ1981PTC002195	एक्सलेन्ट रबड प्राईवेट लिमिटेड
25	U25201RJ1981PTC002196	देहली मल्टी टेक इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
26	U25209RJ1981PTC002199	राजस्थान प्लास्टिकाइट इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
27	U15311RJ1981PTC002203	उदयपुर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
28	U28939RJ1981PTC002206	हाईटॉप टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
29	U17111RJ1981PTC002208	अरविन्द सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
30	U17115RJ1981PLC002210	आरपीएल इण्डिया लिमिटेड
31	U14101RJ1981PTC002214	एस एस मार्बल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
32	U55101RJ1981PTC002215	श्री गणेश हिमालया प्राईवेट लिमिटेड
33	U14219RJ1981PTC002217	जय ग्रिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
34	U31300RJ1981PTC002218	गंगा इन्सूलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
35	U14101RJ1981PTC002219	मनीष मन्जु मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
36	U26343RJ1981PTC002221	मारवाड मूल्टी इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
37	U17124RJ1981PTC002226	कारनेशन टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
38	U28910RJ1981PLC002236	पावडरेक्स इण्डिया लिमिटेड
39	U28999RJ1981PTC002240	इन्टरनेशनल स्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
40	U24119RJ1981PTC002246	प्रीती ऑर्गेनिक एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
41	U17124RJ1981PTC002248	सूमित टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
42	U25191RJ1981PTC002250	अलवर रबड प्राईवेट लिमिटेड
43	U24232RJ1981PTC002254	मारवाड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
44	U14101RJ1981PTC002263	वर्मा बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

45	U58999RJ1981PTC002265	अभिषेक इंजीनियर्स इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
46	U17124RJ1981PTC002269	उदयपुर टेक्सटाइल प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
47	U21012RJ1981PTC002272	राज बोर्डस एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
48	U24121RJ1981PTC002274	जीवन फोस्फाट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
49	U23201RJ1981PTC002277	माईक्रोवेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
50	U14219RJ1981PTC002280	गेखावाटी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
51	U51101RJ1981PTC002281	अरविन्द इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
52	U25191RJ1981PTC002285	कानोडिया रबड़ प्राईवेट लिमिटेड
53	U45201RJ1981PTC002288	लाहोटी कन्सट्रक्शन्स क० प्राईवेट लिमिटेड
54	U31908RJ1981PTC002289	प्रभाकर इलेक्ट्रोडैस प्राईवेट लिमिटेड
55	U29299RJ1981PTC002290	सायर इंजिनिरिंग प्राईवेट लिमिटेड
56	U55101RJ1981PTC002291	उर्वशी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
57	U17101RJ1981PTC002299	एसवीएस फोर्गिनास प्राईवेट लिमिटेड
58	U14101RJ1981PTC002303	नीलम मार्बल्स एण्ड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
59	U25201RJ1981PTC002305	आर ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
60	U27107RJ1981PTC002307	भीलवाडा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
61	U51214RJ1981PTC002316	सालचा कृषि प्राईवेट लिमिटेड
62	U99999RJ1981PTC002318	गोलचा सिनेटाल्क प्राईवेट लिमिटेड
63	U14101RJ1981PTC002319	गोविन्द मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
64	U24124RJ1981PLC002324	हिन्दुस्तान एग्री केमिकल्स लिमिटेड
65	U28999RJ1981PTC002325	फोरगोस्ट इंजिनिरिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
66	U27101RJ1981PTC002330	कोन्टीनेन्टल फोरजिनगस प्राईवेट लिमिटेड
67	U60231RJ1981PTC002334	यादव रोड ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
68	U51101RJ1981PTC002344	भगवती इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
69	U21012RJ1981PTC002348	कुशाल पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
70	U27117RJ1981PTC002353	वन्दना केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
71	U17124RJ1981PTC002354	आर बी टेक्सटाइल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
72	U27107RJ1981PTC002356	विक्रि स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
73	U24304RJ1981PTC002360	उदयपुर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
74	U67120RJ1981PLC002364	जन कल्याण फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट क० लिमिटेड
75	U27107RJ1981PTC002365	जैनगो इम्पात प्राईवेट लिमिटेड
76	U28999RJ1981PTC002369	यूनाईटेड स्ट्रक्चर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
77	U14101RJ1981PTC002371	राजनगर मार्बल्स एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
78	U17124RJ1981PTC002380	मंयक टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
79	U51101RJ1982PTC002386	हर्मार इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
80	U51101RJ1982PTC002387	शिवरानी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
81	U15141RJ1982PTC002388	कैलाश ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
82	U27107RJ1973PLC002392	मरोदुला स्टील एण्ड वायर्स लिमिटेड
83	U26943RJ1982PTC002397	आबू सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
84	U26943RJ1982PTC002402	लक्ष्मी लाइम एण्ड सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
85	U28939RJ1982PTC002403	अम्बिका मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
86	U51101RJ1982PTC002406	जायसिना ट्रेडिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
87	U51101RJ1982PTC002407	आर कुमार इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
88	U28992RJ1982PTC002414	अलवर थर्मोपैक इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
89	U31300RJ1982PTC002421	सुपर केवल मशीन प्राईवेट लिमिटेड

90	U26943RJ1982PTC002423	मारुती सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
91	U15411RJ1982PLC002424	हेम कून्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
92	U14101RJ1981PTC002425	कोन्टीनेन्टल मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
93	U51101RJ1982PTC002431	अर्च इंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
94	U34300RJ1982PLC002434	राजस्थान एक्सलो सनवा मिडलैण्ड लिमिटेड
95	U65990RJ1982PTC002436	माधोगरिया इन्वेस्टमेन्ट क० प्राईवेट लिमिटेड
96	U51101RJ1982PTC002437	सी कं इंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
97	U34300RJ1982PTC002444	स्वास्तिका इंजिनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
98	U28121RJ1982PLC002446	प्रमाइर सिलिन्डर्स लिमिटेड
99	U25201RJ1982PTC002449	डोमोप्लास्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
100	U26943RJ1982PTC002455	मधु सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
101	U27107RJ1982PTC002461	सेठी रामका स्त्रीलस प्राईवेट लिमिटेड
102	U26943RJ1982PTC002462	श्री लक्ष्मी सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
103	U14101RJ1982PTC002466	कं एफ डायमण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
104	U25111RJ1982PTC002471	राजस्थान टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
105	U99999RJ1982PTC002473	श्री अम्बिका ऑयल एण्ड केमिकल्स मिल्स प्रा लि
106	U26943RJ1982PTC002479	रिचा कंम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
107	U26943RJ1982PTC002483	खंजांची सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
108	U51101RJ1982PTC002485	रामा इंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड
109	U26911RJ1982PTC002486	सुपर पोटेरिज प्राईवेट लिमिटेड
110	U26943RJ1982PTC002489	ज्वाला सीमेन्ट एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
111	U25209RJ1982PTC002496	माहेश्वरी प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
112	U92112RJ1982PTC002498	राज अम्बर फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
113	U15141RJ1982PTC002499	गोयल ऑयल प्लोर एण्ड डाल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
114	U51214RJ1982PTC002514	तराई सीड सिन्धिया प्राईवेट लिमिटेड
115	U14101RJ1982PTC002516	एगलोमार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
116	U24124RJ1982PTC002520	दिव्या फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
117	U31300RJ1982PTC002521	भीलवाडा इन्सूलशन्स प्राईवेट लिमिटेड
118	U60231RJ1982PTC002524	खेवाटी ट्रान्सपोर्ट क० प्राईवेट लिमिटेड
119	U51101RJ1982PTC002525	श्रीनगर ट्रेडिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
120	U26943RJ1982PTC002529	फेबटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
121	U21091RJ1982PTC002531	सिद्धार्थ कॉइन्स प्राईवेट लिमिटेड
122	U31300RJ1982PTC002534	मेरातवाल इन्सूलशन्स प्राईवेट लिमिटेड
123	U67120RJ1982PLC002542	सेवेरा सविंग्स एण्ड फाईनेन्स इण्डिया लिमिटेड
124	U29212RJ1982PTC002548	मोडिज प्रेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
125	U17116RJ1982PTC002549	सुमनसिल्क मिल प्राईवेट लिमिटेड
126	U14101RJ1982PTC002553	परीमाडो मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
127	U14293RJ1982PLC002555	अरून मिका इण्डस्ट्रिज लिमिटेड
128	U51214RJ1982PTC002558	आर्य एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
129	U24117RJ1982PTC002561	धान केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
130	U36991RJ1982PTC002562	फेस्को डूपलीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
131	U45201RJ1982PTC002566	गायल्स कन्सट्रक्शन्स इनव्हेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
132	U14219RJ1982PTC002570	हेम कून्ड गिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
133	U28121RJ1982PTC002576	ऑरिएण्टल सिनीन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
134	U14101RJ1982PTC002579	मार्बल्स मन्दिर प्राईवेट लिमिटेड

135	U51101RJ1982PTC002581	जी टी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
136	U24117RJ1982PTC002590	मोनर्च कम्स एण्ड एलाईड प्रोड्युक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
137	U17124RJ1982PLC002594	डिटेक्स प्रोसेजर्स इण्डिया लिमिटेड
138	U99999RJ1982PTC002596	इन्डोनिक्स कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड
139	U14219RJ1982PTC002598	वेस्टन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
140	U01405RJ1982PTC002599	अनिल गिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
141	U51101RJ1982PTC002600	सूचिता टेडिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
142	U15499RJ1982PTC002604	श्री बलवंत फूड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
143	U26932RJ1982PTC002605	कवालिटी कन्डूट प्राईवेट लिमिटेड
144	U55101RJ1982PTC002612	होटल विजय प्राईवेट लिमिटेड
145	U24302RJ1983PLC002622	ग्यापसम फाइबर लिमिटेड
146	U24302RJ1983PTC002623	रश्मि सोपस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
147	U29299RJ1983PTC002629	गर्मा मेटल्स मशीनस प्राईवेट लिमिटेड
148	U51101RJ1983PTC002635	फेण्डस टेडिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
149	U31909RJ1983PTC002636	अलंकार एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
150	U24117RJ1983PTC002637	याम आयलकेक प्राईवेट लिमिटेड
151	U14101RJ1983PTC002647	रेखावती मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
152	U24111RJ1983PTC002648	एस ओ गेस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
153	U51395RJ1983PTC002651	बी एन बी इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
154	U14101RJ1983PTC002654	सेठ सांवरिया इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
155	U67120RJ1983PTC002655	मोदी सेक्युरिटी इन्वस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
156	U51101RJ1983PTC002657	कुमार प्लास्टिक इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
157	U51101RJ1983PTC002659	खण्डेलवाल टेडिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
158	U85195RJ1983PTC002661	इथीकम लबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
159	U17116RJ1983PTC002663	अन्नपूर्णा सिल्क गिल्स प्राईवेट लिमिटेड
160	U21012RJ1983PLC002665	अरिस्टो पल्प एण्ड पेपर प्राईवेट लिमिटेड
161	U15312RJ1983PTC002666	जय श्री राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
162	U14101RJ1983PTC002672	पटेल मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
163	U14101RJ1983PTC002676	काहीनुर मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
164	U51101RJ1983PTC002686	गोपीनाथ टेडिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
165	U51101RJ1983PLC002687	शाह इन्टरप्राइजेज राजस्थान लिमिटेड
166	U51101RJ1983PTC002690	बरदान इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
167	U29299RJ1983PTC002693	प्रेम हंस इंजिनियरिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
168	U29308RJ1983PTC002694	समृद्धि प्राईवेट लिमिटेड
169	U14101RJ1983PTC002695	विकास मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
170	U24117RJ1983PTC002696	हिन्दुस्तान हाईड्रोकार्बन्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
171	U28201RJ1983PTC002703	वरुण तार पुलीन इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
172	U27107RJ1983PTC002704	राजस्थान स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
173	U29191RJ1983PTC002713	आईसलैण्ड प्राईवेट लिमिटेड
174	U34300RJ1983PTC002716	डवरलास्ट फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
175	U15142RJ1983PLC002719	निर्माण सोलवन्ट लिमिटेड
176	U18101RJ1983PTC002723	सी फेल्डम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
177	U26943RJ1983PTC002724	बी आर एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
178	U29308RJ1983PTC002732	उन्कोन्स राजस्थान प्राईवेट लिमिटेड
179	U29308RJ1983PTC002735	मदन सन्स प्राईवेट लिमिटेड

180	U15203RJ1983PTC002738	विमल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
181	U24232RJ1983PLC002739	केमकेपस लिमिटेड
182	U17115RJ1983PTC002740	भीलवाडा स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
183	U45201RJ1983PTC002747	अमरनाथ चिरंजीलाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
184	U21012RJ1983PTC002748	ब्रीकानेर पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
185	U51101RJ1983PTC002754	दीपाली डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
186	U17124RJ1983PTC002760	लक्ष्मी फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
187	U26943RJ1983PTC002763	राणा सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
188	U70101RJ1983PTC002766	मधुसुदन प्रोपर्टीज एण्ड इनव्स्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
189	U28939RJ1983PTC002767	श्रीराज टॅल्स मैन्युफैक्चरिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
190	U51101RJ1983PTC002768	जान ज्योति ट्राइंग क० प्राईवेट लिमिटेड
191	U27101RJ1983PTC002780	एम एम एलोजेज प्राईवेट लिमिटेड
192	U24111RJ1983PTC002781	राजस्थान ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
193	U15141RJ1983PTC002785	माधोराम वनस्पति एण्ड सोया प्रोडक्ट्स लिमिटेड
194	U21012RJ1983PTC002786	गिरिराज पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
195	U15142RJ1983PTC002790	मरूधर रिफाइनरी एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रिज प्रा लि
196	U72200RJ1983PTC002791	कम्प्यूटर एण्ड मेन्जमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
197	U15203RJ1983PTC002794	आर बी डेयरी प्राईवेट लिमिटेड
198	U14102RJ1983PTC002795	के के ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
199	U15141RJ1983PTC002796	कामा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
200	U14101RJ1983PTC002797	राठी मार्बल प्राईवेट लिमिटेड
201	U14101RJ1983PTC002804	आर एम मार्बल्स इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
202	U17112RJ1983PTC002806	नवरंग स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
203	U31200RJ1983PTC002810	बी जी मोहनोत एण्ड क० प्राईवेट लिमिटेड
204	U14102RJ1983PTC002811	न्यू लक्की मार्बल ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड
205	U18101RJ1983PTC002819	श्री भागवत प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
206	U28910RJ1983PTC002823	कृष्णा फोफ्रे एण्ड स्टांपिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
207	U18101RJ1983PTC002829	कपिल काप्टस प्राईवेट लिमिटेड
208	U99999RJ1983PTC002841	ट्रिनिटी कॉमबीने एमोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
209	U26943RJ1983PTC002842	श्री लोहरकी सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
210	U14219RJ1983PTC002843	राजस्थान इण्डस्ट्रियल कटर्स एण्ड फिनिशर्स प्रा लि
211	U14219RJ1983PTC002844	भीलवाडा मिनरल्स एण्ड केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
212	U14101RJ1983PTC002848	आदर्श प्राईवेट लिमिटेड
213	U51311RJ1983PTC002850	राजपूताना होजिरी एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
214	U92111RJ1983PTC002852	ए सी एम प्राईवेट लिमिटेड
215	U64201RJ1983PTC002856	पिंक सिटी सर्विस ऑन काल प्राईवेट लिमिटेड
216	U14101RJ1983PTC002860	अमृत शिले प्राईवेट लिमिटेड
217	U51101RJ1983PTC002863	एसे इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
218	U26943RJ1984PTC002867	श्री गणपति सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
219	U26932RJ1984PTC002871	पंजाब पाइपस प्राईवेट लिमिटेड
220	U17124RJ1984PTC002875	लक्ष्मी सिनफेब मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
221	U24232RJ1984PLC002880	कन्नोन एण्ड कन्नोन प्राईवेट लिमिटेड
222	U27203RJ1984PTC002882	प्रशान्त एल्यूम एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
223	U51420RJ1984PTC002883	सरस्वती मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
224	U26993RJ1984PTC002889	सिग्मा प्राईवेट लिमिटेड

225	U31200RJ1984PLC002892	हिन्दुस्तान सर्किट्स लिमिटेड
226	U51395RJ1984PLC002893	किंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
227	U17124RJ1984PTC002894	कडिया फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
228	U26943RJ1984PTC002899	सोदानी सीमेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
229	U51432RJ1984PTC002903	स्वास्तिक सीमेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
230	U24117RJ1984PTC002905	दुर्गा मिनकेम प्राईवेट लिमिटेड
231	U14107RJ1984PTC002906	फ्रेण्ड्स लाइम इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
232	U24302RJ1984PTC002907	जी एस प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
233	U22122RJ1984PLC002913	राजस्थान पेरिऑडिकल्स लिमिटेड
234	U99999RJ1984PTC002914	कोपी राइट लिमिटेड
235	U74300RJ1984PTC002917	जुपिटर एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
236	U36911RJ1984PLC002921	याम जी लिमिटेड
237	U26943RJ1984PTC002930	मरूधर सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
238	U36911RJ1984PTC002933	राजेश मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रिज लिमिटेड
239	U14101RJ1984PTC002935	स्वापनिका टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
240	U27101RJ1984PTC002938	बजाज फार्गिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
241	U51101RJ1984PTC002949	रोहित इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
242	U14101RJ1984PTC002952	गैसवत टाइल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
243	U14101RJ1984PTC002974	मुन्दरा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
244	U45201RJ1984PTC002980	अनुपमा बिल्डर्स एण्ड कॉन्टेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
245	U17116RJ1984PTC002986	पोलीसेट सिल्क एण्ड सिन्थेटिक प्राईवेट लिमिटेड
246	U20291RJ1984PTC002987	राजगरिया वूडन इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
247	U51101RJ1984PTC002992	कॉचर इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
248	U24211RJ1984PLC002994	अजन्ता केमिकल्स इण्डिया लिमिटेड
249	U24222RJ1984PTC003008	जे के एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
250	U14101RJ1984PTC003010	मनरच मार्बल इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
251	U51109RJ1984PTC003012	स्टेन्डर्ड ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
252	U15497RJ1984PTC003017	उत्तम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
253	U51101RJ1984PTC003018	मंगलम एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
254	U74950RJ1984PTC003036	सत्यन पैकैजिंग इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
255	U22190RJ1984PLC003038	श्री विशाल प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
256	U14101RJ1984PTC003039	मजिद एण्ड ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
257	U51504RJ1984PTC003041	बन्टी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
258	U17124RJ1984PTC003042	न्यू मोडर्न टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
259	U55101RJ1984PTC003044	मोटल अमर प्राईवेट लिमिटेड
260	U17114RJ1984PTC003045	महावीर प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
261	U14101RJ1984PTC003046	पोलीस्टॉन इण्डस्ट्रिज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
262	U99999RJ1984PTC003048	श्री शिवा स्पिनर्स लिमिटेड
263	U63040RJ1984PTC003052	राजस्थान टेड एण्ड टेक्स्ट प्राईवेट लिमिटेड
264	U14101RJ1984PTC003057	कोटा स्क्रॉन एण्ड मार्बल्स इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
265	U17222RJ1984PTC003059	जयपुर कारपेट्स एमएफजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
266	U14101RJ1984PTC003061	सबको इमेरोस्टॉन को प्राईवेट लिमिटेड
267	U24232RJ1984PLC003065	खेतान केमिकल्स लिमिटेड
268	U31103RJ1984PTC003072	माधव हाईटेच-टागा इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डिया प्रा लि
269	U26956RJ1984PTC003074	एवरैस्ट स्क्रॉनवेयर पार्पस प्राईवेट लिमिटेड

270	U24232RJ1984PTC003078	ग्यो इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
271	U13195RJ1984PTC003081	गुप्ता लेबोरीज प्राईवेट लिमिटेड
272	U26943RJ1984PTC003082	कोटपुतली सीमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
273	U64201RJ1984PTC003090	एनर्जी एण्ड कॉम्युनिकेशन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
274	U36911RJ1984PTC003092	शिबा इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
275	U92111RJ1984PTC003099	मनार्च फिल्मस कॉम्बाइन्ड प्राईवेट लिमिटेड
276	U15143RJ1984PTC003100	आकाश दीप ऑयल इन्डस प्राईवेट लिमिटेड
277	U51505RJ1984PTC003110	वेस्ट इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स क० प्राईवेट लिमिटेड
278	U22122RJ1984PTC003113	सेन्टर सब्सक्रिप्शन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
279	U24304RJ1984PTC003115	श्री भगवती सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
280	U14101RJ1984PTC003119	ख्याति मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
281	U45201RJ1984PTC003127	विनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
282	U99999RJ1984PTC003128	सिन्थिको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
283	U70101RJ1984PTC003130	एस आर एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
284	U26943RJ1984PTC003131	जवाई सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
285	U24119RJ1984PTC003135	राजस्थान एक्टीवेटेड अर्थस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
286	U24119RJ1984PTC003137	प्रेकम्बेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
287	U26943RJ1984PTC003155	श्री शक्ति सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
288	U14102RJ1984PTC003168	मरूधर ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
289	U27310RJ1984PTC003169	नाथर्न कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
290	U24304RJ1986PLC003696	हर्षा सिन्थेटिक इण्डस्ट्री लिमिटेड
291	U70101RJ1986PTC003698	शिव सोया प्रापर्टीज एण्ड इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
292	U17117RJ1986PTC003707	के स्ओन कनिटिंग प्राईवेट लिमिटेड
293	U72100RJ1986PLC003711	प्रोफाईल सिस्टम लिमिटेड
294	U28129RJ1986PTC003713	एस एस एम इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
295	U33301RJ1986PLC003716	अल्फा सिमेक्स टेक्नोलॉजिज लिमिटेड
296	U17115RJ1986PTC003717	पनुसे प्राईवेट लिमिटेड
297	U26943RJ1986PTC003723	स्वाती सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
298	U27101RJ1986PTC003724	एक्यूरेट स्पिनिंग स्पेरेस प्राईवेट लिमिटेड
299	U51101RJ1986PTC003736	मरूधर मार्केटिंग क० प्राईवेट लिमिटेड
300	U74210RJ1986PTC003745	मिगटी आरवेद फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
301	U24233RJ1986PTC003748	राजवेदय आयुर्वेद फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
302	U22211RJ1986PTC003754	कोमचेक प्राईवेट लिमिटेड
303	U14101RJ1986PTC003759	पंचोली स्ओन इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
304	U51395RJ1986PTC003763	सिनेसोनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
305	U25209RJ1986PTC003764	अरोडा इलडी प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
306	U15499RJ1986PTC003769	श्रीराम फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
307	U17124RJ1986PTC003776	श्री गौरव टेक्सटाईल इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
308	U70101RJ1986PTC003781	सेरा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
309	U27107RJ1986PTC003805	श्रीनिवास मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
310	U18108RJ1986PTC003807	पोद्दार सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
311	U15491RJ1986PTC003818	पिनकन टी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
312	U27107RJ1986PLC003820	श्री जैन पाइप्स लिमिटेड
313	U29299RJ1986PLC003821	क्वील्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
314	U14101RJ1986PTC003824	डायमण्ड स्ओन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

315	U51395RJ1986PTC003825	सनसाइन इलेक्ट्रो प्राईवेट लिमिटेड
316	U11201RJ1986PTC003828	देसानरे कन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
317	U92112RJ1986PTC003833	मूकन्द फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
318	U99999RJ1986PTC003841	जौहरी लाल मदन गोपाल प्राईवेट लिमिटेड
319	U28129RJ1987PTC003843	पिंक सिटी कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
320	U51101RJ1987PTC003844	क्लासिक मार्केटिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
321	U72100RJ1987PTC003845	कम्पकन कम्प्यूटरफोर्मस प्राईवेट लिमिटेड
322	U25191RJ1987PTC003850	सनसाइन रबड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
323	U24304RJ1987PTC003851	श्रीराम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
324	U25191RJ1987PTC003852	मेरुधर रबडस प्राईवेट लिमिटेड
325	U63040RJ1987PTC003862	अंतरेक ट्यूर्स प्राईवेट लिमिटेड
326	U67120RJ1987PTC003869	जय हनुमान फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
327	U74140RJ1987PTC003870	सॉफ्ट वेयर कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
328	U51395RJ1987PTC003875	गणपति इलेक्ट्रो प्राईवेट लिमिटेड
329	U15141RJ1987PTC003879	केशवा ऑयल एण्ड फूड प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
330	U32304RJ1987PLC003880	प्रोन्डिंग इण्डिया लिमिटेड
331	U29212RJ1987PTC003888	एग्रिमेन थ्रेमिस प्राईवेट लिमिटेड
332	U24117RJ1987PTC003893	कमल मोहन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
333	U24107RJ1987PTC003896	उम्मेद केमिकल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
334	U14101RJ1987PTC003907	बाहुबली मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
335	U51101RJ1987PTC003908	नीलाचेल टूडर्स प्राईवेट लिमिटेड
336	U29307RJ1987PLC003909	कोठारी बिजनेस हाउस लिमिटेड
337	U17114RJ1987PTC003926	कॉन्टीनेन्टल पोलिपैक प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

स. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/1019--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विघटित कर दी गई हैं :-

S.NO.	CIN NO.	COMPANY NAME
1	U70101RJ1996PTC013028	रिओ एस्टेट एण्ड फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
2	U55101RJ1996PTC013032	होटल ग्रीन व्यू प्राईवेट लिमिटेड
3	U20299RJ1997PTC013145	फनटास्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4	U27107RJ1997PTC013186	सूर्यकमल मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
5	U74210RJ1997PTC013272	ओरबिट टेक्निको प्राईवेट लिमिटेड
6	U45201RJ1997PTC013321	जाजोडिया बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
7	U63040RJ1997PTC013359	स्फायर टेक्स् प्राईवेट लिमिटेड
8	U29299RJ1997PTC013376	नीलू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9	U70101RJ1997PTC013425	अस्टा ग्रीन फिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
10	U27107RJ1997PTC013439	स्वास्ति क्वालिटी स्टीप्स प्राईवेट लिमिटेड
11	U67120RJ1997PTC013441	शिव शांति सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
12	U24117RJ1997PTC013449	अक्षिता पेराफिन वेक्स लिमिटेड
13	U67120RJ1997PTC013453	कंचनदीप फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
14	U67120RJ1997PTC013454	रिया फिन इन केप लिमिटेड
15	U14219RJ1997PTC013466	जेमिनी मेटेरियल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
16	U26943RJ1997PTC013473	स्टेनफोर्ड सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17	U24114RJ1997PTC013491	पूनम डाई केम प्राईवेट लिमिटेड
18	U31909RJ1997PTC013503	टांग्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19	U28939RJ1997PTC013512	सेण्डविच डायमण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
20	U45201RJ1997PTC013521	अशोक कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
21	U21012RJ1997PTC013548	ब्रज पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
22	U67120RJ1997PTC013580	मुस्कान गिफ्ट एण्ड फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
23	U14219RJ1997PTC013650	ब्रजवासी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
24	U45201RJ1997PTC013655	ठोलिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
25	U45201RJ1997PTC013716	फतेह कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
26	U36911RJ1997PTC013734	स्पेक्ट्रम जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
27	U24167RJ1997PTC013755	सर्वगया केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
28	U36911RJ1997PTC013764	एसेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
29	U72200RJ1997PTC013795	वान सोफ्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30	U15142RJ1997PTC013803	आर. जेसल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
31	U27107RJ1997PTC013804	गुप्ता फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
32	U18108RJ1997PTC013814	जया सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
33	U74950RJ1997PTC013913	आरजीपी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
34	U55101RJ1997PTC013947	विजन्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
35	U45201RJ1997PTC013980	मारवल कलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
36	U70109RJ1997PLC013989	थार इण्डिया फोरेस्ट्स लिमिटेड

37	U72200RJ1997PTC014004	सूजाता इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
38	U64204RJ1997PTC014011	साइगनेट टेलीकम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
39	U67120RJ1997PTC014018	चाचन फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
40	U27107RJ1997PTC014066	श्री जी आई मेटल्स ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
41	U70109RJ1997PLC014079	वित्तपती फोरेस्टस लिमिटेड
42	U70109RJ1997PTC014085	लेजोन फोरेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
43	U74210RJ1997PTC014112	भीलवाडा सवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
44	U18101RJ1997PTC014121	देकार एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
45	U74994RJ1997PTC014130	सन्तोष डेकोरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
46	U45201RJ1997PTC014133	कंछवाहा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
47	U55101RJ1997PTC014135	पनघट होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
48	U67120RJ1997PLC014137	वेलकम एग्रो एण्ड इनफिन लिमिटेड
49	U55102RJ1997PTC014165	बिडाजी रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
50	U51211RJ1997PLC014183	सपना फारमर्स प्राईवेट लिमिटेड
51	U17117RJ1997PTC014186	डेल्टा सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
52	U24111RJ1997PTC014190	मारवाड पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
53	U67120RJ1997PLC014192	खूशबू फिनकेप लिमिटेड
54	U62200RJ1997PTC014198	सांवरिया एयर प्राईवेट लिमिटेड
55	U67120RJ1997PTC014220	दाध देवी फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
56	U22211RJ1997PTC014225	मेरिडियन टेक्नोप्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
57	U36911RJ1997PTC014236	एम आर सी जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
58	U25201RJ1997PTC014237	खेमी अग्नि दमन प्राईवेट लिमिटेड
59	U26943RJ1997PTC014249	एस आर वी सीमेन्ट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
60	U92112RJ1997PTC014257	बिग बोस मिडिया इन्टरटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
61	U25209RJ1997PTC014264	वृषभ पोलिप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
62	U92413RJ1997PLC014287	एक्सल पोलो लिमिटेड
63	U45201RJ1997PTC014297	अनिल पदम कन्सल्टेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
64	U18108RJ1997PTC014300	एलीजेन्ट सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
65	U74940RJ1997PTC014329	सुप्रीम फोटो क्यएसएूस प्राईवेट लिमिटेड
66	U63022RJ1997PTC014341	रामप्रसाद कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
67	U51432RJ1997PTC014357	जी सी एम बिल्ड-कोन प्राईवेट लिमिटेड
68	U26933RJ1997PTC014387	शंखेस्वर सिरमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
69	U70109RJ1997PLC014398	श्री बालाजी फोरेस्टस इण्डिया लिमिटेड
70	U92199RJ1997PTC014409	अशोक वाटिका एम्युजमेन्ट पार्क प्राईवेट लिमिटेड
71	U72200RJ1997PTC014439	एप्लीकेशन कॉम्प्यू सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
72	U74999RJ1997PTC014460	खूशबू ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
73	U31432RJ1997PTC014490	डायल मी होम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
74	U36111RJ1997PTC014530	एक्सोटिक अप्रैल्स प्राईवेट लिमिटेड

75	U70109RJ1998PTC014559	गोल्डरेन्ज फारमिंग प्राईवेट लिमिटेड
76	U60210RJ1998PTC014563	हर्ष हाईजिन प्राईवेट लिमिटेड
77	U60210RJ1998PTC014565	जामेश्वर दान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
78	U74140RJ1998PTC014577	पी जी वी रिलेशन पॉइण्ट प्राईवेट लिमिटेड
79	U70109RJ1998PLC014591	सी जी एम फोरेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
80	U72100RJ1998PTC014595	श्रीलाडलीजी कम्प्यूटर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
81	U63022RJ1998PTC014601	बाबा कूजगिरी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
82	U70109RJ1998PLC014616	उमीद ग्रीन फोरेस्ट लिमिटेड
83	U25201RJ1998PTC014626	सूमित प्लास्टिकेम प्राईवेट लिमिटेड
84	U29299RJ1998PTC014627	मयंक फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
85	U72200RJ1998PTC014631	हेमकून्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
86	U25201RJ1998PTC014636	पेटसन इन्टरमिडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
87	U67120RJ1998PTC014638	धनलक्ष्मी क्वाण्टिफाइन्स फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड
88	U25209RJ1998PTC014642	बाबा रामदेव प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
89	U60210RJ1998PTC014649	शिभू दान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
90	U85110RJ1998PTC014680	अम्बिका हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
91	U70101RJ1998PTC014684	मयानिया रियल स्टेट्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
92	U63040RJ1998PTC014685	रॉयल जर्नीज प्राईवेट लिमिटेड
93	U63022RJ1998PTC014688	कूलवाल कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
94	U92111RJ1998PTC014712	रेड स्कवायर कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
95	U74300RJ1998PTC014724	अक्सीओम कंटेनर मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
96	U31909RJ1998PTC014734	एपीएफ डेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
97	U51109RJ1998PTC014741	ओ के ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
98	U51311RJ1998PTC014748	जीएलजे एक्सएल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
99	U14219RJ1998PTC014750	एम अशफिया सिलीकेट प्राईवेट लिमिटेड
100	U92199RJ1998PTC014765	भारद्वाज इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
101	U25201RJ1998PTC014783	सूप्रा काफ्ट इन्डैड प्राईवेट लिमिटेड
102	U67120RJ1998PLC014786	जान अर्पण वित्त विकास लिमिटेड
103	U67120RJ1998PTC014799	कृष्ण शुभम फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
104	U51311RJ1998PTC014800	सुरक्षा मरकेन्टाइल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
105	U67120RJ1998PTC014809	स्वोट केपिटल प्राईवेट लिमिटेड
106	U92112RJ1998PTC014821	पिंक फिल्म प्राईवेट लिमिटेड
107	U92199RJ1998PTC014838	बूस्कर्स इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
108	U51311RJ1998PTC014844	ए भानू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
109	U29299RJ1998PTC014846	डे पोल्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
110	U70101RJ1998PTC014879	शिव शक्ति प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
111	U72200RJ1998PTC014883	ब्रह्मा सोलेक्स यूरो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
112	U27107RJ1998PTC014910	सुरेश चन्द जैन स्टील रिलीजिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

113	U74900RJ1998PTC014914	पानपेट पेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
114	U67120RJ1998PTC014922	सनबीम शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
115	U31300RJ1998PTC014923	साथी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
116	U72200RJ1998PTC014935	लिव लाइन कम्प्यूटर्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
117	U55101RJ1998PTC014937	ए एस टी होटल्स एण्ड मोटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
118	U17118RJ1998PTC014939	इक्स्टेसी ट्यूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
119	U55101RJ1998PLC014950	एमवे होटल्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
120	U55102RJ1998PTC014976	एम एफ ए हैरीटेज रिसोर्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
121	U55101RJ1998PLC014977	सिमरिंग होरीजन्स रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
122	U51311RJ1998PLC015047	मेघाहर्टेज सर्विसेज एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
123	U70101RJ1998PTC015059	घान्ना स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
124	U26933RJ1998PTC015061	प्रिती सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
125	U80302RJ1998PTC015081	जयपुर इन्सटीट्यूट ऑफ इन्टेग्रेटेड एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
126	U91102RJ1998PTC015095	टॉपब्रास इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
127	U85199RJ1998PTC015110	एमी ओरथोपेडिक्स एप्लाएन्सेज प्राईवेट लिमिटेड
128	U65992RJ1998PTC015111	बशीर चिदस प्राईवेट लिमिटेड
129	U32303RJ1998PTC015118	बी.आर. कैसेट्स प्राईवेट लिमिटेड
130	U31300RJ1998PTC015123	एम के जी वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
131	U74140RJ1998PTC015130	सिटीलाइफ फेसिलिटी कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
132	U24232RJ1998PLC015154	मारक्यू फार्माकेम प्राईवेट लिमिटेड
133	U24117RJ1998PTC015160	पदमावती डाई स्टैफ्स प्राईवेट लिमिटेड
134	U24117RJ1998PTC015162	धरती धन मिनीकेम प्राईवेट लिमिटेड
135	U63090RJ1998PTC015164	शुभम ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
136	U18101RJ1998PTC015169	गुनाटीट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
137	U31300RJ1998PTC015196	जगदम्बिका वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
138	U99999RJ1999PLC015198	बीलम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
139	U74950RJ1998PTC015201	च्वाइस पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
140	U55101RJ1998PTC015202	रूबिका रिजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
141	U55101RJ1998PTC015203	गंधर्व रिजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
142	U74140RJ1998PTC015211	अनन्त प्रोफेशनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
143	U74910RJ1998PLC015228	ओमनी कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
144	U74300RJ1998PTC015248	देवश्रि एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
145	U92199RJ1998PTC015250	सनसिटी केबल नेट वर्क प्राईवेट लिमिटेड
146	U92411RJ1998PTC015255	सज्जन गोथ कल्ब प्राईवेट लिमिटेड
147	U27107RJ1998PTC015259	श्रीजी स्टेनलेस यूटेनसिल्स प्राईवेट लिमिटेड
148	U74300RJ1998PTC015295	श्रीजी स्क्रीन कम्प्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
149	U29299RJ1999PTC015297	सिलिकोन इंजिनियर्स एण्ड मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड
150	U55101RJ1999PTC015300	नाकोडा नेचुरल रिसोर्ट्स एण्ड इन्स प्राईवेट लिमिटेड
151	U29120RJ1999PTC015307	उदयपुर हाईड्रोलेक्स एण्ड डिजल्स प्राईवेट लिमिटेड

152	U15101RJ1999PTC015317	अहिम्सा ग्रीन्स प्राईवेट लिमिटेड
153	U15142RJ1999PTC015320	आदिनाथ खाडया टेल प्राईवेट लिमिटेड
154	U72200RJ1999PTC015335	आर्या इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
155	U72200RJ1999PTC015340	इनज इनफोवेयर प्राईवेट लिमिटेड
156	U74140RJ1999PTC015345	वाक कन्सुल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
157	U74140RJ1999PTC015349	अर्चिता प्रकाश कन्सुल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
158	U51102RJ1999PTC015351	टीआरजी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
159	U92112RJ1999PTC015352	जेपिया मुविज प्राईवेट लिमिटेड
160	U74999RJ1999PTC015364	विस्तार कार्ड एण्ड मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
161	U18101RJ1999PTC015377	बेक्वीन टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
162	U63040RJ1999PTC015379	मुस्तफा टेक्स् एण्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
163	U15142RJ1999PTC015392	मदर ग्रीन पोलीहाउस प्राईवेट लिमिटेड
164	U92199RJ1999PTC015407	पिंक सिटी पैलेस एण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
165	U15142RJ1999PTC015410	कुन्ती एरोमा प्राईवेट लिमिटेड
166	U14219RJ1999PTC015411	ए पी माइन्स एण्ड इक्यूपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
167	U55102RJ1999PTC015423	देक एन इनजॉय होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
168	U74999RJ1999PTC015426	रॉयल मर्कन्टाईल फेसिलिटी कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
169	U29299RJ1999PTC015471	नागर एग्री इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
170	U52190RJ1999PTC015492	मिसन नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
171	U74999RJ1999PTC015495	जितेन्द्रा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
172	U74910RJ1999PTC015501	बीपीएस पैलेसमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
173	U55101RJ1999PTC015502	सालूज लेजर प्राईवेट लिमिटेड
174	U55102RJ1999PTC015517	भैरो तालाब हैरिटेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
175	U55102RJ1999PTC015520	सिद्धार्थ अतिथि रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
176	U92199RJ1999PTC015521	सिद्धार्थ एम्यजमेन्ट पार्क प्राईवेट लिमिटेड
177	U51214RJ1999PTC015530	रॉयल ओरचिड बायोटेक एण्ड टिसू कल्चर प्राईवेट लिमिटेड
178	U59214RJ1999PTC015534	उदयपुर गारलिको प्राईवेट लिमिटेड
179	U15141RJ1999PTC015548	ऐ वी वनस्पति लिमिटेड
180	U55101RJ1999PTC015551	सिन्टेनिएल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
181	U74995RJ1999PTC015563	लाइफलाइन कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
182	U63040RJ1999PTC015568	झरोखा ट्यूरर्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
183	U72200RJ1999PTC015569	शिवानी कॉम्प्यूसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
184	U72200RJ1999PTC015586	रेणुका कम्प्यूटर एण्ड एजुकेशन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
185	U17115RJ1999PLC015592	बीकानेर कॉटन लिमिटेड
186	U74999RJ1999PTC015593	रेर आर्ट्स एण्ड काप्टस प्राईवेट लिमिटेड
187	U72200RJ1999PTC015598	जी के कोमपू हट प्राईवेट लिमिटेड
188	U55101RJ1999PTC015600	राज हैरिटेज होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
189	U45201RJ1999PTC015617	तौसिक कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
190	U85110RJ1999PTC015636	श्री चम्पादीप हॉस्पिटलीटी एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड

191	U22122RJ1999PTC015689	मंजूश्री पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
192	U15142RJ1999PTC015699	परज्योत टैडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
193	U23201RJ1999PTC015704	जगदीश पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
194	U29299RJ1999PTC015707	जलधारा मिटर्स प्राईवेट लिमिटेड
195	U45201RJ1999PTC015712	अनीदी कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
196	U51201RJ1999PTC015728	एमवीएस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
197	U31300RJ1999PTC015729	आदर्श कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
198	U72200RJ1999PTC015730	असावा इनफोनेट मेनजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
199	U51211RJ1999PTC015736	खेतान एप्रोकेयर प्राईवेट लिमिटेड
200	U15495RJ1999PTC015752	उदयपुर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
201	U70109RJ1999PTC015759	नटारा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
202	U55101RJ1999PTC015767	होटल टिपटोप प्राईवेट लिमिटेड
203	U23201RJ1999PTC015776	विकास पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
204	U60231RJ1999PTC015827	बंसीवाल कारगो मुवर्स प्राईवेट लिमिटेड
205	U25191RJ1999PTC015830	शिव पार्वती प्लास्टिक प्रोड्युक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
206	U33112RJ1999PTC015838	अरावली सरजीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
207	U29211RJ1999PTC015840	सारण टेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
208	U92120RJ1999PTC015858	प्रवीण थिएटर्स प्राईवेट लिमिटेड
209	U17117RJ1999PTC015860	मदन वूलन्स प्राईवेट लिमिटेड
210	U60221RJ1999PTC015865	रेज फ्रेट लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
211	U72100RJ1999PTC015878	मिडास इनफोकॉम प्राईवेट लिमिटेड
212	U63022RJ1999PTC015894	डायमेक्स कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
213	U72200RJ1999PTC015908	शिवम इनफोवेज प्राईवेट लिमिटेड
214	U92120RJ1999PTC015910	रिचा थिएटर्स प्राईवेट लिमिटेड
215	U18108RJ1999PTC015914	शिव शक्ति सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
216	U63022RJ1999PTC015940	यूरो कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
217	U72200RJ1999PTC015953	किश इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
218	U51109RJ1999PTC016002	दीपमाला डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
219	U85110RJ1999PTC016030	रैक हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड
220	U25202RJ1999PTC016069	कंवर पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
221	U15142RJ2000PTC016098	कल्याण श्री गायत्री एप्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
222	U74190RJ2000PTC016481	वी ए जे कन्सुलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
223	U52190RJ2000PTC016615	फ्यूचर गोल्डन टैडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
224	U74920RJ2000PTC016651	टास्क सेक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
225	U31200RJ2000PLC016656	वागड प्लास्मोटिक पावर कम्पोनेन्ट लिमिटेड
226	U85110RJ2000PTC016675	राजस्थान कार्डिएक विजन प्राईवेट लिमिटेड
227	U60221RJ2000PTC016689	स्वास्तिक ट्रांजिट मिक्सर प्राईवेट लिमिटेड

228	U67120RJ2000PTC016691	कचोलिया शोयर्स एण्ड स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
229	U51109RJ2000PLC016722	एसेन्ट मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
230	U22219RJ2000PTC016731	साबू रोटो प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
231	U72200RJ2000PTC016746	गिल्ड इनफोसिस प्राईवेट लिमिटेड
232	U52110RJ2000PTC016765	सत्य हरी ओम ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
233	U55101RJ2000PTC016784	रूप श्री सरोवर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
234	U72200RJ2000PTC016786	एमवी मेडिटेरेन्स ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड
235	U70100RJ2001PTC016809	एम बी एस बिल्डर्स एण्ड रिसोर्ट्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
236	U72200RJ2001PTC016814	नलीन इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
237	U74999RJ2001PTC016841	हेल्पटाइम इन्फॉर्मेशन एण्ड मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
238	U36911RJ2001PTC016849	एम डी रतनाम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
239	U72200RJ2001PTC016851	यूनिक टेलिलिंक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
240	U80301RJ2001PTC016855	न्यूट्रोन एक्सपर्ट्स एजुकेशन डवलपमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
241	U74920RJ2001PTC016863	टॉप सेक्रेट डिटेक्टिव सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
242	U52190RJ2001PTC016867	नेवाय सोपी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
243	U85110RJ2001PTC016883	डूबे हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
244	U72200RJ2001PTC016892	एस जी कम्प्यूटिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
245	U51909RJ2001PTC016895	अनुपम सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
246	U27201RJ2001PTC016901	वी आई एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
247	U70100RJ2001PTC016968	ए एण्ड एस लैण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
248	U72200RJ2001PTC016969	ओजा कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
249	U74999RJ2001PTC016974	वार्मिंग फर्निचर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
250	U80302RJ2001PTC016979	फ्यूचरिस्टिक साइकोमेडिक सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
251	U24100RJ2001PTC016980	मानस एल्यूम्स प्राईवेट लिमिटेड
252	U72200RJ2001PTC016981	सनसिटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
253	U72200RJ2001PTC016984	कृति किएशन्स कम्प्यूटर एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
254	U51109RJ2001PTC017007	देशवाल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
255	U55109RJ2001PTC017044	हस्ता-ला-विस्ता रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
256	U74920RJ2001PTC017087	आइवेज सेक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
257	U55102RJ2001PTC017112	डून्डलोद पैलेस होटल प्राईवेट लिमिटेड
258	U74920RJ2001PTC017124	गोडराइज सेक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
259	U85110RJ2001PTC017144	एम एम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
260	U51395RJ2001PTC017174	शूटरिच इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
261	U31102RJ2001PTC017189	आर्यन इलेक्ट्रोडिवासेज प्राईवेट लिमिटेड
262	U70101RJ2001PTC017211	श्री सिद्धि विनायक कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
263	U74140RJ2001PTC017215	मेन्त्री टेली-सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
264	U80302RJ2001PTC017232	इम्पल्स एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-45201/आरजे/1997-पीटीसी 013521/1597--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अशोक कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-45201/आरजे/1997-पीटीसी/014133/1649--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कच्छवा

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-26943/आरजे/1997-पीटीसी/014249/1675--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस आर वी सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रामप्रसाद कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63022/आरजे/1997-पीटीसी/014341/1689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रामप्रसाद कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. सी. एम. बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51432/आरजे/1997-पीटीसी/014357/1691--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जी. सी. एम. बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्कॅंस्वर सीरिमिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-26933/आरजे/1997-पीटीसी/014387/1693--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्कॅंस्वर सीरिमिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री बालाजी फोरेस्ट्स इण्डिया लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70109/आरजे/1997-पीएलसी/014398/1695--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा

(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री बालाजी फोरेस्ट्स इण्डिया लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अशोक वाटिका एम्यूजमेंट पार्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92190/आरजे/1997-पीटीसी/014398/1697--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अशोक वाटिका एम्यूजमेंट पार्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एप्लिकेशन कम्प्यू-साफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1997-पीटीसी/014439/1699--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एप्लिकेशन कम्प्यू-साफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खुशबू ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74990/आरजे/1997-पीटीसी/014409/1701--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा

(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खुशबू ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डायल मी होम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31432/आरजे/1997-पीटीसी/014490/1703--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डायल मी होम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एजोटिक एपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-36111/आरजे/1997-पीटीसी/014530/1705--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एजोटिक एपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्डरेंज फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70109/आरजे/1998-पीटीसी/014559/1707--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोल्डरेंज

फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हर्ष हाईजिन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-60210/आरजे/1998-पीटीसी/014563/1709--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हर्ष हाईजिन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ज्ञामेश्वर ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-60210/आरजे/1998-पीटीसी/014565/1711--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ज्ञामेश्वर ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. जी. वी. रिलेशन पोईन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74140/आरजे/1998-पीटीसी/014577/1713--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी.जी. वी. रिलेशन पोईन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी. जी. एम. फोरेस्ट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70109/आरजे/1998-पीएलसी/014591/1715--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सी. जी. एम. फोरेस्ट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उम्मीद ग्रीन फोरेस्ट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70109/आरजे/1998-पीएलसी/014616/1721--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उम्मीद ग्रीन फोरेस्ट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री लाडली जी कम्प्यूटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72100/आरजे/1998-पीटीसी/014595/1717--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री लाडली जी कम्प्यूटर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमित प्लास्टिकेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-25201/आरजे/1998-पीटीसी/014626/1723--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुमित प्लास्टिकेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाबा कुन्जगिरी कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63022/आरजे/1998-पीटीसी/014601/1719--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बाबा कुन्जगिरी कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मयंक फेब्रीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-29299/आरजे/1998-पीटीसी/014627/1725--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मयंक फेब्रीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेमकुन्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1998-पीटीसी/014631/1727--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेमकुन्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाबा रामदेव प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-25209/आरजे/1998-पीटीसी/014642/1733--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बाबा रामदेव प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेटसोन इन्टरमीडियेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-25201/आरजे/1998-पीटीसी/014636/1729--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेटसोन इन्टरमीडियेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिभू ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-60210/आरजे/1998-पीटीसी/014649/1735--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिभू ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धनलक्ष्मी क्रियेशन्स फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1998-पीटीसी/014638/1731--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स धनलक्ष्मी क्रियेशन्स फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अम्बिका होस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-85110/आरजे/1998-पीटीसी/014680/1737--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अम्बिका होस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मथानिया रियल एस्टेट्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70101/आरजे/1998-पीटीसी/014684/1739--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मथानिया रियल एस्टेट्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेड स्क्वायर कम्प्यूनिक्शंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92111/आरजे/1998-पीटीसी/014712/1745--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेड स्क्वायर कम्प्यूनिक्शंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोयल जरनिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63040/आरजे/1998-पीटीसी/014685/1741--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोयल जरनिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एग्जिओम क्रियेटिव मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74300/आरजे/1998-पीटीसी/014724/1747--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एग्जिओम क्रियेटिव मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कूलवाल कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63022/आरजे/1998-पीटीसी/014688/1743--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कूलवाल कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एपीएफ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31909/आरजे/1998-पीटीसी/014734/1749--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एपीएफ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1998-पीएलसी/
014786/1761--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जन
अर्पण वित्त विकास लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्ण शुभम फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1998-पीटीसी/014799/1763--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृष्ण शुभम फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिंग फिल्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92112/आरजे/1998-पीटीसी/014821/1769--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पिंग फिल्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुरक्षा मर्केंटाईल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51311/आरजे/1998-पीटीसी/014800/1765--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुरक्षा मर्केंटाईल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बुक्स एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92199/आरजे/1998-पीटीसी/014838/1771--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बुक्स एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वोट केपिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1998-पीटीसी/014809/1767--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वोट केपिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. भानू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51311/आरजे/1998-पीटीसी/014844/1773--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. भानू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. पोल्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-29299/आरजे/1998-पीटीसी/014846/1775--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डी. पोल्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुरेश चन्द जैन स्टील रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-27107/आरजे/1998-पीटीसी/014910/1781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुरेश चन्द जैन स्टील रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिव शक्ति प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70101/आरजे/1998-पीटीसी/014879/1777--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिव शक्ति प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पानपेट पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74900/आरजे/1998-पीटीसी/014914/1781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पानपेट पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रह्मा सोलेक्स यूरो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1998-पीटीसी/014883/1779--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रह्मा सोलेक्स यूरो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनबीम शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1998-पीटीसी/014922/1785--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनबीम शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया

गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साथी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31300/आरजे/1998-पीटीसी/014923/1787--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साथी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सटेसी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-17118/आरजे/1998-पीटीसी/014939/1793--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सटेसी टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लाईव लाईन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1998-पीटीसी/014935/1789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लाईव लाईन कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमवे होटल एण्ड डेवेलपर्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1998-पीएलसी/014950/1795--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमवे होटल एण्ड डेवेलपर्स लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एस. टी. होटल्स एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1998-पीटीसी/014937/1791--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. एस. टी. होटल्स एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. एफ. ए. हैरिटेज रिसोर्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55102/आरजे/1998-पीटीसी/014976/1795--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. एफ. ए. हैरिटेज रिसोर्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिमैरिंग होरीजॉस रिसोर्ट्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1998-पीएलसी/014977/1799--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिमैरिंग होरीजॉस रिसोर्ट्स लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीती सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-26933/आरजे/1998-पीटीसी/015061/1805--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रीती सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगाहर्ज सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51311/आरजे/1998-पीएलसी/015047/1801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेगाहर्ज सर्विसेज एण्ड मार्केटिंग लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयपुर इंस्टीट्यूट आफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-80302/आरजे/1998-पीटीसी/015081/1807--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयपुर इंस्टीट्यूट आफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गन्ना स्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70101/आरजे/1998-पीटीसी/015059/1803--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गन्ना स्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टापब्रास इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-91102/आरजे/1998-पीटीसी/015095/1809--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टापब्रास इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-24232/आरजे/1998-पीएलसी/015154/1821--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मार्क्यू फार्मा केम लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया

गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पदमावती डाई स्टप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-24117/आरजे/1998-पीटीसी/015160/1823--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पदमावती डाई स्टप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुनातित एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-18101/आरजे/1998-पीटीसी/015169/1829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुनातित एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धरती धन मिनीकेम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-24117/आरजे/1998-पीटीसी/015162/1825--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स धरती धन मिनीकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जगदम्बिका वायर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31300/आरजे/1998-पीटीसी/015196/1831--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जगदम्बिका वायर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुभम ट्रांसपोर्ट कोन्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63090/आरजे/1998-पीटीसी/015164/1827--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुभम ट्रांसपोर्ट कोन्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिलम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-99999/आरजे/1999-पीएलसी/015198/1833--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बिलम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स च्वाईस पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74950/आरजे/1998-पीटीसी/015201/1835--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स च्वाईस पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रुबेका रिजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1998-पीटीसी/015202/1837--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रुबेका रिजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गन्धर्व रिजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1998-पीटीसी/015203/1829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गन्धर्व रिजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनन्त प्रोफेशनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74140/आरजे/1998-पीटीसी/015211/1841--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनन्त प्रोफेशनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओमिनी कम्प्यूनिकेशन्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74910/आरजे/1998-पीएलसी/015228/1843--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओमिनी कम्प्यूनिकेशन्स लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देवर्षी एडवर्टाईजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74300/आरजे/1998-पीटीसी/015248/1845--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स देवर्षी एडवर्टाईजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों

के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनसिटी केबल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92199/आरजे/1998-पीटीसी/015250/1847--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनसिटी केबल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीजी स्क्रीन कम्प्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74300/आरजे/1998-पीटीसी/015295/1853--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीजी स्क्रीन कम्प्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सज्जन गोठ क्लब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92411/आरजे/1998-पीटीसी/015255/1849--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सज्जन गोठ क्लब प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेलकोन इंजीनियर्स एण्ड मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-29299/आरजे/1999-पीटीसी/015297/1855--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेलकोन इंजीनियर्स एण्ड मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीजी स्टेनलेस यूटेंसिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-27107/आरजे/1998-पीटीसी/015259/1851--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीजी स्टेनलेस यूटेंसिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाकोडा नेचूरल रिसोर्ट्स एण्ड इन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1999-पीटीसी/015300/1857--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नाकोडा नेचूरल रिसोर्ट्स एण्ड इन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उदयपुर हाईड्रोलिक्स एण्ड डीजल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-29120/आरजे/1999-पीटीसी/015307/1859--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उदयपुर हाईड्रोलिक्स एण्ड डीजल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्या इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015335/1865--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर्या इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अहिम्सा ग्रीन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15101/आरजे/1999-पीटीसी/015317/1861--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अहिम्सा ग्रीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्ज इन्फोवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015340/1867--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्ज इन्फोवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आदिनाथ खाद्य तेल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/1999-पीटीसी/015320/1863--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आदिनाथ खाद्य तेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वाक कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74140/आरजे/1999-पीटीसी/015345/1869--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वाक कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अर्चिता प्रकाश कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74140/आरजे/1999-पीटीसी/015349/1971--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अर्चिता प्रकाश कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विस्तार कार्ड एण्ड मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74999/आरजे/1999-पीटीसी/015364/1877--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विस्तार कार्ड एण्ड मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टीआरजी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51102/आरजे/1999-पीटीसी/015351/1873--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टीआरजी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीक्विन टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-18101/आरजे/1999 पीटीसी/015377/1879--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीक्विन टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेपिया मोविज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92112/आरजे/1999-पीटीसी/015352/1875--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेपिया मोविज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुश्तफा ट्रेवल्स एण्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63040/आरजे/1999-पीटीसी/015379/1881--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मुश्तफा ट्रेवल्स एण्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंदर ग्रीन पोली हाऊस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/1999-पीटीसी/015392/1883--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मंदर ग्रीन पोली हाऊस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. पी. माईन्स इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-14219/आरजे/1999-पीटीसी/015411/1889--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. पी. माईन्स इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिकसिटी पैलेस एण्ड एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92199/आरजे/1999-पीटीसी/015407/1885--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पिकसिटी पैलेस एण्ड एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रैक एन इन्जॉय होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55102/आरजे/1999-पीटीसी/015423/1891--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रैक एन इन्जॉय होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुन्ती एरोमा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/1999-पीटीसी/015410/1887--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुन्ती एरोमा प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रॉयल मर्केन्टाइल फैंसिलिटी काड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74999/आरजे/1999-पीटीसी/015426/1893--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रॉयल मर्केन्टाइल फैंसिलिटी काड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों

के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नागर एग्रो इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-29299/आरजे/1999-पीटीसी/015471/1895--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नागर एग्रो इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. पी. एस. प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74910/आरजे/1999-पीटीसी/015501/1901--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. पी. एस. प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिशन नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-52190/आरजे/1999-पीटीसी/015492/1897--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नागर एग्रो इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साल्स लेजर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1999-पीटीसी/015502/1903--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साल्स लेजर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जितेन्द्र मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74999/आरजे/1999-पीटीसी/015495/1899--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जितेन्द्र मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भैरोंतालाब हैरिटेज रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55102/आरजे/1999-पीटीसी/015517/1905--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भैरोंतालाब हैरिटेज रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिद्धार्थ अतिथि रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55102/आरजे/1999-पीटीसी/015520/1907--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिद्धार्थ अतिथि रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उदयपुर गार्लिको प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-59214/आरजे/1999-पीटीसी/015534/1913--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उदयपुर गार्लिका प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिद्धार्थ एम्पूजमेंट पार्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92199/आरजे/1999-पीटीसी/015521/1909--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिद्धार्थ एम्पूजमेंट पार्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. बी. वनस्पति लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15141/आरजे/1999-पीटीसी/015548/1915--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. बी. वनस्पति लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रॉयल आरचिड बायोटेक एण्ड टिश्यू कल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51214/आरजे/1999-पीटीसी/015530/1911--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रॉयल आरचिड बायोटेक एण्ड टिश्यू कल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेंटेनियल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1999-पीटीसी/015551/1917--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेंटेनियल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लाईफलाइन कार्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74995/आरजे/1999-पीटीसी/015563/1919--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लाईफलाइन कार्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेनुका कम्प्यूटर एण्ड एजुकेशन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015586/1925--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेनुका कम्प्यूटर एण्ड एजुकेशन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स झरोखा टूर्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63040/आरजे/1999-पीटीसी/015568/1921--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स झरोखा टूर्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीकानेर काटन्स लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-17115/आरजे/1999-पीएलसी/015592/1927--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीकानेर काटन्स लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवानी कम्प्यूसाफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015569/1923--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवानी कम्प्यूसाफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेयर आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74999/आरजे/1999-पीटीसी/015593/1929--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेयर आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. के. कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015598/1931--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जी. के. कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री चम्पादीप हासपिटैलिटी एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-85110/आरजे/1999-पीटीसी/015636/1937--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री चम्पादीप हासपिटैलिटी एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज हैरिटेज होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1999-पीटीसी/015600/1933--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राज हैरिटेज होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंजूश्री पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-22122/आरजे/1999-पीटीसी/015689/1939--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मंजूश्री पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तौशिक कंसट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-45201/आरजे/1999-पीटीसी/015617/1935--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तौशिक कंसट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रज्योत ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/1999-पीटीसी/015699/1941--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रज्योत ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जगदीश पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-23201/आरजे/1999-पीटीसी/015704/1943--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जगदीश पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. बी. एस. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51201/आरजे/1999-पीटीसी/015728/1949--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. बी. एस. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जलधारा मेटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-29299/आरजे/1999-पीटीसी/015707/1945--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जलधारा मेटर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आदर्श कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31300/आरजे/1999-पीटीसी/015729/1951--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आदर्श कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनिदि कन्शट्रक्सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-45201/आरजे/1999-पीटीसी/015712/1947--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनिदि कन्शट्रक्सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अशवा इन्फोनेट मेनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015730/1953--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अशवा इन्फोनेट मेनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होटल टीप टोप प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/1999-पीटीसी/015767/1961--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होटल टोप टोप प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विकास पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-23201/आरजे/1999-पीटीसी/015776/1963--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विकास पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बंशीवाल कारगो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपूर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. अर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-60231/आरजे/1999-पीटीसी/015827/1965-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बंशीवाल कार्पोरेट मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिव पार्वती प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-25191/आरजे/1999-पीटीसी/015830/1967--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिव पार्वती प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परवीन थियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92120/आरजे/1999-पीटीसी/015858/1973--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परवीन थियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरावली सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-33112/आरजे/1999-पीटीसी/015838/1969--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरावली सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मदन वूलन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-17117/आरजे/1999-पीटीसी/015860/1975--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मदन वूलन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरन ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-29211/आरजे/1999-पीटीसी/015840/1971--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरन ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र से काट दिया

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेयज फ्राईट लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-60221/आरजे/1999-पीटीसी/015865/1977--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेयज फ्राईट लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्र

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिडास इन्फोकोम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72100/आरजे/1999-पीटीसी/015878/1979--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिडास इन्फोकोम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिचा थियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-92120/आरजे/1999-पीटीसी/015910/1985--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिचा थियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाईमेक्स कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63022/आरजे/1999-पीटीसी/015394/1981--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डाईमेक्स कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवशक्ति शूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-18108/आरजे/1999-पीटीसी/015914/1987--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवशक्ति शूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवम इन्फोवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015908/1983--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवम इन्फोवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐरो कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63022/आरजे/1999-पीटीसी/015940/1989--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐरो कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिश इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/1999-पीटीसी/015953/1991--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रिश इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुंवर पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-25202/आरजे/1999-पीटीसी/016069/1997--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुंवर पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपमाला डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51109/आरजे/1999-पीटीसी/016002/1993--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दीपमाला डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याण श्री गायत्री एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/2000-पीटीसी/016098/1999--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कल्याण श्री गायत्री एग्रो प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रैंक हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-85110/आरजे/1999-पीटीसी/016030/1995--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रैंक हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. ए. जे. कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74190/आरजे/2000-पीटीसी/016481/2001--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. ए. जे. कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्यूचर गोल्डन ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-52190/आरजे/2000-पीटीसी/016615/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्यूचर गोल्डन ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजस्थान कार्डिक विजन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-85110/आरजे/2000-पीटीसी/016675/2009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजस्थान कार्डिक विजन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टॉस्क सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74920/आरजे/2000-पीटीसी/016651/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टॉस्क सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वास्तिक ट्रांजिट मिक्सर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-60221/आरजे/2000-पीटीसी/016689/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वास्तिक ट्रांजिट मिक्सर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वागड प्लासमोटिक पॉवर कम्पौनेंट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31200/आरजे/2000-पीएलसी/016656/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वागड प्लासमोटिक पॉवर कम्पौनेंट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कचोलिया शेयर्स एण्ड स्टोक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/2000-पीटीसी/016691--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कचोलिया शेयर्स एण्ड स्टोक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐसंट मार्केटिंग नेटवर्क लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51109/आरजे/2000-पीएलसी/016722/2015--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐसंट मार्केटिंग नेटवर्क लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सत्या हरी ओम ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-52110/आरजे/2000-पीटीसी/016765/2021--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सत्या हरी ओम ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साबू रोटे प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-22219/आरजे/2000-पीटीसी/016731/2017--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साबू रोटे प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रूप श्री सरोवर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55101/आरजे/2000-पीटीसी/016784/2023--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रूप श्री सरोवर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गिल्ड इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2000-पीटीसी/016746/2019--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गिल्ड इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. वी. मेडिट्रांस आनलाईन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2000-पीटीसी/016786/2025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. वी. मेडिट्रांस आनलाईन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. बी. एस. बिल्डर्स एण्ड रिसोर्ट्स डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70100/आरजे/2001-पीटीसी/016809/2027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. बी. एस. बिल्डर्स एण्ड रिसोर्ट्स डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. डी. रत्नम् इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-36911/आरजे/2001-पीटीसी/016849/2033--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. डी. रत्नम् इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नलिन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/016814/2029--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नलिन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स युनीक टेलीलिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/016851/2035--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स युनीक टेलीलिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेल्प टाइम इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74999/आरजे/2001-पीटीसी/016841/2031--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेल्प टाइम इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यूट्रोन एक्सपर्ट्स एजुकेशन डेवेलपमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-80301/आरजे/2001-पीटीसी/016855/2037--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यूट्रोन एक्सपर्ट्स एजुकेशन डेवेलपमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज

कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टॉप सीक्रेट डिटेक्टिव सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74920/आरजे/2001-पीटीसी/016863/2039--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टॉप सीक्रेट डिटेक्टिव सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. जी. कम्प्यूसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/016892/2045--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. जी. कम्प्यूसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यूवे शोपी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-52190/आरजे/2001-पीटीसी/016867/2041--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यूवे शोपी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुपम सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51909/आरजे/2001-पीटीसी/016895/2047--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनुपम सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दूबे हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-85110/आरजे/2001-पीटीसी/016883/2043--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दूबे हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. आई. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-27201/आरजे/2001-पीटीसी/016901/2049--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी. आई. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एण्ड एस. लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70100/आरजे/2001-पीटीसी/016968/2051--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. एण्ड एस. लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्यूचुरिस्टिक साइकोमैट्रिक सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-80302/आरजे/2001-पीटीसी/016979/2057--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्यूचुरिस्टिक साइकोमैट्रिक सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओझा कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/016969/2053--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओझा कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मानस एलम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-24100/आरजे/2001-पीटीसी/016980/2059--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मानस एलम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विधित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चार्मिंग फ्यूचर इन्फोमेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74999/आरजे/2001-पीटीसी/016974/2055--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चार्मिंग फ्यूचर इन्फोमेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनसिटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/016981/2061--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनसिटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रांति क्रिएशन कम्प्यूटर
एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/
016984/2063--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रांति
क्रिएशन कम्प्यूटर एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों
के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना
के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आईवाज सिक्कूरिटी सर्विसेज
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74920/आरजे/2001-पीटीसी/
017087/2069--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आईवाज
सिक्कूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन
की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स देशवाले मार्केटिंग प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51109/आरजे/2001-पीटीसी/
017007/2065--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स देशवाले
मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट
दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की
तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डुन्डलोड पैलेस होटल प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55102/आरजे/2001-पीटीसी/
017112/2071--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डुन्डलोड
पैलेस होटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से
काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन
की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हस्ता-ला-विस्ता रिसोर्ट्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55109/आरजे/2001-पीटीसी/
017044/2067--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स
हस्ता-ला-विस्ता रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोड राईज सिक्कूरिटी सर्विसेज
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74920/आरजे/2001-पीटीसी/
017124/2073--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोड
राईज सिक्कूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एम. हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-85110/आरजे/2001-पीटीसी/017144/2075--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. एम. हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री सिद्धी विनायक कालोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-70101/आरजे/2001-पीटीसी/017211/2081--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री सिद्धी विनायक कालोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुतरिच एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51395/आरजे/2001-पीटीसी/017174/2077--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुतरिच एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेजी प्ले सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74140/आरजे/2001-पीटीसी/017215/2083--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेजी प्ले सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्यन इलेक्ट्रोडेविस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31102/आरजे/2001-पीटीसी/017189/2079--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर्यन इलेक्ट्रोडेविस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इम्युल्से एजूकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-80302/आरजे/2001-पीटीसी/017232/2085--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इम्युल्से एजूकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31300/आरजे/1986-पीटीसी/003756/2097--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री वायर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया

है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स समरसन्स डेकोर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. अर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74994/आरजे/1986-पीटीसी/003765/2099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स समरसन्स डेकोर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एल. पी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. अर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51101/आरजे/1994-पीटीसी/008538/2105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एल. पी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माला इलेक्ट्रोडैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. अर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-51395/आरजे/1987-पीटीसी/004176/2101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स माला इलेक्ट्रोडैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भीलवाड़ा हार्डबोर्डिस्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. अर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-21016/आरजे/1988-पीटीसी/004629/2107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भीलवाड़ा हार्डबोर्डिस्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्य कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. अर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-17222/आरजे/1988-पीटीसी/004369/2103/2104--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर्य कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपटेक्स सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. अर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-180108/आरजे/1988-पीटीसी/004642/2109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दीपटेक्स सूरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रोमेद फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-24232/आरजे/1989-पीटीसी/004818/2111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रोमेद फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुभेम सोलवेंड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/1991-पीटीसी/006044/2117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शुभेम सोलवेंड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्डस्टार केबल्स एण्ड एप्लायंसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31300/आरजे/1989-पीटीसी/004917/2113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोल्डस्टार केबल्स एण्ड एप्लायंसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दर्शन ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63040/आरजे/1991-पीटीसी/006058/2119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दर्शन ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पुष्पा हाईड्रोएलिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-34300/आरजे/1991-पीटीसी/006019/2115--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पुष्पा हाईड्रोएलिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अंजूला सिमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-26943/आरजे/1991-पीटीसी/006073/2121--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंजूला सिमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रेस कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74140/आरजे/1991-पीटीसी/006082/2123--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रेस कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. जे. एम. लीजिंग एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1993-पीटीसी/007489/2129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी.जे.एम. लीजिंग एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अवन्ती सिमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-26943/आरजे/1991-पीटीसी/006134/2125--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अवन्ती सिमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रॉपर डील एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-45201/आरजे/1995-पीटीसी/009466/2131--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रॉपर डील एण्ड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्डन बॉयलैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/1992-पीटीसी/006526/2127--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोल्डन बॉयलैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रभा रंगाई-छपाई प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-17124/आरजे/1995-पीटीसी/010153/2133--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रभा रंगाई-छपाई प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्ट्रार से

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्लाईबर्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-64120/आरजे/1995-पीटीसी/010297/2135--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्लाईबर्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. आर. एस. सेकफिन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1995-पीटीसी/010660/2141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए.आर.एस. सेकफिन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भूषण लेबोरेटरीज लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-85195/आरजे/1995-पीटीसी/010563/2137--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भूषण लेबोरेटरीज लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोनिका ऑयल रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-15142/आरजे/1995-पीटीसी/010819/2143--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोनिका ऑयल रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनराज सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1995-पीटीसी/010658/2139--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनराज सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जन सहयोग सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1995-पीटीसी/010913/2145--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जन सहयोग सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों

के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजकमल ड्राईसेल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-31402/आरजे/1995-पीटीसी/011228/2147--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजकमल ड्राईसेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कांजी फाईनेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-67120/आरजे/1996-पीटीसी/011568/2153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कांजी फाईनेस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स समृद्धी प्रोजेक्ट कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74140/आरजे/1996-पीटीसी/011396/2149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स समृद्धी प्रोजेक्ट कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लखन प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-25209/आरजे/1996-पीटीसी/011578/2155--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लखन प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाडयाला कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-45201/आरजे/1996-पीटीसी/011416/2151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डाडयाला कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिल्पी कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74940/आरजे/1996-पीटीसी/011587/2157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिल्पी कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-27107/आरजे/1996-पीटीसी/012239/2171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जागृति

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-63023/आरजे/2001-पीटीसी/017105/2191--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शास्त्री

कोल्डस्टोरेज एण्ड वेहर-हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोसाईक सॉफ्टकाम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/017106/2193--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोसाईक सॉफ्टकाम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. बी. सिनफेब इण्डिया लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-17124/आरजे/2001-पीएलसी/017126/2195--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. बी. सिनफेब इण्डिया लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स समस्या समाधान आन लाईन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74995/आरजे/2001-पीटीसी/017163/2197--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स समस्या समाधान आन लाईन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. पी. एम. रिसोर्ट्स वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-55102/आरजे/2001-पीटीसी/017164/2199--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डी. पी. एम. रिसोर्ट्स वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निस्ट कम्प्यूटर एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-80302/आरजे/2001-पीटीसी/017235/2201--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निस्ट कम्प्यूटर एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीनाथ नेटवर्क सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-74995/आरजे/2001-पीटीसी/017245/2203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीनाथ नेटवर्क सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जिप इन्फोरमेशन एण्ड हार्डवेयर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/017253/2205--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिप इन्फोरमेशन एण्ड हार्डवेयर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परोदा इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/यू-72200/आरजे/2001-पीटीसी/017260/2207--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परोदा इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई है।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जयपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/1172--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम्पनी विघटित कर दी गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3290	मैसर्स स्क्रीन वाल्यूट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	3432	मैसर्स स्पेन्सल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	3433	मैसर्स दिपती वन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	3439	मैसर्स रिलाइन्स इनवेस्टमेंट कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
5.	3611	मैसर्स इकान्तिका रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	3756	मैसर्स श्री वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	3765	मैसर्स समरसन्स डैकोर प्राईवेट लिमिटेड
8.	4176	मैसर्स माला इलैक्ट्रोडेस प्राईवेट लिमिटेड
9.	4369	मैसर्स आर्य कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	8538	मैसर्स इलपी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	4629	मैसर्स भीलवाडा हार्डबोर्डिक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	4642	मैसर्स दीपटेक्स स्यूटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	4818	मैसर्स ग्रोमेड फार्मास्यूटिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
14.	4917	मैसर्स गोल्डस्टार केबल्स एण्ड एपलीएन्सेज प्राईवेट लिमिटेड
15.	6019	मैसर्स पुष्पा हाईड्रोलिक्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	6044	मैसर्स शुभम सोलवेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	6058	मैसर्स दर्शन ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	6073	मैसर्स अन्जुला सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	6082	मैसर्स ट्रेस कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	6134	मैसर्स अवन्ति सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	6526	मैसर्स गोल्ड ऑयलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	7489	मैसर्स पीजेएम लिजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	9466	मैसर्स प्रोपर डील एण्ड डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
24.	10153	मैसर्स प्रभा रंगाई छापिन प्राईवेट लिमिटेड
25.	10297	मैसर्स प्लाईवर्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	10563	मैसर्स भूषण लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
27.	10658	मैसर्स संराज सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
28.	10660	मैसर्स एआरएस सेक्विफ प्राईवेट लिमिटेड
29.	10819	मैसर्स मोनिका ऑयल रिफाइनरी प्राईवेट लिमिटेड
30.	10913	मैसर्स जन सहयोग सेविंग एण्ड इनवेस्टमेंट कं. लिमिटेड
31.	11228	मैसर्स राजकमल डार्ई सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	11396	मैसर्स समृद्ध प्रोजेक्ट कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
33.	11416	मैसर्स दादियाला कन्स्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
34.	11568	मैसर्स कांजी फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	11578	मैसर्स लखन प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
36.	11587	मैसर्स सिलपी कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
37.	11594	मैसर्स दीक्षित गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
38.	11712	मैसर्स राजेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
39.	11746	मैसर्स वेस्टन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	11765	मैसर्स आजिन्क केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	11941	मैसर्स आदिवासी कृषि फार्म एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
42.	12020	मैसर्स लीडर प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
43.	12239	मैसर्स जागृति मेटल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	13422	मैसर्स अमृतलीला इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड
45.	13519	मैसर्स सावित्री कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	14179	मैसर्स हनुमान साल्ट एण्ड एलाईड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	17015	मैसर्स टाइगर टाउन रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
48.	17026	मैसर्स बोहरा इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
49.	17068	मैसर्स मील कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	17105	मैसर्स शास्त्री कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयरहाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
51.	17106	मैसर्स मोसाईक सोफ्टकॉम प्राईवेट लिमिटेड
52.	17126	मैसर्स एबी सिनफेब इण्डिया लिमिटेड
53.	17163	मैसर्स समस्या समाधान ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड
54.	17164	मैसर्स डीपीएम रिसोर्ट्स वन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	17235	मैसर्स निस्त कम्प्यूटर एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
56.	17245	मैसर्स श्रीनाथ नेटवर्क सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
57.	17258	मैसर्स जिप इन्फोमेशन एण्ड हार्डवेयर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
58.	17260	मैसर्स परोडा इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोड प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./560/17576/366—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोड प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इयात्रा ऑनलाइन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./560/20259/370—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इयात्रा ऑनलाइन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐ. वी. फेयरडील्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./560/14037/377—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऐ. वी. फेयरडील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिलायबल सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./560/18060/381—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिलायबल सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी.-जीसी/560(5)/2008/171—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्ट्रार से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

स. नं.	सी. आई. नं.	कम्पनी का नाम
1	03	देवास टेक्नो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	05	एन. पी. स्पिनरस प्राइवेट लिमिटेड
3	07	अशोका ट्रांस-जम प्राइवेट लिमिटेड
4	024	दा पस्सारी फ्लोर मिल्स लिमिटेड
5	027	दा स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड
6	0119	पस्सारी फ्लोर मिल्स लिमिटेड
7	0179	सतलज कॉटन मिल्स
8	0213	ग्वालियर मेज लिमिटेड
9	0223	दा मालवा जनरल फूड ग्रोइंग कार्पोरेशन लिमिटेड
10	0239	बालकृष्ण शाह एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
11	0309	शेख रसूल मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड
12	0365	लालवानी लिथो एण्ड टाईप वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
13	0378	दा सेंट्रल ट्रेडिंग कार्पोरेशन (हरदा) प्राइवेट लिमिटेड
14	0447	प्रखर केमीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
15	0451	रीवा माइनिंग कम्पनी लिमिटेड
16	0457	दा रीवा माइनिंग कम्पनी लिमिटेड
17	0568	जे. के. एजेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	0569	दा लेन्ड डेवलपमेन्ट कम्पनी (एम.बी.) प्राइवेट लिमिटेड
19	0712	अन्नपूर्णा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
20	0773	दिग्विजय इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
21	0779	कटनी लाईम मेनुफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
22	0851	एम.पी. पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
23	0900	ग्वालियर इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
24	0905	मध्य प्रदेश आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
25	0908	श्री सतपुरा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
26	0916	दा ट्रस्ट एसोसियेसन ऑफ क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूशन
27	0940	सेन्ट्रल पेन्ट्स लिमिटेड
28	0941	हिन्द साईकिल लिमिटेड
29	0947	भोपाल एम. पी. फायनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
30	00962	डी एण्ड डी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
31	0970	स्मार्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड इन्दौर
32	0972	सिटीजन न्यूज प्रेस

33	0979	मंगल चन्द हुकम चन्द इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर
34	0982	आईडल फायनेंसिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
35	0993	न्यू हाईवे ट्रान्सपोर्ट करियरस प्राइवेट लिमिटेड
36	0994	पायोनर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
37	0999	बीडी एण्ड एलाइड टुबेको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	01002	स्टेटिक ट्रान्सफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड
39	01010	पी. एस. शोही एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
40	01012	रिवटस मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
41	01013	पनामा टूल्स एण्ड इम्प्लीमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
42	01015	शोही एक्सपोजिव लिमिटेड
43	01018	बुन्देलखण्ड फायनेंसीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
44	01022	दिल्ली आयुर्वेदिक फार्मसी ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड
45	01023	श्रेष्ठा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
46	01026	लमीना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
47	01034	कासमो ट्रेडर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
48	01036	कामर्शियल बुक सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
49	01037	विजय प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
50	01041	वी. के. एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
51	01042	पायोनर कॉटन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
52	01044	इंदौर पोटरीज प्राइवेट लिमिटेड
53	01045	भारतीय शैक्षणिक प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
54	01046	राहुल स्टील फोरजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
55	01047	मालवा धाकर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
56	01048	यूनाइटेड टायर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
57	01054	सेन्ट्रल साईकिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
58	01058	छाया चित्र प्राइवेट लिमिटेड
59	01060	ऐग प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
60	01062	भारती पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
61	01068	राजदूत होटल इन्टरप्राइजेज कॉर्पोरेशन (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड
62	01073	सर्विस एसोसियेशन ऑफ द क्रिटीकी (डीसीप्लस)
63	01075	दा बिलासपुर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
64	01077	धनलक्ष्मी फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड
65	01078	क्वालिटी इन्जीनियर एण्ड इलेक्ट्रीकल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	01079	पी. वी. सी पाईप एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
67	01089	मुक्ता फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड

68	01090	रूपा फौमिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
69	01091	तासवीन बेनीफिट फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
70	01092	एक्स मिलेट्री जूनीयर कमीशनड ऑफीसर ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
71	01094	फाइन फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
72	01099	निरुकार रीसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
73	01102	केसरी स्टील इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
74	01108	सरगुजा फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
75	01109	ग्वालियर एग्रो डेव. एण्ड फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
76	01111	सुनीता चिट एण्ड फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
77	01113	रंगधारा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
78	01118	वीना फायनेंस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
79	01120	विजयंत सेविंग एण्ड चिट फायनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
80	01122	एग्रो कल्चर प्राईवेट लिमिटेड
81	01123	जानकी बचत एण्ड फायनेंस युनिट प्राईवेट लिमिटेड
82	01129	पिपलोडा फार्म प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83	01133	शिखर ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
84	01136	श्री महा लक्ष्मी फायनेंस कम्पनी इन्दौर प्राईवेट लिमिटेड
85	01140	सेन्ट्रल इण्डिया एग्रो डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
86	01147	नोर्थरन इण्डिया फूट ग्रावरस एण्ड फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
87	01150	लशकर ग्वालियर एग्रीकल्चर एण्ड कोटेज इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
88	01151	भाग्य लक्ष्मी इन्वेस्टमेन्ट (उज्जैन) प्राईवेट लिमिटेड
89	01153	मध्य प्रदेश फारमर्स एण्ड कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
90	01158	श्री हप केमीकल्स इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
91	01160	मुरलीधर यूनिट सेविंग एण्ड फायनेंसीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
92	01162	राकेश चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
93	01163	विश्व ब्राह्मण प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
94	01164	फार्मा डी विनस प्राईवेट लिमिटेड
95	01165	श्री विजय न्यूट्रीशन्स प्राईवेट लिमिटेड
96	01166	यूनाईटेड डुप्लीकेटर प्राईवेट लिमिटेड
97	01169	कंडे एडवर्टाइजिंग ऐजन्सी प्राईवेट लिमिटेड
98	01175	देवास टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
99	01178	इन्दौर कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
100	01181	ग्वालियर सेविंग प्राईवेट लिमिटेड
101	01182	मुनवर बेनीफिट (चिट फण्ड) फायनेंशियल प्राईवेट लिमिटेड
102	01185	किसान कोल्ड स्टोरेज ग्वालियर प्राईवेट लिमिटेड

103	01187	उदय फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
104	01188	ज्योतिमा फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
105	01189	अर्चना सेविंग एण्ड फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
106	01191	मध्यप्रदेश सेविंग यूनिट प्राईवेट लिमिटेड
107	01193	धौलपुर कोलोनाइजर्स एण्ड एग्रो डेवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
108	01196	झूलेलाल बेनीफिट एण्ड फायनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
109	01206	आनन्द बिहारी स्टील वायर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
110	01208	एलसिड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
111	01209	नील कमल एग्रो इम्प्लीमेन्ट एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
112	01211	मोटर्स एण्ड ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
113	01215	ट्रमफेन्ट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
114	01221	इन्दौर चिट एण्ड फायनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
115	01224	ओरियन्ट रोडवेज ग्वालियर प्राईवेट लिमिटेड
116	01230	केमूर इन्वेस्टमेन्ट बेनीफिट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
117	01231	स्टील पाईपस ऑफ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
118	01232	कामधेनु इन्वेस्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
119	01236	एच.बी. शास्त्री केमिकल्स एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
120	01246	कालानी यार्न प्राईवेट लिमिटेड
121	01247	कामगर विकास सेविंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
122	01257	गौतम फायनेंस एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
123	01259	डूमेज इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
124	01262	रेड स्टार चिट फण्ड एण्ड कोल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
125	01267	बस्तर ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
126	01276	रोज फायनेंस शुगर प्राईवेट लिमिटेड
127	01280	त्रिवेनी ड्रिलिंग एण्ड माइनिंग इक्विपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
128	01285	मोहता पेपर मिल्स लिमिटेड
129	01290	अनस टेक्सटाइल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
130	01293	केम्फा डाइज एण्ड पेस्टेसाइड्स लिमिटेड
131	01296	अनुराग केमिकल्स उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
132	01299	बन्धवा बेनीफिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
133	01300	विपुल इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
134	01306	दांतेश्वरी सेविंग एण्ड फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
135	01312	एम. पी. सिन्थेटिक पेन्ट्स एण्ड वारनिश वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
136	01316	राजधन इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
137	01317	परीजत केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

138	01319	मालव कृषि उद्योग (इन्दौर) प्राईवेट लिमिटेड
139	01322	विंध्या इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
140	01335	डीलक्स होटल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
141	01336	प्रीत इंडस्ट्रीज एण्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड
142	01338	शनवीर हेवी फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
143	01340	प्रतिभा फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
144	01342	वीके वाटर प्रूफिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
145	01348	मध्य भारत पेट्रो केमीकल्स लिमिटेड
146	01349	क्षजीर पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
147	01358	विशाल होटल प्राईवेट लिमिटेड
148	01362	कन्हीजी गैसस प्राईवेट लिमिटेड
149	01367	दक्षिण दिल्ली एक्सप्रेस कारगो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
150	01368	डूमेट वायर इंडिया लिमिटेड
151	01378	एम0 पी0 ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
152	01380	राय कालोनाइजिंग एण्ड पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
153	01391	देवेन्द्र कन्सल्टेशन एण्ड कालोनाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
154	01398	एडकोन इलेक्ट्रिकल प्राईवेट लिमिटेड
155	01460	डोगर स्ट्रिप प्राईवेट लिमिटेड
156	01504	मधुमिलन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
157	01593	सिमप्लेक्स कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
158	01609	एन.जी.एम. इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
159	01628	इन्वेस्टमेन्ट एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
160	01644	कम्प्यूटींग एण्ड टेक्नोलॉजी कन्सलटेन्स प्राईवेट
161	01661	गोदावरी संस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
162	01665	प्रेम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
163	01666	प्रेम इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
164	01679	ट्रेकवेज टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड
165	01695	जैन इंडस्ट्रियल एण्ड बिजनेस कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
166	01700	काबरा सोया एक्सट्रेक्टरस प्राईवेट लिमिटेड
167	01702	आर. बी. म्युचल सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
168	01711	गारलिक प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
169	01717	बलवाड़ा सीमेन्ट लिमिटेड
170	01719	मेहुदले एण्ड मेहुदले प्राईवेट लिमिटेड
171	07120	एम. पी. निटिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
172	01726	वोस्टोक फार्मास्युटिकल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

173	01727	होली फेथर्स एग्रो होर्टिका एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट
174	01731	ग्वालियर ऐंसीलरी इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
175	01733	चन्द्रकिरण मेडीकल रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
176	01735	भारत सिलेन्डर्स लिमिटेड
177	01736	लोकचेतना प्रकाशन लिमिटेड
178	01739	निरुकरकार—लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
179	01740	डिवाइन फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
180	01747	अलकेमी फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
181	01750	शक्ति राज उद्योग (रायपुर) प्राईवेट लिमिटेड
182	01751	लेखा विजय इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
183	01758	सर्बोत इण्डिया रबर प्राईवेट लिमिटेड
184	01763	नकोडा स्टेट एण्ड फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
185	01776	सक्स एण्ड बग्स प्राईवेट लिमिटेड
186	01781	अमित कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
187	01782	जैन धर्म प्रकाशन लिमिटेड
188	01789	श्री कामद पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
189	01792	शान्ति इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
190	01795	बहेलस इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
191	01796	अरिहन्त फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
192	01798	इन्द्रा चिट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
193	01799	सूर्या प्रोटीन्स लिमिटेड
194	01800	टेक्नो इन्डस्ट्रीयल इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
195	01801	पेस पेपर्स लिमिटेड
196	01802	केमिन प्राईवेट लिमिटेड
197	01803	मालवा डिस्टीलरी प्राईवेट लिमिटेड
198	01806	ओरियन्ट रोड ट्रान्सपोर्ट करियर प्राईवेट लिमिटेड
199	01807	डेकोरेटिव वीनर्स एण्ड प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड
200	01811	क्रियेटिव मीडिया एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
201	01817	अरबिटी केम फार्मा लिमिटेड
202	01818	सी.पी.जी गम्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
203	01823	श्याम ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
204	01828	होशंगाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
205	01829	भारत ब्रेवरीज एण्ड एलायड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
206	01842	ऐराईस लाईमस प्राईवेट लिमिटेड
207	01843	पार्वती प्रोटीनस प्राईवेट लिमिटेड

208	01844	मिनरल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
209	01848	मेघदूत एग्रो इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
210	01854	मनीष ऑटो ट्रेडिंग एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
211	01859	गौरव सीमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
212	01860	फार्म फोर्ज प्राईवेट लिमिटेड
213	01861	विक्रम वेल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
214	01864	श्री साढा बाबा फूड्स फीड्स एण्ड केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
215	01875	श्री बाला जी ऑयल रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड
216	01876	ऑरियन ऑटो एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
217	01880	कास्ता एक्स्ट्रूजन प्राईवेट लिमिटेड
218	01883	शमा साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन प्राईवेट लिमिटेड
219	01885	एस.के. स्विचेस प्राईवेट लिमिटेड
220	01888	ट्रांसफ्यूजन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
221	01905	सिक्कुरिटी एंड इटेलीजेन्स गार्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
222	01914	मेनिका प्रोसेसिंग प्लान्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
223	01916	एजाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
224	01920	गनेश ऑयल एंड सॉल्वेंट प्राईवेट लिमिटेड
225	01926	रेनार्ड के (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
226	01940	श्रमेव जयते प्राईवेट लिमिटेड
227	01941	गुलमोहर इन्वेस्टमेन्ट एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
228	01942	अरावली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
229	01943	सितारा इन्वेस्टमेन्ट एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
230	01948	एम.पी. विकास इलेक्ट्रोडस प्राईवेट लिमिटेड
231	01953	टेक्नोमेक स्विच गियरस प्राईवेट लिमिटेड
232	01955	चौधरी मशीन टूल्स (इन्दौर) प्राईवेट लिमिटेड
233	01958	एम.एल. बजाज इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
234	01963	सरह सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
235	01965	मध्य प्रदेश कॉटन वेस्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड
236	01966	ऐ. पी. इन्स्ट्रूमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
237	01967	एपिनस स्विच गियरस प्राईवेट लिमिटेड
238	01968	फेब्रोकास्ट इन्जीनियरस प्राईवेट लिमिटेड
239	01970	एम.पी. पेकेजिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
240	01977	टिप टॉप प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
241	01978	रास प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
242	01985	गौरव भूवीज प्राईवेट लिमिटेड

243	01992	छिंदवाड़ा खांडसारी प्राइवेट लिमिटेड
244	02002	एडकॉन स्विच गियर एंड इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड
245	2009	पेरागॉन पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
246	02146	श्री उमेश बीडी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
247	02151	मटेरियलस कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
248	02165	संतोष रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
249	02234	जी. एस. सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
250	02312	सप्तऋषि डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
251	02367	श्री केसरियाजी सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
252	02467	कम फर्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
253	02479	कन्वर्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
254	02552	ओशीन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीयल गेसेस प्राइवेट लिमिटेड
255	02595	ऐ.के. गौरव दीप इन्वेस्टमेन्ट्स एंड फायनेन्स कं. प्राइवेट
256	02600	संची एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
257	02649	पेडसन केम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
258	02650	शिवम सीमेन्ट्स लिमिटेड
259	02658	प्रताप सीमेन्ट एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
260	02661	सतपुड़ा स्टोन प्राइवेट लिमिटेड
261	02662	पीताम्बरा ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड
262	02686	सेवा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड
263	02687	ईस्टन टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
264	02690	होटल श्रीमन एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
265	02696	पेसाजन इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड
266	02708	फार्ईस्ट ओरियंटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
267	02712	अशोका जेलीकेप प्राइवेट लिमिटेड
268	02720	यमुना पाईप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
269	02723	मध्य प्रदेश सुरेखा सीमेन्ट लिमिटेड
270	02726	एजाईल डोमेस्टिक एंड प्रोजेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
271	02728	एस. एच. बादशा कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
272	02736	अन्नपूर्णा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
273	02747	चिरायु इंजीनियर्स एंड मेन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
274	02754	इंदौर ओरगेनिकस एंड ऐनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
275	02758	जे.पी. कॉस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
276	02761	एम.पी. कास्टर प्रोडक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
277	02763	पॉली फाइन केमीकल्स प्राइवेट लिमिटेड

278	02766	लालवानी इंडस्ट्रियल एंड डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
279	02767	ग्वालियर ब्रेवरेज एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
280	02770	जोइंट कन्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
281	02772	धनलक्ष्मी रबर प्राइवेट लिमिटेड
282	02778	मिडलेन्ड सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
283	02779	बेगरी प्रोफाईल्स प्राइवेट लिमिटेड
284	02784	डायमण्ड कनवेनशन चिट एंड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
285	02792	सिद्धार्थ एक्सपोर्ट कं. प्राइवेट लिमिटेड
286	02833	एमपीट्रान इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
287	03019	मॉडुलर कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
288	03042	सेन्ट्रल इंडिया कन्सलटेन्सी आर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड
289	03100	केरिया क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
290	03105	निक्स ग्रुप ऑफ बोरवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
291	03139	डीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
292	03149	किथ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
293	03150	शहडोल प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
294	03195	सुता वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
295	03258	पी. सी. इलेक्ट्रोकेम प्रोसेसरस प्राइवेट लिमिटेड
296	03259	मालवा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
297	03259	भोपाल टेक्नीकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर
298	03340	ग्राम लक्ष्मी ऑयल एंड फूड्स लिमिटेड
299	03346	बनखन डेशावर कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
300	03441	महाराष्ट्र लैंड डेवलपमेन्ट एंड इन्वेस्टमेन्ट कं. लिमिटेड
301	03515	ग्वालियर क्रोम टेनरी प्राइवेट लिमिटेड
302	03587	धर ड्रिलरस एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
303	03784	आर. एस. श्रीवास्तव एंड कं. सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
304	03805	पीथमपुर गैसेस प्राइवेट लिमिटेड
305	03906	ओसवाल कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
306	04005	श्री वेक्टेस ऑयल एक्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
307	04014	शिवपुरी केमीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
308	04020	भानु पैकिंग एंड प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
309	04024	बंसल डिसपोजेबल हेल्थ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
310	04025	गुरु एल्यूमिनियम एक्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
311	04026	बम्पी फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
312	04032	के. के. इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

313	4034	पद्यम श्री कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
314	04037	जेनुयन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
315	4040	हेमू एग्रो पोली प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
316	04047	आकृति कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
317	04050	टारके प्राईवेट लिमिटेड
318	04053	ब्लू स्काय होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
319	04066	परवी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
320	04079	मारुती माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
321	04081	रानी सती बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
322	04094	लॉयड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
323	04100	तिरुपति कम्प्यूटरस प्राईवेट लिमिटेड
324	04105	एसएसजे मनेजमेन्ट एंड फायनेन्सशियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
325	04106	काशीप्रा मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
326	04111	तप पोलीमियर प्राईवेट लिमिटेड
327	04117	मॉडर्न रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
328	04118	एम.पी. कोल्ड फार्मस लिमिटेड
329	04120	टेकोमेक्स कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
330	04121	अन्नपूर्णा फ्लोर एंड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
331	04126	कल्यान कन्स्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
332	04133	श्री अम्बिका होटलीयर्स एंड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
333	04136	शिवेन्द्र ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
334	04137	रेफको ऐप्लीकेनसेस लिमिटेड
335	04138	अभिषेक टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड
336	04141	बीरार एग्रो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
337	04142	स्टन टन प्राईवेट लिमिटेड
338	04144	एन. के. रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
339	04149	बिनोटा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
340	04150	सेटेलाईट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
341	04151	निधि सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
342	04155	विमल एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
343	04158	परफेक्ट कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
344	04165	राना इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
345	04169	रीवा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
346	04173	ताज मनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
347	04181	दीपक इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड

348	04184	शान मेडीकल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
349	04185	कनक सिरेमिकस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
350	04190	धनलक्ष्मी इन्स्वेटमेन्ट एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
351	04191	हवीका कन्सलटेन्ट्स एंड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
352	04197	सनकान स्टील कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
353	04199	एम.जे. पेपर बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड
354	04212	वीलाइन प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
355	04231	पारके सेन्ट्रल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
356	04232	मेक्स ग्रिल्स प्राईवेट लिमिटेड
357	04238	कपाडिया फेशनस प्राईवेट लिमिटेड
358	04245	प्रोग्रेसिव कम्प्यूटर सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
359	04246	त्रिपाठी इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
360	04249	डी. कृष्णा एक्सीबिटर्स प्राईवेट लिमिटेड
361	04250	सांची ग्रेनाइट एंड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
362	04263	ए.के. केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
363	04290	दरयासरंग पशु धन प्राईवेट लिमिटेड
364	04343	आईआरको रेफीजरेशन प्राईवेट लिमिटेड
365	04484	शुभ डेवलपरस प्राईवेट लिमिटेड
366	04499	गायकवाड़ कम्प्यूटर्स स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड
367	04501	पेसेफिक फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
368	04537	रायपुर कूल टेक प्राईवेट लिमिटेड
369	04589	मेगनस फार्मा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
370	04598	पेन होजरी मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
371	04703	सर्वोत्तम होजरी एंड मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
372	04914	सनवालिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
373	05106	छटवानी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
374	05219	गंगवर स्टीलेज प्राईवेट लिमिटेड
375	05314	लक्ष्मी डोमेस्टिक एप्लायनसेस प्राईवेट लिमिटेड
376	05358	मेमोरी कन्स्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
377	05433	साई कृपा डिटेक्टिव एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
378	05503	सिंघानिया फैशन वियर्स प्राईवेट लिमिटेड
379	05853	प्रकाश सिरेमिकस लिमिटेड
380	05912	मिडलैण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
381	05925	अनूभूति कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
382	05982	स्मीर मेडीकल प्राईवेट लिमिटेड

382	05982	समीर मेडीकल प्राईवेट लिमिटेड
383	06039	राजूशा हाउसिंग एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
384	06356	सुपर साइन टिन प्लेट कं. प्राईवेट लिमिटेड
385	06436	मदालसा इन्वेस्टमेन्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड
386	06477	टोरनेडो कोल मेन्यूफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
387	06483	मदालसा ट्रेड एंड फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
388	06508	नर्मदा पलवेराइजरस प्राईवेट लिमिटेड
389	06532	गौतम रसायन प्राईवेट लिमिटेड
390	06543	समाज पेपर प्राईवेट लिमिटेड
391	06551	मंगलम आर्गेनिक्स लिमिटेड
392	06625	लोकेश ऑयल एक्सट्रैक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
393	06673	अटलांटिका बेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
394	06691	शान्ति कोल प्राईवेट लिमिटेड
395	06706	जबलपुर कोल्स प्राईवेट लिमिटेड
396	06711	वनिका कोल्स प्राईवेट लिमिटेड
397	06754	मठारिया सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
398	06907	सेन कम्प्यूटर स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड
399	06933	लक्ष्मीनारायण राधावल्लभ प्राईवेट लिमिटेड
400	07042	रायपुर एब्रेसिवस प्राईवेट लिमिटेड
401	07131	चामुंडा मार्केटिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
402	07137	एराइज पावर सेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
403	07150	दर्शन वायरस प्राईवेट लिमिटेड
404	07499	मारुती प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
405	07610	नौजवान पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
406	07651	विजय टेक्नो — केम ग्वालियर प्राईवेट लिमिटेड
407	07687	नागरिक कन्स्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
408	07808	कटनी होल्डिंग लिमिटेड
409	07815	अल अमानत फायनेन्स एंड कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
410	07816	सोमा ऑयल एंड केमीकल लिमिटेड
411	07846	ताम्बी टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
412	07925	टरनेडो इन्वेस्टमेन्ट्स एंड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
413	08174	डकफिन फायनेन्स लिमिटेड
414	08180	चम्बल फायनेन्स एंड लीजिंग लिमिटेड
415	08204	जीवन संकया हाउसिंग फायनेन्स एंड इन्वेस्टमेन्ट्स इंडिया लिमिटेड
416	08214	गिरधर सिक्युरिटीज एंड फिनवेस्ट लिमिटेड

417	08245	खजराना वाला फायनेंस लिमिटेड
418	08279	एलांज इंटरैक्टिव डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
419	08330	कैलाशकुंतल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
420	08412	ए.आर.के. इलेक्ट्रिकलस प्राइवेट लिमिटेड
421	08454	गौरव दीप ओवरसीज लिमिटेड
422	08460	स्टार बीम फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड
423	08550	कान्हा कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
424	08602	वेस्टर्न लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
425	08628	वैष्णो शारदा कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
426	08681	रश्मि गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
427	08759	जायसवाल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
428	08848	ग्लेशियर सिक्युरिटी प्राइवेट लिमिटेड
429	08855	कामायनी कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड
430	08868	उत्कर्ष फूड्स लिमिटेड
431	08904	म्यूचल कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड
432	08924	प्रज्ञया प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
433	08942	एल. जगवानी कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
434	08992	यूथ एग्रो एंड हाउसिंग डेवलपमेन्ट लिमिटेड
435	08999	कासिफ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
436	09069	बेटा सीमेन्टस लिमिटेड
437	09218	एम.आर. प्रिन्टर्स लिमिटेड
438	09223	एन. जे. ए. फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
439	09352	राजूस कोलोनाइजिंग एंड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
440	09493	त्रिशूल सिक्युरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
441	09503	आ हाउसिंग फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड
442	09584	इनोवेशन कम्प्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
443	09608	श्रीकॉन हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
444	09768	सिल्वर सॉफ्ट इनफोरमेटिक्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
445	09892	आरबिट टेलीकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
446	09955	श्वेता बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
447	09960	जे. जे. प्लायवुड लिमिटेड
448	010088	नवकर कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड
449	010216	अरमन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
450	010251	नोबल फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
451	010265	रेन टॉप फार्मस एंड फारेस्ट लिमिटेड

452	010362	केयरवेल केपीटल मार्केटस लिमिटेड
453	010401	मध्य प्रदेश लोक विकास फायनेंस लिमिटेड
454	010466	पाशिम कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
455	010540	एम.पी. पेसीफिक ग्रेनाइट्स लिमिटेड
456	010662	महावीर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
457	010743	लाइफ केयर मेटरनिटी एंड नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड
458	010827	अरनय वुड प्राइवेट लिमिटेड
459	010898	हुक्मचंद रिरोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
460	010898	हुक्मचंद रिरोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
461	011005	मृगनयनी ग्रीन फारेस्ट इंडिया लिमिटेड
462	011013	उर्वशी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
463	011071	पी. वी. मशरूमस लिमिटेड
464	011078	रंसाकार कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
465	011113	कैलाश पती ऑटो फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
466	011114	प्रोटेक्टर इंडिया फार्मास्युटिकलस प्राइवेट लिमिटेड
467	011115	सी. के. कॉन्ट्रेक्टर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
468	011177	शुगर फिनसेक लिमिटेड
469	011188	पंचायती प्लानटेशन प्राइवेट लिमिटेड
470	011189	एस.एल.के. कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
471	011194	फड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
472	011248	पेड़ावाला फायनेंस कं. प्राइवेट लिमिटेड
473	011250	रोजेमेरी एग्रोटेक एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
474	011265	साई सिद्धी फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
475	011271	सरल फिनलीज एंड हाउसिंग फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड
476	011287	माधुरी फिनवेस्ट लिमिटेड
477	011288	वल्लभाश्रिया इन्वेस्टमेंट एंड फायनेंस लिमिटेड
478	011312	प्रस्तुती मीडिया कम्युनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
479	011313	चंद्रसेन पेट्रो एंड फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड
480	011314	ओम मेसेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
481	011321	मेमोरियल ग्रीन अर्थ प्लानटेशन एंड डेवलेपरस इंडिया लिमिटेड
482	011330	ट्राइनिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड
483	011341	हिन्दुस्तान सन राईज एग्रो लिमिटेड
484	011342	मोजी लाल फायनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
485	011343	गोल्डेन ईगल सिक्युरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
486	011349	क्लचुरी डेयरी लिमिटेड

487	011351	विनर्स फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड
488	011352	पी एंड बी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
489	011357	मार्डन बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड
490	011360	चोरडिया एजेंन्सीज प्राइवेट लिमिटेड
491	011367	विंध्यावसनी फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
492	011377	सत्यम् शिवम् सुन्दरम् प्लान्टेशन एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड
493	011385	महात्मा षि ग्रीन फोरेस्ट लिमिटेड
494	011401	जुनेजा सेफ वर्क्स (ग्वालियर) प्राइवेट लिमिटेड
495	011403	अक्षयवत एग्रो एण्ड फार्मर्स लिमिटेड
496	011406	टिबरवाल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
497	011410	व्यास स्टेटस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
498	011412	रिलायबल डेली नीड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
499	011417	मैहर कॉमर्शियल एण्ड फायर्नेस कम्पनी लिमिटेड
500	011427	रेनओन इंटरियर प्राइवेट लिमिटेड
501	011431	कन्हा कोरीयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
502	011433	एश्वर्या फिनवेस्ट लिमिटेड
503	011445	गोल्डलाईन ग्रीन इण्डिया फिन्सेक लिमिटेड
504	011463	गौरवदीप लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
505	011467	फेनी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
506	011475	निहालकरन कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
507	011476	उपेन्द्र सिंह डेवलपर एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
508	011481	स्टेफनो कन्सलटेन्सी लिमिटेड
509	011482	अंचल टूर एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
510	011489	सी.आई.सी लीजिंग (इण्डिया) लिमिटेड
511	011490	जी.आर.एस. कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
512	011511	महाकाली जनरल फायर्नेस एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
513	011516	सिनेटोरीयल इण्डिया लीजिंग एण्ड फायर्नेस प्राइवेट लिमिटेड
514	011519	वेनगंगा फिनलीज (इण्डिया) लिमिटेड
515	011526	शगुन फिनलीज लिमिटेड
516	011527	परफेक्ट माइक्रोस प्राइवेट लिमिटेड
517	011533	आकृति रोक्स प्राइवेट लिमिटेड
518	011570	धनवर्षा प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
519	011585	जेनम फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
520	011604	मानसरोवर डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
521	011640	एम0 एम0 पी0 इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड

522	011652	वर्ड फिनवेस्ट लिमिटेड
523	011655	वेक्टर ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
524	011673	वसुन्धरा गुरुकुलम प्राइवेट लिमिटेड
525	011712	सुगन्ध फिनसेक इण्डिया लिमिटेड
526	011715	मंगलनाथ एग्रो टेक लिमिटेड
527	011716	कोनटेक डिजिटल सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड
528	011737	जय जय ईएम लीजिंग एण्ड फायनेंस (इण्डिया) लिमिटेड
529	011741	पी.बी. इडीफायइंग इन्फार्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड
530	011746	पेस इनफोलिंक प्राइवेट लिमिटेड
531	011750	लाइकेप हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
532	011754	महाकौशल रिसोर्ट्स एण्ड होटल लिमिटेड
533	011755	महाकौशल फिनवेस्ट लिमिटेड
534	011771	त्रिभुवन फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
535	011780	संस्कार धानी एग्रो वेट फार्मा लिमिटेड
536	011799	कल्पराज डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
537	011801	श्रीकोन एग्रो लिमिटेड
538	011811	ए.डी.आई. साई कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
539	011814	डीपसंगीत प्लान्टेशन लिमिटेड
540	011829	प्रखर आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
541	011842	बांधवगढ़ एग्रो फोरेस्ट्री लिमिटेड
542	011844	सौभाग्या ग्रेन्स एण्ड होर्टी क्रोप लिमिटेड
543	011845	श्री मनीभद्र कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड
544	011856	अंजनी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
545	011870	राइजिंग ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
546	011879	कनिश्का कालोनाईजर प्राइवेट लिमिटेड
547	011977	वसुन्धरा कम्युनिकेशन लिमिटेड
548	011989	डॉट टू डॉट कोरीयर एण्ड कारगो प्राइवेट लिमिटेड
549	012013	चेतक केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
550	012125	एच.के. रीयल स्टेट (इण्डिया) लिमिटेड
551	012132	टीओन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
552	012168	द्वारकादास होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
553	012206	जोरिन लेब्स प्राइवेट लिमिटेड
554	012677	यमन फार्मस एण्ड फोरेस्ट्री लिमिटेड

556	012783	माइन एण्ड क्यूस्ट इक्विपमेन्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड
557	012798	नेक्सटजेन इनफॉर्मेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
558	012803	स्टेबअस पोर्टफोलीओ प्राईवेट लिमिटेड
559	012804	अम्बिका फिनवेस्ट लिमिटेड
560	012808	धरोहर एग्री टेक प्राईवेट लिमिटेड
561	012815	लॉग लाईफ फिनलीज लिमिटेड
562	012832	आदित्य मिल्क स्पेशीलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
563	012846	अमलतास क्लब एण्ड रिसॉर्ट प्राईवेट लिमिटेड
564	012869	अल्मास कन्स्ट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
565	012872	अल्मास ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
566	012905	गोल्ड स्टार प्रिजरवेटिव एण्ड फूड्स इण्डिया लिमिटेड
567	012944	पटेल बायर्स प्राईवेट लिमिटेड
568	013000	आदित्य प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
569	013148	अशोक सोल्वेक्स लिमिटेड
570	013200	साईदेव प्लास्टो मशीन प्राईवेट लिमिटेड
571	013383	बालाजी प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड
572	013416	माँ जगदम्बे रीयल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
573	013419	साईदृष्टि ट्रेन्डलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
574	013455	जयदी बायोकेम हाईटेक सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
575	013568	स्कोट डेवलपमेन्ट एण्ड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
576	013868	सुनम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
577	013962	ग्रूडेन्ट कन्सोलीडेटेड लिमिटेड
578	013996	एस.जी. रेमेडीज प्राईवेट लिमिटेड
579	014018	दाजी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
580	014139	मेकबरो इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट
581	014239	स्तूप पावर लिमिटेड
582	014356	सर्वोत्तम डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
583	014384	उमा फलक्स प्राईवेट लिमिटेड
584	014416	शीतल पेलेस प्राईवेट लिमिटेड
585	014459	एन.टी.टी. कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
586	014466	अनमोल हर्बस प्राईवेट लिमिटेड

587	014541	शुभकरन फॉर्मूलेशन प्राईवेट लिमिटेड
588	014544	इ.एन.एम. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
589	014545	शुभम् फ्यूचर पॉइन्ट प्राईवेट लिमिटेड
590	014601	विश्राम ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड
591	014602	आई. एम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
592	014604	नाइन ओ नाइन डिपार्टमेन्टलस प्राईवेट लिमिटेड
593	014612	सर्वेश्वरी महाशक्ति स्पात लिमिटेड
594	014621	जय छत्तीसगढ़ फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
595	014763	होलानी ट्रेड लिन्क प्राईवेट लिमिटेड
596	014763	होलानी ट्रेड लिन्क प्राईवेट लिमिटेड
597	014768	शाह डेरीवेटिवस प्राईवेट लिमिटेड
598	014859	पायल फेशन एक्सपोर्ट प्राईवेट
599	014909	स्टायल टप्फस प्राईवेट लिमिटेड
600	015467	टी.टी.सी. केरियरस प्राईवेट लिमिटेड
601	015679	ओरबिट डिपार्टमेन्टल स्टोर प्राईवेट लिमिटेड
602	015799	लहर नेट कोनसेप्ट प्राईवेट
603	015801	एम.पी. गोट फार्म एण्ड रिचर्स सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
604	015808	हरीप्रिया फूडस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
605	015840	जीनिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
606	015866	कामायनी फूडस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
607	015873	कल्पना विजन प्राईवेट लिमिटेड
608	015894	देनुबे ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
609	015900	वरुनोदया एक्सपो लिन्कस प्राईवेट लिमिटेड
610	015961	परल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
611	015983	ओम श्री मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
612	016014	टूरस ऐडूटेक प्राईवेट लिमिटेड
613	016015	मपोना कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
614	016055	ड्रीम प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
615	016064	मून कोन्सप्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
616	016095	यू.बी. सॉफ्ट कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
617	016096	जिज्ञासा डेवलपर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट

618	016144	ओरा पब्लिक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
619	016155	एसेंशियल गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
620	016202	डी.एस. फ्यूल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
621	016247	प्लानेट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
622	016276	मास्टर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
623	016297	भारद्वाज मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
624	016383	इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड मेडीकल साइन्सेज प्राईवेट
625	016360	श्री विश्व ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
626	016402	बन्धन होटल प्राईवेट लिमिटेड
627	016424	नेपेस्टर टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
628	016438	यू केयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
629	016443	कम्प्यूटिंग एण्ड टेक्नोलोजी कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
630	016466	एक्वाटेक्निक कन्सलटेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
631	016479	वेलन्टीज बायो टेक प्राईवेट लिमिटेड
632	016487	सन्तोष कुमार रविन्द्र कुमार ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट
633	016529	वृन्दा रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
634	016537	श्री रानी सती स्पोन्ज प्राईवेट लिमिटेड
635	016632	मेक्सथेरा फार्मास्युटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
636	016658	ब्रह्मी टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
637	016695	क्लाक्सन फार्मास्युटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
638	016726	एस.आर.वी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
639	016728	ओम साई शक्ति बायो प्लान्टेक प्राईवेट लिमिटेड
640	016736	बी.आई. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
641	016770	आर्यन्स वेब चैनल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
642	016771	डब्ल्यू. वी. इनेट मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
643	016788	देव कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
644	016867	एबनीजेर एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
645	016928	डॉ. चॉण्डक डायगनोस्टिक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
646	016969	डी.एम. कामोडिटी प्राईवेट लिमिटेड
647	017029	सेकुरेड होम एण्ड किड्स इन्सुऐंस प्राईवेट लिमिटेड
648	017155	रामप्लस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड

649	017192	स्वपना साकार मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
650	017242	लाफ लॉग विजन प्राईवेट लिमिटेड
651	017257	एन. डायमैन्शनल सायबर कम्प्यूनीकेशन प्राईवेट लिमिटेड
652	017294	ध्रुव मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
653	017322	बेकवाटरस फोरेस्ट रिसोर्टस प्राईवेट लिमिटेड
654	017330	श्री जगदीयो स्पोन्ज आयरन प्राईवेट लिमिटेड
655	017338	मास्टर एलुमिनीयम प्राईवेट लिमिटेड
656	017363	गजरा जुग्गेरनट कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
657	017390	मुरारी बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
658	017404	सुबोध इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
659	017456	मोडरेट वायरस एण्ड इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
660	017607	बी.आर.एस. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
661	017620	रिक्की रियलटी प्राईवेट लिमिटेड
662	017726	सिंघानिया टेलीसर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
663	017829	ए.एन.बी. डायरीज एण्ड एलायड प्राईवेट लिमिटेड
664	018134	प्रोडिजी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
665	018143	श्री हरी आयरन एण्ड स्टील ट्यूब्स कम्पनी प्राईवेट
666	018161	नर्मदा एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
667	018271	अलटेच इन्फोलाईन रायपुर प्राईवेट लिमिटेड
668	018323	सिगमा इंस्टीट्यूट एण्ड करियर डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
669	018902	पिनेक्ल कम्प्युटर प्राईवेट लिमिटेड
670	01035	धनश्री प्राईवेट लिमिटेड
671	01264	एल.के. महेता ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
672	01315	नर्मदा पेपर एण्ड पल्प मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
673	01327	शैली प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
674	01351	श्री पशुपतीनाथ मेच इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
675	01766	कल्पना स्टील रोलिंग प्राईवेट लिमिटेड
676	01815	फेल्ड फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
677	01972	सन्तोष आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
678	02206	अल्कापुरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
679	02329	पेक्सुलेस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड

680	02684	सेन्ट्रल इण्डिया लीज एण्ड फायनेंसिंग लिमिटेड
681	02781	सीता स्टील लिमिटेड
682	03224	विक्रान्त ऑटो लेम्पस प्राईवेट लिमिटेड
683	05071	मनमार्क इंजीनियरिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
684	06081	त्रिपाठी सोलर इक्विपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
685	08408	कटनी इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
686	08416	सेन्क्यो फायनेंशियल कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
687	09497	गितम सिक्वोरटीज प्राईवेट लिमिटेड
688	011379	अलफाविजन ओरचर्डस एण्ड प्लान्टेशन लिमिटेड
689	011388	ए.बी. रोगेट फायनेंस प्राईवेट लिमिटेड
690	011472	नर्मदा नेचुरल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
691	011500	स्टेलन आयरन एण्ड स्टील फेबरीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
692	011595	रोमीलेक एग्रीटेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
693	011905	ओरटेम आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
694	011912	ईडेन मशीन फेबरीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड

डॉ. राजसिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 29 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./पैट /560(3)-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यलय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनिया विघटित कर दी जाएगी।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	1171	गोपालगंज सेविंग एण्ड फाइनेसिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड।
2.	7759	ड्रीम इकोनामी इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड।
3.	4333	अपूर्वा फुड एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड।
4.	4632	हरी कृपा फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड।
5.	5383	अजगैबी इकोनामी इण्डिया लिमिटेड।
6.	5913	एम्बीयेन्स फिस गोल्ड लिमिटेड।

के. प्रसाद
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में।

पटना, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. आरओसी/पटना/560/167--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	रजिस्टर सं.	कम्पनी का नाम
1.	2631	मैसर्स मोनार कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
2.	9211	मैसर्स मिश्रा मेडीकेयर प्रा. लि.
3.	2153	मैसर्स चित्रगुप्त फिल्मस प्रा. लि.
4.	9635	मैसर्स माइथल टेक्नोलॉजी हाऊस प्रा. लि.
5.	6127	मैसर्स इन्द्रधन फाइनांस कम्पनी लि.
6.	5188	मैसर्स कॉन्टीनेन्टल आर्गेनिक इण्डस्ट्रीज लि.
7.	5492	मैसर्स असकोस इकोनोमी डेवेलपमेंट लि.

के. प्रसाद
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 2 मई 2008

सं. आरओसी/जे.टी.ए./एम.जी./गुज./2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अंतर्गत एतद्वारा निम्नलिखित कंपनियों का नाम इस नोटिस की तारीख से रजिस्टर से काट दिया जाता है और यह कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	04-34782	मैसर्स स्मिता टेप्स प्रा. लि.
2.	04-42877	मैसर्स अक्षर इन्फोमेटिक्स प्रा. लि.
3.	04-32542	मैसर्स मून ओवरसीस प्रा. लि.
4.	04-06785	मैसर्स मंगलम सिनफेब प्रा. लि.
5.	04-39942	मैसर्स नीलम टाईल्स प्रा. लि.
6.	04-33958	मैसर्स पायलट मेटालर्जी प्रा. लि.
7.	04-34728	मैसर्स वसंतलाल चुनौलाल टेप्स प्रा. लि.
8.	04-00330	मैसर्स हिन्द बोरिंग वर्क्स प्रा. लि.

1	2	3
9.	04-35260	मैसर्स चेतन टेप्स प्रा. लि.
10.	04-40761	मैसर्स डॉ. एन. एम. मोदी होस्पिटल प्रा. लि.
11.	04-18867	मैसर्स अमीझरा फूड्स प्रा. लि.
12.	04-08467	मैसर्स जे. बी. परफ्यूम्स प्रा. लि.
13.	04-50272	मैसर्स ओमेगा इम्पेक्स (इंडिया) प्रा. लि.
14.	04-14376	मैसर्स गोविंद डायस्टफ प्रा. लि.
15.	04-31766	मैसर्स चंचल फेशन्स प्रा. लि.
16.	04-02230	मैसर्स महेन्द्र डाईस एण्ड केमीकल्स प्रा. लि.
17.	04-37103	मैसर्स रोड मास्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
18.	04-37122	मैसर्स सोलिड 2000 ट्रेड लि.
19.	04-14674	मैसर्स मेस्कोन मशीनरीज प्रा. लि.
20.	04-25371	मैसर्स अभिप्रिया ग्रेनाईट्स प्रा. लि.
21.	04-45597	मैसर्स लोन्जा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
22.	04-23536	मैसर्स स्पेक्ट्रम टेक्निकल सर्विसिस प्रा. लि.
23.	04-34436	मैसर्स सिमरन एपरल्स प्रा. लि.
24.	04-44583	मैसर्स कन्सेप्ट एम. आर. मल्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
25.	04-32540	मैसर्स नीलम इक्यूपमेंट प्रा. लि.
26.	04-45457	मैसर्स त्रिनेत्रम सिन्थोरिटीज एण्ड कंट्रोल प्रा. लि.
27.	04-44268	मैसर्स युएस इन्जेक्ट्स प्रा. लि.

बी. के. खूबचन्दानी
कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोशनी एग्रीकल्चर प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00217/098477/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोशनी एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00428/134175/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोनिरा बायो-टेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00434/134045/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अपूर्वा एग्रेजोनेर्यक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00417/135791/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री विष्णुहर्ता एगो

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. बी. बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00473/133069/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. बी. बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एण्ड जी. फ्लोरीकलचर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मं.ब.ई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00476/095004/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी. एण्ड जी. फ्लोरीकाल्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बायो-एस वाई एन हर्ब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. ००४८३/१४६६१७/५६०(३)--कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५६० को उपधारा (३) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बायो-एस वाई एन हर्ब्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्डस क्रोपसाईस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00489/142522/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्डस क्रोपसाईड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनविमो प्लानटेशन्स ग्रोथ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00493/132785/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनविमो प्लानटेशन्स ग्रोथ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याणी फोरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मं.ई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00499/123457/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कल्याणी फोरेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रीनक्लीन बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00504/120645/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रीनक्लीन बायो-टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्दर कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाजे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पिंक रोज एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मं०ई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00103/135150/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पिंक रोज एग्रेटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वसुंधरा एग्रो होम्स् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00036/130389/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वसुंधरा एग्रो होम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सं. 001116/136043/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोहानस् एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अष्टविनायक फ्रूट प्रोविन्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मं.बई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00033/128876/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अष्टविनायक फूट ग्रोवर्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00108/135708/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हॉवर्ड स्पाइसेस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाग एग्रो एण्ड एक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00028/127950/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नाग एग्रो एण्ड एक्वा टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लॉर्ड-शिवा एम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00024/126536/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लॉर्ड-शिवा एम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवा एग्रोजेनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00020/123020/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिवा एग्रोजेनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केलवे पान उत्पादक विक्रेता कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00013/119280/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केलवे पान उत्पादक विक्रेता कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोहोल ग्रीनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00010/118506/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मोहोल ग्रीनरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री दत्त ग्रीनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00007/118504/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री दत्त ग्रीनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीपाद ग्रीनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00004/118503/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीपाद ग्रीनरीज प्राईवेट

सं. 00385/104391/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00418/105017/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्लेक्सिस्पैन कॉन्ग्रीडक्ट्स

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोहम एग्रो (दहिवाल) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00432/105031/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोहम एग्रो (दहिवाल) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिगल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00448/105931/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिगल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेबी एण्ड एम् कम्युनिकेशनस् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00437/105901/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेबी एण्ड एम् कम्युनिकेशनस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीहरी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00046/107067/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीहरी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्रीराम मोतीराम सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिव शक्ति शिपींग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 00440/105906/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिव शक्ति शिपींग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 5 मई 2008

सं. आर.ओ.सी./प.बं./आईपीसी/560/07/197--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्रम सं.	सीआईएन नं.	कम्पनी का नाम
1	U67120WB1969PTC27502	इसी ओवरसीज ट्रेड प्रा०लि०
2	U26913WB1973PTC28786	26/पीएलइ सेरॉमिक्स प्रा०लि०
3	U19116WB1988PTC44821	3 एसेस लेदर प्रा०लि०
4	U60210WB1948PTC16734	ए बी राय एण्ड क. प्रा०लि०
5	U60210WB1972PTC28238	ए जे कैरियर्स प्रा०लि०
6	U10102WB1946PTC13761	ए के कोलियरिज लिमिटेड
7	U31909WB1973PTC28970	ए के ऑयरन एण्ड मेटल प्रा०लि०
8	U22190WB1988PTC44770	ए के सरकर पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
9	U65192WB1948PTC16399	ए एन लाहा एण्ड सन्स प्रा०लि०
10	U51909WB1993PTC60808	ए.मित्रा इन्जनीयरींग वर्क्स प्रा०लि०
11	U74210WB1989PTC46480	ए.बी.रिंगडिंग (इण्डिया) प्रा०लि०
12	U60210WB1985PTC39009	ए.डी.ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
13	U29299WB1960PTC24625	ए.एफ.सी.इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
14	U93090WB1987PTC42707	ए.जजी.सर्विसेज प्रा०लि०
15	U31325WB1990PTC49616	ए.एस.वायर्स एण्ड केबल्स प्रा०लि०
16	U25209WB1990PTC49667	ए.टी.पॉलीपैक प्रा०लि०
17	U51109WB1995PTC72472	आकार मर्वेन्डाईज प्रा०लि०
18	U51909WB1993PTC058656	आकृति एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
19	U74210WB1987PTC42944	आर्ड ट्रेडिंग एण्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेज
20	U67120WB1999PTC89553	आरथा शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रा०लि०
21	U67120WB1985PTC39788	एबीसी इन्वेस्टमेंट एण्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
22	U70109WB1970PTC27721	अभय कोल सिन्डीकेट प्रा०लि०
23	U51391WB1999PTC89610	अभिषेक अप्पारेल प्रा०लि०
24	U65993WB1983PTC35892	आगेष्ट सिद्धि प्रा०लि०

25	U51109WB1996PTC78505	अभियान ट्रेडिंग प्रा०लि०
26	U51909WB1995PTC69349	अबीप्रा सप्लायर्स प्रा०लि०
27	U99999WB1993PTC58682	एब्सोल्यूट इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
28	U01134WB1992PLC55421	अब्बी एगो फोरेस्ट्री लिमिटेड
29	U74140WB1987PTC42282	एक्क्युरेटो कम्प्युनिकेशन कंसल्टेंट्स
30	U24231WB1985PTC39706	एसेटोकेम एण्ड ऑर्गेनिक लेबोलेक्टीटीज प्रा०लि०
31	U24117WB1974PTC29263	आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र कॉलेज एण्ड
32	U74300WB1993PTC57675	एड मेक एडवर्टिजिंग एजेन्सीज प्रा०लि०
33	U70101WB1987PTC42856	एड स्पेस प्रोपर्टीज प्रा०लि०
34	U65993WB1993PTC59445	एडेन इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनान्स कंपनी प्रा०लि०
35	U51909WB1961PTC24982	अधिकारी कॉमर्शियल सप्लायर्स प्रा०लि०
36	U65910WB1987PTC42273	अदिति एसोसियेट्स फिनान्स प्रा०लि०
37	U55101WB1996PTC79030	आदित्य इन एण्ड रिसोर्ट्स प्रा०लि०
38	U74210WB1999PTC90668	एडवॉर्ड प्रोजेक्ट इन्जीनियरिंग सर्विसेज
39	U28113WB1996PTC76731	एडवायट राइस मिल्स प्रा०लि०
40	U24232WB1985PTC39822	ऐडऑन ड्रग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
41	U27109WB1985PTC39730	अग्रवाल एण्ड साहा प्रा०लि०
42	U27109WB1972PLC28580	एजी इस्पात लिमिटेड
43	U27109WB1996PTC80033	एगराज स्टील्स प्रा०लि०
44	U51219WB1987PTC42571	एग्रीकल्चरल बाई-प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्रा०लि०
45	U67120WB1995PTC75106	अहिलिया ट्रेडिंग एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
46	U51909WB1992PTC55922	ऐम्स (एक्सपोर्ट्स) प्रा०लि०
47	U99999WN1995PTC68399	एयर फ्राइट कुरियर्स प्रा०लि०
48	U65999WB1988PTC44286	ऐश्वर्जालक्ष्मी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स

49	U26919WB1972PTC28237	अजयदीप मिनेरल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
50	U17121WB1964PLC26069	अजुधिया टेक्सटाईल मिल्स लिमिटेड
51	U70101WB1964PTC26145	आकाश गंगा कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
52	U29130WB1990PTC49607	एकेआरसी मशीन टूल्स एण्ड स्पेयर्स प्रा०लि०
53	U72400WB1989PTC46699	एकेएस डाटा कंसायटेंट्स प्रा०लि०
54	U51909WB1960PTC24897	अलेक्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
55	U99999WB1959PTC24172	एलेक्स मिल्लर (बम्बई) प्रा०लि०
56	U45206WB1968PLC27304	ऑल इण्डिया अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्रा०लि०
57	U65993WB1991PLC52953	ऑल इण्डिया एक्जीम स्कीप इन्वेस्टर्स एसोसिएशन
58	U51909WB1965PTC26485	एलॉयड इस्ट इण्डिया एजेन्सी कं. प्रा०लि०
59	U28991WB1964PTC26071	एलॉय स्टील डाएज एण्ड टूल्स प्रा०लि०
60	U10200WB1985PTC39387	अल्मानी इण्डिया प्रा०लि०
61	U24222WB1966PTC26903	आलोकचेमी-वेण्ट्स प्रा०लि०
62	U51420WB1987PTC42843	आलो-रे-रोलिंग मिल प्रा०लि०
63	U51395WB1997PTC85993	अल्प्स कूलिंग कम्पनी प्रा०लि०
64	U99999WB1993PTC58859	ऑल्वीन साइन्टिफिक सिस्टम्स प्रा०लि०
65	U01132WB1988PLC44274	ऑलीनी प्लान्टेशन्स लिमिटेड
66	U63090WB1995PTC76209	अमर रोडवेज प्रा०लि०
67	U00000WB1949PLC17844	अमरनाथ हाजरा लिमिटेड
68	U55101WB1988PTC45095	अम्बेय गार्मेन्टाईल प्रा०लि०
69	U14291WB1997PLC85935	अमेरिकन डायमण्ड्स लिमिटेड
70	U51909WB1997PTC83320	अमेरिकन सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स (इण्डिया)
71	U19116WB1999PTC89653	अमिनो लेदर्स प्रा०लि०
72	U70109WB1992PTC56592	अमिस्टोर प्रोजेक्ट प्रा०लि०
73	U67110WB1994PLC66411	अमिया मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड

74	U27108WB1996PTC76448	अमृत एलॉयज प्रा०लि०
75	U92111WB1987PTC42690	अमृता फिल्म्स प्रा०लि०
76	U65929WB1992PLC54734	अमुलेट फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
77	U51909WB1995PTC69311	अमुराड कॉमर्शियल प्रा०लि०
78	U65191WB1982PTC35474	अनामिका इण्डिया प्रा०लि०
79	U67120WB1976PLC30784	आनंदीलाल पोद्दार एण्ड सन्स लिमिटेड
80	U17131WB1965PTC26691	अनंतपुर पावरलुम फैक्टरी प्रा०लि०
81	U65922WB1990PTC49056	अंदीस इन्फोटेक सिस्टेम्स प्रा०लि०
82	U18101WB1966PTC26801	अन्दुल टेक्नाटाईल्स प्रा०लि०
83	U74140WB1987PTC42786	अंगलिया मैनेजमेंट हाउस प्रा०लि०
84	U65993WB1993PTC60643	अनिल फिनान्सियल सर्विसेज प्रा०लि०
85	U31909WB1966PTC26812	अनिता इन्जीनियर्स प्रा०लि०
86	U70101WB1993PTC57591	अंकित विल्डकॉन एण्ड फिन्वेरट प्रा०लि०
87	U29303WB1987PTC42838	अंकुर इलेक्ट्रो-सिस्टम प्रा०लि०
88	U21212WB1993PTC59559	अन्ला पब्लिकेशन प्रा०लि०
89	U99999WB1913PLC2354	अब्रापूर्णा टी कं. लिमिटेड
90	U67120WB1983PLC35860	अनराज इण्डस्ट्रीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
91	U91397WB1973PTC28868	अन्सॉन इन्जीनियरिंग कं. प्रा०लि०
92	U51109WB1995PTC75361	अनुभव एजेन्सी प्रा०लि०
93	U25209WB1977PTC30982	अनुपम रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
94	U30009WB1998PTC86904	अपारन कम्प्यूटर प्रा०लि०
95	U29120WB1987PTC42212	एपीबी पावर पैक (इण्डिया) प्रा०लि०
96	U45201WB1981PTC33819	एप्को प्रोपर्टीज प्रा०लि०
97	U51900WB1993PLC61083	एपेक्स इन्टरप्राइजेज (इण्डिया) लिमिटेड

98	U51909WB1967PTC26984	एपीएन स्टील एण्ड एलॉयड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
99	U19122WB1994PLC66359	अप्पु लिमिटेड
100	U51909WB1995PLC67378	अप्पु टेक्नोलॉजिज लिमिटेड
101	U551909B1999PTC89363	अप्सरा क्रिएशन प्रा०लि०
102	U65110WB1986PLC41445	एपीटी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
103	U45203WB1979PTC32089	आरग्या भवन प्रा०लि०
104	U51109WB1995PTC71913	अरामबाग मिल्स प्रा०लि०
105	U51491WB1940PLC10168	आरती कॉटन मिल्स लिमिटेड
106	U27107WB1963PTC25930	आर्च इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
107	U67120WB1994PTC62696	आर्च लीजफिन प्रा०लि०
108	U45201WB1995PTC69281	अर्चना आवास प्रा०लि०
109	U29191WB1991PLC52355	आरको एक्जीम लिमिटेड
110	U29297WB1985PTC39163	आर्कटिक (इण्डिया) इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
111	U27106WB1963PTC25824	आरगोनोट्स इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
112	U72200WB1997PTC85597	एरियज इन्फोटेक प्रा०लि०
113	U10101WB1950PLC18997	अरिगदा कोलियरिज लिमिटेड
114	U74994WB1993PLC57373	अरिहन्ट इन्टेरियर्स लिमिटेड
115	U51909WB1995PTC75487	आरनोल्ड सप्लाइ प्रा०लि०
116	U52311WB1987PTC42551	आरोमा क्लीनिंग एण्ड सर्विसिंग प्रा०लि०
117	U29130WB1996PTC76449	आरोमा एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
118	U51901WB1992PTC57147	अरुणा एजेन्सी प्रा०लि०
119	U45201WB1993PLC59669	अरुनोदय आवासन लिमिटेड
120	U67200WB1960PLC24906	आरयन चैम्पियन इन्सुरेन्स कं. लिमिटेड
121	U45201WB1997PTC85907	आरयन कॉन्ट्रेड प्रा०लि०
122	U15205WB1986PLC40464	आर्यावर्त फूड्स लिमिटेड

123	U51109WB1995PTC69764	असामुद्रा प्लास्टिक्स प्रा०लि०
124	U22219WB1997PTC85876	आशा प्रकाशन प्रा०लि०
125	U91312WB1989PTC45971	आशा टॉल्किज प्रा०लि०
126	U17123WB1967PTC27204	अशोक वूल्लेन मिल्स प्रा०लि०
127	U00000WB1959PTC24350	अशोका इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
128	U51215WB1943PTC11424	अशोका पेण्ट्स प्रा०लि०
129	U24117WB1984PLC38137	अशोका पेट्रोकेम लिमिटेड
130	U70101WB1995PTC72122	आश्रय बिल्डर्स प्रा०लि०
131	U66010WB1936PLC8490	एशिया मर्केन्टाईल प्रोविडेंट इन्सुरेन्स कं.
132	U74999WB1994PLC63593	एशिया पेटिफिक कस्टोडियन एण्ड ट्रस्टीज लिमिटेड
133	U24224WB1960PLC24671	एशियन टेक्सटाईल्स डायेस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
134	U28113WB2000PTC91012	एसिस ऑयरन फाण्ट्री प्रा०लि०
135	U45209WB1951PTC19807	असोक कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
136	U29150WB1972PTC28423	एसोसियेटेड कंक्रीट इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
137	U28132WB1971PTC28132	एसोसियेटेड इम्पेल्लर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
138	U27202WB1960PTC24617	एसोसियेटेड ऑयरन एण्ड स्टील कं. प्रा०लि०
139	U10200WB1970PTC27699	एसोसियेटेड मल्लीट्स प्रा०लि०
140	U65210WB1993PLC59029	एसोर्ट फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
141	U02004WB1997PTC85884	आस्था एग्रो प्रा०लि०
142	U45201WB1985PTC039812	एस्ट्रा प्रोपर्टीज प्रा०लि०
143	U25201WB1996PTC79732	एटकॉन पॉलीमर प्रा०लि०
144	U55101WB1997PTC83074	अतिथि यात्री निवास प्रा०लि०
145	U27203WB1977PTC30959	आतिज हेलिडेस एण्ड केमिकल्स एम एम प्रा०लि०
146	U27108WB1947PLC15467	अटवाल फाण्ट्री एण्ड मेटल वर्क्स लिमिटेड

147	U92113WB1989PTC46032	औरोरा विडियो सेन्टर प्रा०लि०
148	U20232WB1962PLC25646	एवेन्यू कम्प्योनेन्ट्स लिमिटेड
149	U51909WB1992PTC55551	अविषेक व्यापार एण्ड वाणिज्य प्रा०लि०
150	U65993WB1996PTC76988	आविष्कार इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
151	U35303WB1988PLC45106	एविएशन टेक्नो सर्विसेज लिमिटेड
152	U01122WB1995PTC72179	एजटेक एग्रो प्रा०लि०
153	U91397WB1987PLC42648	बी ए बी सप्लायर्स लिमिटेड
154	U60210WB1949PLC18389	बी बी ए ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड
155	U28991WB1950PLC18738	बी डी सेल्स एण्ड सप्लाइ लिमिटेड
156	U25199WB1986PTC40414	बी जी साहा रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
157	U24234WB1988PTC44864	बी एच होमियो लेबोरेटरी प्रा०लि०
158	U99999WB1949PLC17816	बी के बिश्वास एण्ड सन्स लिमिटेड
159	U64120WB1995PTC76207	बी एन एल ऐयर सर्विस प्रा०लि०
160	U65921WB1965PTC26313	बी पी एजेंट्स एण्ड फिनांशियर्स प्रा०लि०
161	U28931WB1980PTC32693	बी पी ट्रेडर्स प्रा०लि०
162	U45201WB1998PLC87824	बी एस प्लान्टेशन्स एण्ड डेवलपर्स कं. लिमिटेड
163	U45201WB1993PTC59618	बी.बी.जी. कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
164	U51909WB1993PTC57721	बी.के.रिफाईनेरिज प्रा०लि०
165	U99999WB1971PTC28187	बादल पिकचर्स प्रा०लि०
166	U65993WB1992PLC55920	बागनान हाउसिंग फिनांशियर एण्ड इन्वेस्टमेंट
167	U27109WB1981PTC33649	बागरी इन्टरप्राइजेज मेटल्स प्रा०लि०
168	U70101WB1996PTC79835	बाज गार्डन्स प्रा०लि०
169	U25201WB1961PTC24995	बजाज कंस्ट्रक्शन एण्ड माइनिंग प्रा०लि०
170	U24231WB1967PTC27093	बालाजी ऑर्गेनिक केमिकल प्रा०लि०
171	U67120WB1990PTC49288	बालमोरल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फिनांस प्रा०लि०

172	U27109WB1952PTC20746	बामनगाछी इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
173	U24234WB1987PTC42784	बंग लक्ष्मी फार्मा केम प्रा०लि०
174	U51103WB1978PTC31662	बांगोदय इण्डस्ट्रीयल इन्जीनियर्स प्रा०लि०
175	U25199WB1978PTC31825	बानिक रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
176	U45401WB1967PTC27188	बान्सन्स सेनिटेशनस प्रा०लि०
177	U67120WB1987PTC42681	बराक वैली डेवलपमेंट प्रा०लि०
178	U28991WB1976PTC30449	बरनागोर ब्रास फाउण्ड्री प्रा०लि०
179	U24219WB1972PTC28553	बसंत प्लास्टिक्स प्रा०लि०
180	U51909WB1983PLC36373	बरंती कॉमर्शियल लिमिटेड
181	U22219WB1960PTC24711	बसंतिका प्रेस प्रा०लि०
182	U65999WB1991PTC50935	बासंली क्रेडिट एण्ड फिनांस कम्पनी प्रा०लि०
183	U65993WB1993PLC59851	बासुमता सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
184	U51909WB1963PTC25729	बासुमति प्रा०लि०
185	U70102WB1986PTC40129	बासुन्धरा लैण्ड एण्ड हाउसिंग डेवलपमेंट
186	U24241WB1953PTC21349	बैचवेल प्रा०लि०
187	U28133WB1981PTC33832	बीबीएम पावर एण्ड इण्डस्ट्रीयल सर्विसेज प्रा०लि०
188	U51109WB1994PLC61755	बीसीएल सेकुरिटीज लिमिटेड
189	U65999WB1990PTC50348	बीसीएम इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
190	U24299WB1997PTC85908	बीडी केमिकल्स प्रा०लि०
191	U65999WB1993PLC60674	बिकॉन सेविंग्स एण्ड फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड
192	U23109WB1986PLC40887	बियरेस (इण्डिया) लिमिटेड
193	U32309WB1987PTC42535	बेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
194	U51109WB1992PLC54707	बेंगाल अधेसिव्स एण्ड रीलैण्ट्स लिमिटेड
195	U60222WB1952PTC20444	बेंगाल कैरिंग कॉरपोरेशन प्रा०लि०

196	U85120WB1935PLC8471	बैंगल डेन्टल सप्लाय कं. लिमिटेड
197	U74210WB1992PTC56500	बैंगल हाउसिंग कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
198	U15205WB1998PTC86940	बैंगल आईस क्रीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
199	U23201WB1989PTC48026	बैंगल इण्डस्ट्रीयल लुब्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स
200	U60210WB1952PTC20745	बैंगल नेशनल ट्रस्ट प्रा०लि०
201	U21012WB1900SGC00590	बैंगल पेपर मिल्स कं. लिमिटेड
202	U29212WB1976PTC30714	बैंगल फाइनएप्पल प्रा०लि०
203	U63090WB1979PTC31862	बैंगल पोर्ट एजेन्सी प्रा०लि०
204	U17309WB1965PTC26688	बैंगल पॉवरलूम फैक्टरी प्रा०लि०
205	U91990WB1937PLC8997	बैंगल शेयर एण्ड स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड
206	U24232WB1961PTC25344	बैंगल तार प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
207	U28113WB1997PTC83676	बैंगल थर्मोवेल्ड प्रा०लि०
208	U51491WB1950PLC18776	बेरिवाला ब्रदर्स लिमिटेड
209	U10102WB1949PLC18112	बेरगे कोलियरी कं. लिमिटेड
210	U24222WB1967PTC26990	भागीरथी इन्जीनियरिंग कं. प्रा०लि०
211	U15319WB1964PTC26068	भागीरथी फुड एण्ड फाइबर्स प्रा०लि०
212	U65192WB1991PTC52524	भागीरथ स्मॉल सेर्विसेस एण्ड फिनावेस
213	U71120WB1982PTC35327	भगवानपुर टियोर फिशेरिज प्रा०लि०
214	U45201WB1972PTC28550	भगवती प्रोपर्टीज प्रा०लि०
215	U24232WB1936PLC8784	भारत लैबोरेटोरी एण्ड केमिकल वर्क्स लिमिटेड
216	U01402WB1973PTC28683	भारती फार्मिंग प्रा०लि०
217	U99999WB1952PTC20611	भारती प्रा०लि०
218	U51909WB1972PLC28561	भारथ ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
219	U65993WB1992PLC54563	भारतिया स्टिरोस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया)
220	U51396WB1948PTC17142	भोलानाथ दत्त (पेपर सर्विसेस) प्रा०लि०

221	U33114WB2000PTC91131	भौमिक इन्टरप्राइज प्रा०लि०
222	U51909WB1972PTC28512	भुटानी मिनेरल्स प्रा०लि०
223	U32101WB1962PLC25668	भुटोरिया इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड
224	U26941WB1972PTC28572	बिधान फार्मासिउटिकल वर्क्स प्रा०लि०
225	U65922WB1992PLC54431	बिजोया सेविंग्स एण्ड हायर पर्थेज (इण्डिया) लिमिटेड
226	U17232WB1962PLC25653	बिलासपुर स्पीनिंग मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
227	U17121WB1964PTC26066	बीणा मिल्स प्रा०लि०
228	U51909WB1995PTC70127	बीणापाणि मार्केटिंग प्रा०लि०
229	U85110WB1996PTC76776	बिराटी नर्सिंग होम प्रा०लि०
230	U51420WB1983PTC35691	बडमान मार्केटिंग प्रा०लि०
231	U51909WB1998PTC86911	बिरका एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
232	U50102WB1948PTC16779	बिश्वनाथ मोटर सर्विस प्रा०लि०
233	U70101WB1990PTC50446	बिश्वबदिता हाउसिंग एण्ड लेण्ड
234	U74940WB1997PTC85474	बिश्वास सेकुरिटी एण्ड इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी
235	U65999WB1994PLC61746	बिटॉन सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
236	U29214WB1961PTC25266	ब्लाईड्स इण्डिया प्रा०लि०
237	U25209WB1995PTC71767	ब्लू बेल पॉली फाइबर प्रा०लि०
238	U22219WB1976PTC30754	ब्लू सौल पब्लिसिटी प्रा०लि०
239	U99999WB1987PTC42656	ब्लू स्टार कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
240	U33119WB1971PTC28054	बोको इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
241	U92111WB1947PTC15462	बॉम्बे पिकचर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
242	U27209WB1976PTC30745	बॉम्बे स्टेनलेस स्टील हाउस प्रा०लि०
243	U19129WB1986PTC40202	बोनान्जा एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्रा०लि०
244	U51909WB1997PTC83070	बोन्लीन पैकर्स प्रा०लि०

245	U51909WB1979PTC31982	बूकमार्क प्रा०लि०
246	U51109WB1994PTC63510	बोस ड्रग हाउस प्रा०लि०
247	U70101WB1992PTC55476	बोसोन कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
248	U65929WB1987PTC42566	बोटानिक सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्रा०लि०
249	U50300WB1948PTC16689	ब्रह्मयी मोटर सर्विस प्रा०लि०
250	U74140WB1985PTC39360	ब्रीज सिस्टम इंजीनियरिंग प्रा०लि०
251	U72200WB1964PLC26082	ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रीक (इण्डिया) लिमिटेड
252	U15491WB1992PTC55215	ब्राइट ब्रू टी प्रा०लि०
253	U65993WB1986PTC40707	ब्राइट इमेज प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
254	U51109WB1995PTC69745	ब्राइट-सीम कॉमर्शियल प्रा०लि०
255	U70109WB1983PTC35724	ब्राइटवर्ल्ड प्रा०लि०
256	U51109WB1995PTC72726	ब्रोचुन कोमोडिटीज प्रा०लि०
257	U17118WB1997PTC84412	ब्राइलॉन इण्डस्ट्रीयल टूवीन्स प्रा०लि०
258	U26939WB1961PTC25165	बुन्ना सेरॉमिक इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
259	U24231WB1951PTC19821	बज बज मेडिकल हॉल प्रा०लि०
260	U99999WB1923PLC04665	बुलियोन कं. लिमिटेड
261	U67120WB1954PTC22008	बर्दवान होल्डिंग्स प्रा०लि०
262	U15312WB2000PTC90984	बर्दवान राइस प्रा०लि०
263	U51109WB1995PTC70582	बर्लिंगटन व्यापार प्रा०लि०
264	U27202WB1959PTC24372	बरमाह मेटल वर्क्स प्रा०लि०
265	U65993WB1994PLC61511	बरसेरी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
266	U67120WB1993PTC59052	बटरफ्लाई सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
267	U17297WB1946PLC14583	सी के घोष एण्ड कं. (टेक्सटाईल्स) लिमिटेड
268	U29197WB1995PTC72927	सी.एस.वेपकॉन (इण्डिया) प्रा०लि०
269	U24231WB1985PTC39722	सी.एम.सी.फार्मासिएटिकल प्रा०लि०

270	U65910WB1985PTC38672	सी.एस.आई. सर्विसेज प्रा०लि०
271	U74210WB1996PTC79659	कालार्स कम्पु प्रा०लि०
272	U63090WB1960PTC24863	कलकत्ता कैरियर्स प्रा०लि०
273	U29150WB1979PTC31909	कलकत्ता क्रैन्स प्रा०लि०
274	U18101WB1965PTC26586	कलकत्ता डायइंग मिल्स प्रा०लि०
275	U31501WB1936PLC8632	कलकत्ता इलेक्ट्री लैम्प वर्क्स लिमिटेड
276	U14201WB1948PTC16357	कलकत्ता लेदर हाउस प्रा०लि०
277	U27310WB1960PTC24876	कलकत्ता मैनुफैक्चरर्स प्रा०लि०
278	U65910WB1994PLC61845	कलकत्ता मोटर जेनरल फिनान्स लिमिटेड
279	U24132WB1997PTC84396	कलकत्ता पॉलीयूरेथान्स प्रा०लि०
280	U40105WB1995PLC69709	कलकत्ता पाँवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
281	U45303WB1972PTC28399	कलकत्ता रेफ-एयर इन्जीनियर्स प्रा०लि०
282	U51909WB1965PTC26684	कलकत्ता रिफ्रेक्टोरिज एण्ड अब्रासिव्स प्रा०लि०
283	U27106WB1972PTC28557	कलकत्ता रोलिंग एण्ड वायर मिल्स प्रा०लि०
284	U8714 WB1936PLC8714	कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स कं. लिमिटेड
285	U05005WB1995PTC72396	कलकत्ता सी फुड्स प्रा०लि०
286	U67120WB1992PTC56457	कलकत्ता शेयर एण्ड स्टॉक्स प्रा०लि०
287	U91990WB1986PLC41311	कलकत्ता सुगर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन
288	U28991WB1979PTC31896	कलकत्ता टर्मिनल हैंडलिंग सर्विसेज प्रा०लि०
289	U85195WB1986PTC40556	कलकत्ता एक्स-रे क्लीनिक प्रा०लि०
290	U51109WB1995PLC70589	कैलट्रेड ट्रेडर्स लिमिटेड
291	U32109WB1973PTC28985	कैलट्रोनिक्स प्रा०लि०
292	U01122WB1979PTC31974	कैमेलिया फ्लावर प्लान्टेशन्स प्रा०लि०
293	U24299WB1988PTC44720	कैपेल्ला इन्जीनियर्स प्रा०लि०

294	U51909WB1990PTC48338	कैप्टॉप मार्केटिंग प्रा०लि०
295	U65992WB1961PTC25146	केसलाइट (इण्डिया) प्रा०लि०
296	U51909WB1979PTC32010	कैट बैल्लॉन प्रा०लि०
297	U63040WB1997PTC84334	सेन्टरप्वाइट टूर्स प्रा०लि०
298	U74995WB1989PTC46563	चञ्जा एण्ड कंपनी प्रा०लि०
299	U28992WB1985PTC39707	चक्रवर्ती (मेटल) इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
300	U51109WB1995PTC75277	चक्रवर्ती क्लीयरिंग एजेन्ट्स प्रा०लि०
301	U92111WB1949PLC18501	चक्रवर्ती सिनेमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
302	U63090WB1949PLC18478	चलन्तिका ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड
303	U51109WB1982PTC35393	चंचनी राय एजेन्सीज प्रा०लि०
304	U63032WB1996PTC78112	चांद सौदागर शिपिंग कम्पनी प्रा०लि०
305	U16002WB1997PTC85789	चांदनी बीडी वर्क्स प्रा०लि०
306	U45201WB1997PTC83689	चन्द्रकेतु कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
307	U65191WB1973PLC28859	चपाला सेविंग एण्ड फिनांस लिमिटेड
308	U74140WB1986PTC40303	चार्ल्स कंसल्टेंट्स ग्रुप प्रा०लि०
309	U51491WB1974PTC29320	चटर्जी चक्रवर्ती (ऑवरसीज) प्रा०लि०
310	U15491WB1990PTC48298	चवाई बैली टी कम्पनी प्रा०लि०
311	U65993WB1982PLC34459	चयनिका सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट क. लिमिटेड
312	U11102WB1960PTC24922	चेम-फाइबर प्रा०लि०
313	U24219WB1985PTC39789	चेम्फिल इण्डिया प्रा०लि०
314	U92112WB1958PTC24065	छाया लोक प्रा०लि०
315	U61100WB1972PTC28221	चिन्मय चबलानी (शिपिंग) प्रा०लि०
316	U70101WB1996PTC78438	चिराग डेवलपर्स प्रा०लि०
317	U70109WB1993PTC58984	चित्र कूट कोमोर्ट्रेड प्रा०लि०
318	U00000WB1961PTC25206	चित्र रामसार प्रा०लि०

319	U92114WB1948PTC16715	चित्राश्री प्रा०लि०
320	U51909WB1941PTC10639	चौधरी एण्ड सन्स प्रा०लि०
321	U65993WB1971PTC28101	चौरगी सेविंग्स यूनिट्स कं. प्रा०लि०
322	U28113WB1985PTC39291	क्रोमप्लेट (इण्डिया) प्रा०लि०
323	U51909WB1995PTC72723	चित्रामॉन ट्रेडर्स प्रा०लि०
324	U99999WB1982PLC35540	साइटस (इण्डिया) लिमिटेड
325	L99999WB1992PLC55804	क्लेयरवोयंट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
326	U70101WB1998PTC86898	क्लेरियोन इण्डस्ट्रीयल पार्क प्रा०लि०
327	U51109WB1994PLC61701	क्लेरिटी डाटासर्व लिमिटेड
328	U65993WB1985PTC39874	क्लासिक इन्जीनियरिंग कं. प्रा०लि०
329	U93090WB2000PTC90971	क्लासिक एक्स-सर्विसमैन सेक्युरिटी एजेन्सी
330	U24232WB1954PTC21474	क्लेय्ज प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा०लि०
331	U33119WB1961PTC24956	क्लीनिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
332	U29252WB1960PTC24633	सीएमई इन्जीनियर्स प्रा०लि०
333	U51909WB1946PLC13723	कोलफिल्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड
334	U99999WB1993PLC58653	कोलरेन एक्सपेर्ट्स लिमिटेड
335	U74210WB1986PTC40597	कम्बाईन्ड टेक्नो कंसल्टेन्सी सर्विसेज
336	U60210WB1950PLC19257	कॉमर्शियल कैरिड्रिंग कं. (इण्डिया) लिमिटेड
337	U92111WB1986PTC40346	कम्युनिकेशन एटीवी प्रा०लि०
338	U22219WB1982PTC35025	कम्पनी लॉ जर्नल पब्लिकेशन प्रा०लि०
339	U99999WB1963PLC25938	कम्पास पब्लिकेशन्स लिमिटेड
340	U02001WB1988PTC44795	कम्प्रेहेन्सिव ट्रेडर्स प्रा०लि०
341	U45203WB1965PTC26624	कम्प्रेसरड पिलिंग कं. प्रा०लि०
342	U30009WB1984PLC37911	कम्प्यूटेक इन्टरनेशनल लिमिटेड

343	U67120WB1993PLC59118	कॉन्व फिनान्शियल एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड
344	U74140WB1985PTC39216	कॉन्कार्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
345	U99999WB1965PTC26578	कॉन्कार्ड इण्डस्ट्रीयल कंस्ट्रक्शन कं. प्रा०लि०
346	U67120WB1983PLC35849	कन्डेन्स फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
347	U65922WB1992PTC55190	कंसोल फिनान्स एण्ड डेवलपमेंट प्रा०लि०
348	U28112WB1993PTC57495	कंसोलिडेटेड फॉर्मवर्क प्रा०लि०
349	U34103WB1960PTC24929	कंसोलिडेटेड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
350	U74210WB1960PTC24697	कंसल्टेंट्स फोर इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
351	U28113WB1986PLC41522	कॉन्टेनर्स एण्ड कैप्स लिमिटेड
352	U51109WB1995PTC67782	कॉन्टीलो विनिमय प्रा०लि०
353	U51909WB1960PTC24537	कॉन्ट्रापैक प्रा०लि०
354	U17232WB1996PLC82309	कूचबिहार जूट प्रोसेजिंग कम्पनी
355	U29192WB1987PTC42411	कूल होम कं. प्रा०लि०
356	U63022WB1965PTC26565	कूलिंग वेंटीलेटिंग कं. प्रा०लि०
357	U65922WB1988PLC45272	कॉर्नहिल सेविंग्स एण्ड फिनांस (इण्डिया) लिमिटेड
358	U92141WB1949PTC18461	कोरोनेशन सिनेमा एण्ड कं. प्रा०लि०
359	U92114WB1997PTC84340	कोसमोस इन्टरटेनमेंट्स प्रा०लि०
360	U51109WB1965PTC26514	कोस्ट कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
361	U17115WB1947PTC15491	कॉटन टेक्स्टाईल कारपोरेशन प्रा०लि०
362	U51109WB1995PTC71702	कौगार ट्रेडर्स प्रा०लि०
363	U28920WB1959PTC24119	क्रापट्स प्रा०लि०
364	U65921WB1996PTC79600	सीआरआई आवासन प्रा०लि०
365	U67120WB1989PTC45916	क्रोमेक्स ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
366	U19112WB1973PTC29017	क्राउन लेदर कं. प्रा०लि०
367	U52392WB1998PTC86902	साइबरलाईन सिस्टम्स प्रा०लि०

368	U72200WB1999PTC89382	साइबरटेसिट एड्युकेयर प्रा०लि०
369	U70101WB1987PTC42320	डी पी कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
370	U51109WB1948PTC16264	डी आर एजेन्सीज प्रा०लि०
371	U24231WB1979PTC31895	डी एस केमिकल्स प्रा०लि०
372	U17297WB1990PTC49933	डी एस कलर ब्लीच प्रा०लि०
373	U51505WB1990PTC49294	डी एस आर मार्केटिंग प्रा०लि०
374	U51909WB1993PTC59406	डी.पी.एक्जीम प्रा०लि०
375	U67120WB1996PTC79376	डी.आर.फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
376	U02610WB1971PTC28161	डी.एस.ग्लास कॉन्टेनर (एमएफजी) इंटरप्राइजेज प्रा०लि०
377	U74940WB1972PTC28540	डी.एस.पिक्चर्स प्रा०लि०
378	U65991WB1997PLC84791	डेली लाईफ फिनान्स इन्वेस्टमेंट कम्पनी
379	U51109WB1995PTC69253	दक्ष ट्रेडलिक प्रा०लि०
380	U91190WB1972PLC28297	दक्षिणदारी हैण्डलूम ऑवनर्स
381	U22122WB1987PTC42295	दक्षिणी बार्ता प्रा०लि०
382	U51109WB1996PTC78499	दलाल स्ट्रीट विनिमय प्रा०लि०
383	U51909WB1992PTC56401	दलालस्ट्रीट ट्रेडर्स प्रा०लि०
384	U70109WB1995PTC72820	दाम डेवलपर्स प्रा०लि०
385	U51909WB1996PTC76610	डेनेस्टी मर्केन्टाईल प्रा०लि०
386	U15201WB1959PTC24483	डॉंगैच ट्रेडर्स सिन्डीकेट प्रा०लि०
387	U21209WB1997PTC85956	डानकुनी मौल्ड्स प्रा०लि०
388	U31200WB1982PTC35010	डानट्रोनिक्स प्रा०लि०
389	U28991WBPTC42651	डानवायर प्रा०लि०
390	U25209WB1987PTC42542	दरिपा प्लास्टिक्स इण्डस्ट्री प्रा०लि०
391	U17232WB1997PTC85421	दर्पण प्लान्ट्स एण्ड फुड्स प्रा०लि०

392	U51503WB1993PTC57561	दास अटकिन्स इन्जीनियर्स प्रा०लि०
393	U05004WB1992PTC54796	दास्को फिश प्रोसेजिंग कम्पनी प्रा०लि०
394	U99999WB1951PTC19685	दास धुप प्रा०लि०
395	U29299WB1985PTC39566	दारानगर मिल इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
396	U65923WB1992PLC56967	दाता बाबा इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
397	U74210WB1977PTC30924	दत्ता (बिल्लिंग) इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
398	U28932WB1965PTC26594	डाउनस्को इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
399	U18101WB1997PTC85964	दयाल निटफैब प्रा०लि०
400	U24236WB1970PTC27887	दयनीत प्रोडक्ट्स (केमिकल्स) प्रा०लि०
401	U30007WB1997PTC83258	डीबीएम फॉर्म्स प्रा०लि०
402	U21022WB1972PTC28234	डे लिंकमैन फिल्टर प्रा०लि०
403	U22219WB1985PTC39444	देब कोटिंग्स प्रा०लि०
404	U45203WB1948PTC16655	देब दास एण्ड सन्स प्रा०लि०
405	U51109WB1946PLC13972	देव राय एण्ड कम्पनी लिमिटेड
406	U74950WB1997PTC84570	देबदिकॉन पैकेजिंग प्रा०लि०
407	U65999WB1988PLC44314	देवदूत सर्विसेस एण्ड फिनांस लिमिटेड
408	U70109WB1993PTC58615	देबसेन बिल्डर्स प्रा०लि०
409	U51909WB1982PLC34661	डीकेय इन्जिनीयर्स एण्ड डीलर्स लिमिटेड
410	U45201WB1987PTC42487	दीपालोक प्रोपर्टीज प्रा०लि०
411	U24231WB1979PTC31842	देजको (इण्डिया) प्रा०लि०
412	U72300WB1982PLC35355	डेल्कॉन सर्विरोज लिमिटेड
413	U17111WB1996PTC78194	डेलाइट टेक्सटाईल्स मिल्स प्रा०लि०
414	U74300WB1988PTC43628	डेल्टा एडवर्टीजर्स प्रा०लि०
415	U31300WB1973PTC28938	डेल्टा फास्टरर्स प्रा०लि०
416	U26101WB1994PLC61783	डेल्टा ग्लास लिमिटेड

417	U63909WB1987PTC42831	डीलक्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा०लि०
418	U28991WB1965PTC26487	डेमलार इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
419	U24231WB1979PTC31858	डेमो फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
420	U45202WB1989PTC46814	डेनोवो कॉन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०
421	U65993WB1986PLC41694	देशप्राण सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
422	U67120WB1995PTC68349	देव दर्शन सेकुरिटीज प्रा०लि०
423	U51909WB1996PTC81374	डिवाइन ट्रेडिंग प्रा०लि०
424	U22110WB1980PTC32980	देवकान्ता पब्लिशर्स प्रा०लि०
425	U67120WB1991PTC53869	देवसार फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
426	U99999WB1999PTC090185	डीजीसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
427	U17121WB1922PLC04562	ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड
428	U51109WB1995PTC70330	धान ट्रेडलिक प्रा०लि०
429	U51109WB1995PTC69496	धनमाल सेल्स प्रा०लि०
430	U51109WB1995PTC70573	धनरंजय व्यापार प्रा०लि०
431	U24119WB1971PTC28103	धनवंतरी केमिकल प्रा०लि०
432	U21015WB1971PTC28081	धरनीपुर टी इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
433	U65993WB1992PTC56946	धातुर होल्डिंग प्रा०लि०
434	U10102WB1949PLC18114	धोरी कोल कम्पनी लिमिटेड
435	U74999WB1987PTC42696	डायमेट हाई टेक इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
436	U51109WB1979PTC31838	डायमण्ड फ्रीजिंग कम्प्लेक्स प्रा०लि०
437	U74210WB1948PTC16846	डायना इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
438	U15491WB1926PLC5489	डिब्रू सादिया टी क. लिमिटेड
439	U65993WB1993PLC59092	डिगिटी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
440	U65922WB1991PLC52577	दिलसन हाउसिंग फिनान्स लिमिटेड

441	U74210WB1965PTC26714	दिनवारा इन्जीनियर्स प्रा०लि०
442	U45202WB1987PTC42493	दीप सरोवर इस्टेट प्रा०लि०
443	U24231WB1973PTC29046	दीपार प्रा०लि०
444	U67120WB1982PLC35385	दीप्लो कॉमर्शियल लिमिटेड
445	U70101WB1996PTC79649	दिल्लोक प्रोपर्टीज प्रा०लि०
446	U65999WB1982PLC34455	दिशारी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
447	U65191WB1987PTC42961	डिवाइन कॉमर्शियल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
448	U99999WB1982PLC35331	दीक्षित कॉमर्शियल लिमिटेड
449	U65999WB1992PLC54387	डीएनएस फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
450	U67190WB1995PLC75632	डॉल्फिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेज
451	U10104WB1949PLC18106	डोमिनियोन कोल कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड
452	U15332WB1989PTC46438	डोमजुर फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
453	U65923WB1992PLC55655	डोवार्स फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड
454	U74992WB1948PTC16813	डोवार्स म्युजिक हॉल प्रा०लि०
455	U63090WB1992PLC55814	डोर डीलिवरी ट्रान्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
456	U85110WB1995PTC71236	डोवर मेडिकल सेन्टर प्रा०लि०
457	U67120WB1992PLC55410	ड्रेगन फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
458	U51109WB1995PTC69884	द्रावी ज्योति कोमोडिल प्रा०लि०
459	U35122WB1978PTC31613	ड्रीम कार्स प्रा०लि०
460	U70200WB1997PTC85567	दुआ टॉवर्स प्रा०लि०
461	U10200WB1948PTC17055	दुबराजपुर कोल कंपनी प्रा०लि०
462	U67120WB1982PLC35422	डम्पी होल्डिंग्स लिमिटेड
463	U35202WB1987PTC42530	दुर्गा इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
465	U24219WB2000PTC90982	दुर्गा रिसर्च लेबोरेटरी प्रा०लि०
466	U00000WB1961PTC25293	दुर्गापुर फाउण्ड्री एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०

467	U24131WB1989PTC46828	ड्यूरोमेट फोम रबड प्रा०लि०
468	U26991WB1940PTC10171	दत्त एण्ड कं. प्रा०लि०
469	U99999WB1982PTC35415	दत्ता चौधरी (लाइम) प्रा०लि०
470	U16002WB1996PTC81035	द्वीजेन्द्र बीड़ी फैक्टरी प्रा०लि०
471	U51505WB1997PTC85902	डायनेमिक मीडिया मार्केटिंग प्रा०लि०
472	U22110WB1975PTC30140	डायनेमिक प्रिन्ट-पैक प्रा०लि०
473	U31200WB1983PTC35653	डायनेमिक सिस्टेम्स एण्ड कंट्रोल प्रा०लि०
474	U51109WB1985PTC39231	डायनेमिक्स कॉमर्शियल प्रा०लि०
475	U51909WB1977PTC30989	ई ई आई (इण्डिया) प्रा०लि०
476	U63040WB1968PTC27365	ई ट्रेवेल्स (इण्डिया) प्रा०लि०
477	U26494WB1965PTC26494	ईगल मशीनरी कं. प्रा०लि०
478	U36101WB1995PTC75302	अर्थ एण्ड स्काई इन्टरप्राइज प्रा०लि०
479	U91990WB1964PLC26188	ईस्ट इण्डिया फोटोग्राफिक ट्रेडर्स
480	U10102WB1950PLC18634	ईस्ट बोकारो कोलियरिज कं. लिमिटेड
481	U26921WB1988PTC44611	ईस्ट इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
482	U70109WB1953PTC21258	ईस्ट इण्डिया माईन्स प्रा०लि०
483	U74999WB1993PTC59272	ईस्टर इण्डिया स्टील प्रा०लि०
484	U10200WB1959PTC24333	ईस्ट जीनागोरा कोलियरी कं. प्रा०लि०
485	U70101WB1988PTC44452	ईस्टर्न अपार्टमेंट्स प्रा०लि०
486	U24231WB1988PTC44266	ईस्टर्न बायो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
487	U26999WB1986PTC40178	ईस्टर्न कॉर्क कं. प्रा०लि०
488	U27109WB1960PTC24836	ईस्टर्न कल्टारिज एण्ड टूल्स एमएफजी कं. प्रा०लि०
489	U65921WB1977PTC30852	ईस्टर्न डिजिटल प्रा०लि०
490	U24131WB1973PTC28943	ईस्टर्न इलास्टोमर्स प्रा०लि०

491	U52335WB1992PTC54930	ईस्टर्न इलेक्ट्रीकल इंटरप्राइजेज प्रा०लि०
492	U52323WB1974PTC29193	ईस्टर्न फाइबर ग्लास प्रा०लि०
493	U70103WB1967PTC27102	ईस्टर्न ग्राफाईट एण्ड मिगेरल्स प्रा०लि०
494	U74140WB1995PTC71961	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंसल्टेन्सी सर्विसेज
495	U99999WB1950PLC18936	ईस्टर्न ऑयरन एण्ड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड
496	U31103WB1949PTC42975	ईस्टर्न मेकेनिकल प्रा०लि०
497	U24241WB1970PLC27892	ईस्टर्न रमॉल स्केल सोप मेकर्स
498	U27109WB1977PTC30885	ईस्टर्न स्टील एण्ड ट्यूब एमएफजी प्रा०लि०
499	U24232WB1961PTC25227	ईस्टलैण्ड ड्रग्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
500	U85195WB1952PTC20738	ईस्टलैण्ड लेबोरेटोरिज इण्डिया प्रा०लि०
501	U28920WB1959PTC24303	इंडीसग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
502	U51909WB1996PTC78136	एकता विनकॉम प्रा०लि०
503	U33112WB1959PTC24366	इलेक्ट्रो साइंस कॉरपोरेशन प्रा०लि०
504	U31300WB1962PLC25637	इलेक्ट्रोलाइट लिमिटेड
505	U31909WB1997PTC85333	इलेक्ट्रोमेक ट्वाएज प्रा०लि०
506	U65999WB1993PLC58601	इलिजिबल क्रेडिट एण्ड फिनांशियल (इण्डिया) लिमिटेड
507	U65929WB1986PLC40473	इलिजिबल फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
508	U74140WB1996PTC81811	इल्लेगवैरी सर्विसेज प्रा०लि०
509	U65922WB1988PLC45615	इलाईसिन रुरल फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड
510	U67120WB1992PLC56623	इल्जी फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
511	U65921WB1988PTC45078	इम्कॉन मार्केटिंग एण्ड फिनांशियल सर्विसेज
512	U27109WB1988PTC44564	इमेकॉन इंक्युपमेंट्स प्रा०लि०
513	U67120WB1998PLC87494	इमिनेन्स फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड
514	U51399WB1972PTC28414	इम्पायर टाईम इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
515	U67120WB1977PLC30935	इन्डोवमेंट प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड

516	U28991WB1976PTC30429	इनेस इन्टरप्राइजेज (इन्जीनियरिंग) प्रा०लि०
517	U28991WB1962PLC25483	इंगोल इण्डिया गशीन्स एण्ड टूल्स लिमिटेड
518	U31103WB1993PLC57615	इन्लीवेन इन्टरप्राइजेज (इण्डिया) लिमिटेड
519	U74140WB1996PTC79827	इन्वीसव प्र०लि०
520	U22209WB1972PTC28516	इपीको पेटामेल प्रा०लि०
521	U99999WB1994PTC62836	इक्युगोक्स इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
522	U51109WB1995PTC67471	इक्युरा विन्कॉम प्रा०लि०
523	U74300WB1995PLC75245	इक्युस एडवर्टीजिंग कम्पनी लिमिटेड
524	U91120WB1972PTC28377	इस्कॉन कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
525	U67120WB1987PTC42237	इस्त्रेय इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
526	U70200WB1995PTC75952	इएसएस बी इन्क्लेव प्रा०लि०
527	U15449WB1984PTC37076	ईएसएसबी प्लास्टो केम प्रा०लि०
528	U27104WB1982PLC34563	ईएसएसके वर्ल्डलाइन सेकुरिटीज एण्ड सर्विसेज लिमिटेड
529	U27109WB1996PTC81460	इएसएसजी मेटल्स प्रा०लि०
530	U51109WB1996PTC76828	इस्ट्रीला कोमोडील प्रा०लि०
531	U70109WB1990PTC49989	इस्वर्या कंस्ट्रक्शन एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
532	U32109WB1972PTC28521	युरेका (इन्स्ट्रुमेंट्स) इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
533	U45209WB1998PTC86920	यूरेका निर्माण एण्ड डेवलपर प्रा०लि०
534	U25206WB1969PTC27473	यूरेका प्लास्टिक एण्ड इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
535	U29195WB1985PTC39847	एवरेस्ट ऐस्बेस्टस प्रा०लि०
536	U65999WB1993PTC58895	एवरन्यू कोम्पिनान्स प्रा०लि०
537	U99999WB1953PTC21207	एक्जेक्टा प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
538	U74999WB2005PTC100997	एससेल बोटलिंग प्रा०लि०
539	U51909WB1993PTC59047	एक्सेलेन्सी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रा०लि०

540	U19129WB1992PTC56647	एक्सक्लुसिव लेडेर फैशन प्रा०लि०
541	U6599 WB1990PTC48581	एक्सकॉन फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
542	U99999WB1996PTC81446	एक्सकॉन मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
543	U27320WB1973PTC28969	एक्सोफलक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
544	U28991WB1971PTC28044	एक्सप्लोरर इन्जीनियर्स प्रा०लि०
545	U51909WB1988PTC44773	एक्सप्रेस ट्यूब्स प्रा०लि०
546	U24222WB1953PTC20901	फकीर चन्द्र डे प्रा०लि०
547	U65921WB1995PLC71204	फारट ट्रेक कंसल्टेन्सी एण्ड फिनान्शियल
548	U65922WB1993PLC58726	फेदेबल हाउसफिन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
549	U55101WB1992PLC56351	फेदेबल लॉज लिमिटेड
550	U74999WB1952PLC20391	फेडरेशन ऑफ ऑल इण्डिया पेट्रोलियम
551	U51109WB1994PTC65450	फेराणी ट्राकॉन प्रा०लि०
552	U00000WB1946PLC13992	फिल्मिन नेशनल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
553	U70200WB1997PTC85867	फर्स्ट कलकत्ता प्रोपर्टी प्रा०लि०
554	U51909WB1995PTC75707	फाइव स्टार डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
555	U01222WB1999PTC89708	फ्लोरेन्स हैचेरिज प्रा०लि०
556	U45203WB1987PTC42297	फूट हिल कंस्ट्रक्शन कं. प्रा०लि०
557	U19129WB1978PTC31617	फूटफील (इण्डिया) प्रा०लि०
558	U15531WB1996PLC82110	फोरच्यून ब्रेवेरिज लिमिटेड
559	U45201WB1970PTC27763	फोरवार्ड प्रोपर्टीज प्रा०लि०
560	U51109WB1946PLC13801	फाउण्डेशन लैण्ड डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड
561	U74940WB1995PTC75662	फ्री क्रैम कम्युनिकेशन्स प्रा०लि०
562	U51491WB1947PLC15919	फ्री इण्डिया ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
563	U74940WB1948PTC16832	फ्रीलैण्ड टॉल्किज प्रा०लि०
564	U45201WB1961PTC25026	फ्रेण्ड्स कंस्ट्रक्शन कं. प्रा०लि०

565	U65921WB1995PLC73469	फ्रेण्ड्स हायर पर्वेज लिमिटेड
566	U34300WB1961PLC24958	फ्रीट्ज एण्ड सिंह लिमिटेड
567	U70109WB1993PTC58984	फ्रॉण्टीयर डेवलपर्स प्रा०लि०
568	U67120WB1986PLC40141	फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
569	U67120WB1983PLC36461	फ्यूचरेक्स फिनान्स एण्ड इण्डस्ट्रीयल
570	U74300WB1995PLC73481	फज्जी लोजिक एडवर्टीजिंग लिमिटेड
571	U74999WB1990PTC49896	जी बी शीट बॉक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
572	U26931WB1988PTC45079	जी सी ब्रिक्स टाइल्स एण्ड एलॉयड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
573	U55101WB1988PTC45038	जी सी मुखर्जी एण्ड ब्रदर्स प्रा०लि०
574	U99999WB1982PTC35256	जी एम ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
575	U228920B1961PTC25188	जी एन कोले एण्ड सन्स प्रा०लि०
576	U63090WB1993PTC59891	जी.डी. एक्सप्रेस प्रा०लि०
577	U99999WB1917PLC02896	जी.एफ.केलनर एण्ड कं. लिमिटेड
578	U30007WB1985PTC39388	जी.एस.इम्पोरियम प्रा०लि०
579	U45200WB1987PTC42288	गगन पुंज प्रोपर्टीज प्रा०लि०
580	U28920WB1961PTC24998	गैल्लेण्ट इण्डिया प्रा०लि०
581	U51909WB1996PTC79786	गणपति डीलर्स प्रा०लि०
582	U51109WB1996PTC78814	गणेश डीलिंग प्रा०लि०
583	U70200WB1985PTC39288	गणेश डेवलपमेंट्स प्रा०लि०
584	U24222WB1972PTC28483	गंगेज पेण्ट्स प्रा०लि०
585	U99999WB1952PTC20743	गंगेज ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रा०लि०
586	U50401WB1971PTC28073	गांगुली ट्रेडर्स प्रा०लि०
587	U67120WB1988PTC45616	गणपति फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
588	U15312WB1993PTC59663	गराई राइस मिल प्रा०लि०

589	U85110WB1978PTC31806	गरियाहाट मेडिकल सेंटर प्रा०लि०
590	U10200WB1950PLC18626	गरुडा कं. लिमिटेड
591	U92141WB1999PTC89602	गैरा म्युजिक प्रा०लि०
592	U31402WB1970PTC27708	गासनर्स ड्राई सेल (इण्डिया) प्रा०लि०
593	U31901WB1985PTC39092	गवेषा इन्जीनियरिंग कं. प्रा०लि०
594	U99999WB1954PTC21912	गेर गेय ऑटोमोबाईल्स कं. प्रा०लि०
595	U99999WB1960PTC24865	गया टेक्सटाईल प्रा०लि०
596	U24233WB1947PLC16067	गाजीपुर आयुर्वेदिक फार्मसी लिमिटेड
597	U65922WB1992PLC55735	जी वी एम फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड
598	U31901WB1997PTC85979	जी सी आई केबल्स प्रा०लि०
599	U74210WB1959PTC24352	जेबिस्को प्रा०लि०
600	U17232WB1995PTC75773	जीकेय निटिंग्स प्रा०लि०
601	U65910WB1986PTC40245	जेम लीजिंग एण्ड फिनांस लिमिटेड
602	U27203WB1999PLC88926	जेम्को कार्स्टिंग्स लिमिटेड
603	U51109WB1992PTC54678	जेमिनी सप्लायर्स प्रा०लि०
604	U29303WB1950PLC19046	जेनरल इन्जीनियरिंग इलेक्ट्रीक वर्क्स लिमिटेड
605	U33125WB1946PTC14182	जेनरल इन्स्ट्रुमेंट कं. प्रा०लि०
606	U65993WB1994PLC61931	जेनमेड हायर पर्चेज एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया)
607	U70101WB1987PTC42550	घोष कंस्ट्रक्शन कं. प्रा०लि०
608	U15491WB1959PTC24328	घोषेज प्रा०लि०
609	U25209WB1985PTC39732	मित्री विडियो विजन प्रा०लि०
610	U23209WB1986PTC40162	ग्लैडकैल्ट इण्डिया प्रा०लि०
611	U45201WB1993PTC59691	ग्लैमर कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
612	U51226WB1993PTC59018	ग्लोब फिनांशियल सर्विसेज प्रा०लि०
613	U51109WB1992PTC55559	ग्लोरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०

614	U24239WB1988PTC44073	ग्लुकोनेट इण्डिया लिमिटेड
615	U65191WB1982PLC34442	गॉडफादर फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया)
616	U65110WB1992PLC57074	गोल्डेन ऑप्परव्यूनिटी सेविंग्स एण्ड फिनान्स
617	U51909WB1994PTC065452	गोमती ट्राकॉन प्रा०लि०
618	U51109WB1995PTC70540	गुडहोप कोमोडिटीज प्रा०लि०
619	U51109WB1995PTC70539	गुडहोप कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
620	U51109WB1995PTC70578	गुडहोप मैनेजमेंट प्रा०लि०
621	U25211WB1973PTC28806	गुडरन रबड़ कं. प्रा०लि०
622	U65921WB1986PTC40179	गुडयेल्ड लीजिंग एण्ड फिनान्शियल प्रा०लि०
623	U22219WB1971PTC28059	गुपतुज पेन्सिल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
624	U65923WB1961PTC25244	गोपाल कॉमर्शियल कं. प्रा०लि०
625	U24299WB1967PTC26982	गोथिक कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
626	U27209WB1983PLC36425	गौरी इरिगेशन इक्युपमेंट्स लिमिटेड
627	U27201WB1995PTC67301	गोविन्द केबल्स प्रा०लि०
628	U51909WB2000PTC91010	गोविन्द एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
629	U51909WB1992PLC56867	ग्रेस कॉमर्शियल फिन्वेस्ट इण्डिया लिमिटेड
630	U27109WB1972PTC28581	ग्राण्ड स्मिथी वर्क्स प्रा०लि०
631	U99999WB1993PTC58554	ग्रानिटो इम्पेक्स प्रा०लि०
632	U65999WB1987PLC42582	ग्रेनरी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
633	U22121WB1974PTC29375	ग्राण्ट प्रोसेस प्रा०लि०
634	U17111WB1995PLC67830	ग्राफ्को रसीनिंग एण्ड निटिंग लिमिटेड
635	U17111WB1995PLC67812	ग्राफ्को टेक्स-स्टाईल्स लिमिटेड
636	U32109WB1987PTC43532	ग्रेहिल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
637	U72100WB1993PTC59567	ग्रेट बन्धान कम्यूटर्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स

638	U55101WB1918PLC523	ग्रेट इस्टर्न होटेल लिमिटेड
639	U65921WB1997PLC82754	ग्रीनटेक फिनांस लिमिटेड
640	U01117WB1994PLC61791	ग्रीनदेव डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च (इण्डिया)
641	U70109WB1994PLC64974	गृह लक्ष्मी होम्स एण्ड विनियोग इण्डिया लिमिटेड
642	U67120WB1992PLC57171	ग्रिण्डलेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
643	U74140WB1996PTC76926	ग्रो ऑन बिजनेस सेंटर प्रा०लि०
644	U99999WB1985PLC38453	गुहा कंसल्टेंट्स लिमिटेड
645	U51420WB1989PTC46669	गुंजन बिजनेस इण्डिया प्रा०लि०
646	U27109WB1951PTC20095	गुप्ता स्टील प्रा०लि०
647	U65992WB1972PTC28233	गुरुदेव बेनेफिट फण्ड प्रा०लि०
648	U45200WB1987PTC42491	ज्ञान दीप प्रोपर्टीज प्रा०लि०
649	U05004WB1992PTC55671	गायसास (प्राउन फार्मिंग) प्रा०लि०
650	U51109WB1951PTC19818	एच सी राय एण्ड कं. प्रा०लि०
651	U65993WB1954PTC21538	एच एम कोरिया एण्ड सन प्रा०लि०
652	U31200WB1971PTC28196	एच एम प्रोपर्टीज एण्ड फिनांस प्रा०लि०
653	U74140WB1943PTC11332	एच पी बोस एण्ड ब्रदर्स प्रा०लि०
654	U70200WB1992PTC54697	एच.डी.बदलानी कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
655	U51109WB1990PTC49291	एच.के.जूट एण्ड बर्दना प्रोडक्ट्स एण्ड
656	U51101WB1999PTC89559	एच.टी.लेदर प्रा०लि०
657	U65999WB1997PLC84715	हैबिटार फिनांस एण्ड हरियाली प्रोजेक्ट लिमिटेड
658	U92900WB1973PTC28991	हाबरा कालिका टैल्किज प्रा०लि०
659	U33125WB1987PLC41981	हानेमन लेबोरेटरी लिमिटेड
660	U63090WB1951PLC19499	हैमाओटी मोटर सर्विस लिमिटेड
661	U10101WB1989PLC45938	हल्दिया चैमो पॉली कॉट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
662	U14106WB1986PTC40585	हल्दिया स्टोन मेटल प्रा०लि०

663	U35111WB1988PLC45558	हलदोर शिपयाडर्स एण्ड ऑफ-शोर
664	U67120WB1986PLC41036	हैली फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
665	U51109WB1995PTC72753	हैम्पशायर कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
666	U63040WB1948PLC16888	हांसदा ट्रान्सपोर्ट सर्विस लिमिटेड
667	U01132WB1924PLC4846	हांसक्युआ टी कं. लिमिटेड
668	U51909WB1949PLC18160	हनुमान मेटल्स लिमिटेड
669	U65599WB1965PLC55970	हरामोनोधारा फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट
670	U26942WB1984PTC38061	हरिओम सीमेन्ट्स प्रा०लि०
671	U50300WB1942PTC10906	हरिपाल भण्डेरहाटी मोटर सर्विस प्रा०लि०
672	U01132WB1997PLC85674	हरियाली रिसोर्ट्स एण्ड प्लान्टेशन्स लिमिटेड
673	U30009WB1995PTC75477	हारले इन्वायरोफ्लो एशिया प्रा०लि०
674	U01122WB1999PLC89676	हार्मोनी हर्ब्स लिमिटेड
675	U67120WB1987PTC42891	हस्साराम्स सन्स होल्डिंग प्रा०लि०
676	U99999WB1935PLC08214	हैस्टिंग्स मिल्स लिमिटेड
677	U51109WB1996PTC76820	हाथीमल निर्मल कुमार प्रा०लि०
678	U27109WB1960PLC24794	हेवार्ड वाल्ड रिफाईनेरी लिमिटेड
679	U65922WB1991PLC52580	हेबे हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट
680	U63032WB1992PTC55813	हिलगेर शिपिंग एजेन्सीज एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
681	U65921WB1995PLC70915	हेगन लीडिंग एण्ड फिनान्स लिमिटेड
682	U51909WB1941PTC10484	हेमन्त कुमार देयासी एण्ड ब्रदर्स प्रा०लि०
683	U24234WB1998PLC88027	हेम्को होमियो मैनुफैक्चरिंग कं. लिमिटेड
684	U27320WB1973PTC28961	हेक्सा इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट प्रा०लि०
685	U31311WB1996PTC76451	हाई टेक वायर्स प्रा०लि०
686	U27310WB1987PTC41764	हिकार्ब स्टील स्ट्रीप प्रा०लि०

687	U01122WB1997PLC85234	हिफको हॉर्टिकल्चर लिमिटेड
688	U35914WB1961PTC25064	हाई कार्टर इण्डिया प्रा०लि०
689	U63090WB1990PTC49917	हाई सी कैरियर प्रा०लि०
690	U51909WB1996PTC81378	हिलटॉप मर्चेन्डाईज प्रा०लि०
691	U24233WB1995PLC69395	हिमताज हर्बल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
692	U7109 WB1946PLC13669	हिन्द पिक्चर्स लिमिटेड
693	U17299WB1960PTC24534	हिन्दुस्तान टेक्सटाईल मिल्स प्रा०लि०
694	U51909WB1954PTC21559	हिन्दुस्तान कोक एण्ड कोल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्रा०लि०
695	U51909WB1965PLC26461	हिन्दुस्तान मार्केटिंग सिन्डीकेट लिमिटेड
696	U45201WB1960PTC24763	हिन्दुस्तान रोड एण्ड बिल्डिंग प्रा०लि०
697	U51109WB1948PLC17401	हिन्दुस्तान शिपिंग कं. लिमिटेड
698	U99999WB1966PTC26926	हीरझिं मार्केटिंग प्रा०लि०
699	U21011WB1987PTC42716	हाई-टेक पेपर एण्ड बोर्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
700	U28991WB1989PTC46930	हाई-टेक साब्स एण्ड स्ट्रीप्स प्रा०लि०
701	U51109WB1916PLC2916	होल्मस विल्सन एण्ड कं. लिमिटेड
702	U67120WB1951PTC20106	होम लैण्ड शेयर डीलर्स प्रा०लि०
703	U45201WB1986PTC40047	होमेन्दिया कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
704	U74210WB1985PTC39600	हुगली डिजाइन कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
705	U34300WB1986PTC40310	होप्स ऑटो इण्डिया प्रा०लि०
706	U55101WB1995PLC71254	होटेल अरंयक लिमिटेड
707	U55101WB1992PTC57341	होटेल आयन प्रा०लि०
708	U74210WB1987PTC42678	होटेल जयलैण्ड प्रा०लि०
709	U51909WB1998PTC86922	हॉटलाईन एप्लियान्सेज प्रा०लि०
710	U01222WB1990PTC49912	हावडा एग्रिको बरॉयलर प्रा०लि०
711	U70101WB1997PTC85663	हावडा मैन्शन प्रा०लि०

712	U74210WB1972PTC28567	आई.एच.सी.इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
713	U51109WB1996PTC79178	इफोकैप सेल्स प्रा०लि०
714	U19129WB1987PTC42713	इमेज (एक्सपोर्टर्स) प्रा०लि०
715	U51109WB1993PTC59877	इमेज इन्डिस्की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रा०लि०
716	U51505WB1992PTC55329	इम्पैक्ट मार्केटिंग प्रा०लि०
717	U29130WB1965PTC26596	इन्कैनडेस्सेन्ट सेन्ट्रल कं. प्रा०लि०
718	U17294WB1951PLC19954	इन्कॉन्डेस्सेन्ट मेन्टल एमएफजी. कं. लिमिटेड
719	U30007WB1992PTC54846	इन्कोस कम्पोनेंट्स प्रा०लि०
720	U85195WB1965PLC26400	इन्देवको एजेन्सीज लिमिटेड
721	U51909WB1960PLC24748	इण्डिया यूनाईटेड केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड
722	U51109WB1922PLC4604	इण्डियन एजेन्सी प्रा०लि०
723	U25209WB1987PTC42283	इण्डियन बोटलेटॉप्स प्रा०लि०
724	U51503WB1971PTC28033	इण्डिया ड्रिलिंग एण्ड माइनिंग कं. प्रा०लि०
725	U74999WB1998PLC87119	इण्डियन फिशिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
726	U24246WB1966PLC26969	इण्डियन ह्यूमैन हेयर एण्ड हेयर प्रोडक्ट्स
727	U91990WB1957PLC23537	इण्डियन लेदर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसियेशन
728	U85110WB1987PLC42760	इण्डियन मेडिकल फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च
729	WB1920PLC4025	इण्डियन मोटर कं. (हजारीबाग) लिमिटेड
730	U28991WB1961PTC25106	इण्डियन मौल्डींग एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
731	U45203WB1946PLC13179	इण्डियन नेशनल इन्जीनियरिंग
732	U51226WB1968PLC27263	इण्डियन प्लान्टर्स बेनेवोलेंट सोसाईटी
733	U17116WB1970PTC27803	इण्डो स्वीस कॉटेज क्राफ्ट प्रा०लि०
734	U51109WB1993PTC60840	इन्द्रमणि मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
735	U92111WB1947PTC15725	इन्द्रपुरी साइन लेबोरेटोरिज प्रा०लि०

736	U17118WB1981PTC33857	इन्द्रवति रपीनिंग प्रा०लि०
737	U74210WB1960PTC24895	इण्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रीकल इन्टरलेशन्स प्रा०लि०
738	U27109WB1961PTC25247	इण्डस्ट्रीयल सेल्स कॉरपोरेशन प्रा०लि०
739	U51103WB1977PTC30967	इण्डस्ट्रीबेडार्फ (इण्डिया) प्रा०लि०
740	U51909WB1959PTC24380	इण्डस्ट्रीज एरगोसियेशन प्रा०लि०
741	U74140WB1998PTC87376	इन्फो होरिजॉन प्रा०लि०
742	U30007WB1987PTC42765	इन्फोग्राफिक्स प्रा०लि०
743	U51909WB1995PTC69305	इन्गित मर्चेंट्स प्रा०लि०
744	U25199WB1972PTC28519	इण्लैण्ड रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
745	U64202WB1995PLC69897	आईएनएम सर्विसेज लिमिटेड
746	U51909WB1965PTC58636	इन्ट्रोवेटिव सिस्टेंक्स प्रा०लि०
747	U66010WB1945PLC12841	इन्सुरेंस अन्डरराइटर्स एसोसियेशन ऑफ़
748	U74994WB1993PTC57795	आईएनटी डेकोर प्रा०लि०
749	U31200WB1992PTC55968	इन्टेक मेटल एण्ड इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग
750	U51103WB1975PTC30283	इन्टेगरेटेड कमोनेन्ट्स प्रा०लि०
751	U80903WB1993PLC57776	इन्टरनेशनल डेवलपमेंट इन
752	U55101WB1999PLC89277	इपान होटेल एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड
753	U75123WB1995PTC75068	इरिस सर्जिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रा०लि०
754	U65910WB1988PLC44252	इस्लामिक फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
755	U67120WB1983PLC35633	जे एस कंसल्टेंट्स एण्ड ट्रेडर्स लिमिटेड
756	U63040WB1948PLC16197	जे सरकार ब्रदर्स ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड
757	U01132WB1961PTC24952	जे.सी.घोष एण्ड सन्स प्रा०लि०
758	U27109091961PTC25114	जे.एल.मशीन्स प्रा०लि०
759	U70101WB1985PTC39233	जे.आर.करट्रक्शन कं. प्रा०लि०
760	U99999WB1982PLC35333	जे.आर.एस. (इण्डिया) लिमिटेड

761	U60231WB1950PLC18845	जगधात्री मोटर ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड
762	U27102WB1951PTC19755	जय भारत ऑयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्रा०लि०
763	U51109WB1996PTC78738	जय प्रोकॉन प्रा०लि०
764	U65999WB1993PTC57821	जयआजाद सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
765	U51909WB1995PTC71042	जयचंद मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
766	U14101WB1990PTC49959	जयहिंद मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्रा०लि०
767	U15421WB1961PTC24947	जैन फिनान्स डिस्ट्रीब्यूटर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
768	U17112WB1987PTC42962	जैन हैण्डलूम इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
769	U51109WB1960PTC24575	जैन पटनी ट्रेडिंग कं. प्रा०लि०
770	U232201B1986PTC40019	जैन पेट्रो-केमिकल्स प्रा०लि०
771	U15492WB1955PLC22558	जायसवाल इण्डस्ट्रीज एण्ड कंटेनरी एमएफजी कं. (इण्डिया)
772	U29244WB1949PLC18185	जलपाइगुडी ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
773	U70109WB1955PTC22600	जमनादास एण्ड सन्स प्रा०लि०
774	U24298WB1965PTC26420	जमनादास श्रीनिवास एण्ड सन्स (साल्ट) प्रा०लि०
775	U53033WB1999PLC89509	जमशेदपुर एवियेशन लिमिटेड
776	NO CIN NO	जमशेदपुर मेटल ट्रीट प्रा०लि०
777	U65993WB1980PTC32691	जमुना कॉमर्शियल फिनान्स प्रा०लि०
778	U65999WB1993PLC60705	जनक हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड सेन्ट्रलाइज्ड
779	U67120WB1982PTC35049	जननी फिनान्सी एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
780	U01111WB1988PTC44461	जनप्रिया फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
781	U16009WB1992PTC55932	जवान बीड़ी प्रा०लि०
782	U26941WB1977PLC31153	जय सीमेन्ट लिमिटेड
783	U63090WB1996PTC81489	जय माताजी ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
784	U63031WB1995PTC71862	जय पी रोडलाइन्स प्रा०लि०

785	U67120WB1987PTC42337	जयन्त कुमार एसोसियेट्स प्रा०लि०
786	U67120WB1987PLC42999	जयन्ती सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
787	U65993WB1992PLC56745	जयेता फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
788	U65922WB1992PLC54430	जयी फिनान्स एण्ड हायर पर्चेज (इण्डिया) लिमिटेड
789	U65921WB1987PTC42318	जयराम हंस राज फिनान्स प्रा०लि०
790	U65929WB1994PLC61920	जडार्स फिनान्स एण्ड कंस्ट्रक्शन (इण्डिया)
791	U31102WB1987PTC42699	जेर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
792	U70109WB1993PTC59710	जियार्जी बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
793	U65923WB1990PTC49293	जीवनरत्न सेविंग्स एण्ड फिनान्स कम्पनी
794	U65993WB1992PLC54325	जीवन-जागरणी सेविंग्स हाउसिंग एण्ड फिनान्स
795	U25199WB2000PTC91034	जेकेजी कम्पोजिट्स प्रा०लि०
796	U15549WB1999PTC89596	जेकेजी फुड एण्ड बेवरेजेज प्रा०लि०
797	U51909WB1995PTC71849	जेकेएम बिल्डर्स प्रा०लि०
798	U70101WB1986PTC40391	जोधनी कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
799	U99999WB1934PLC08093	जोरहट इलेक्ट्री सप्लाय लिमिटेड
800	U63090WB1996PTC76447	जय शंकर ऑटोमोबाइल्स प्रा०लि०
801	U45202WB1972PTC28208	जोया बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्टर्स प्रा०लि०
802	U65921WB1995PTC75811	जेएसडी फिनवेस्ट प्रा०लि०
803	U51109WB1995PTC72665	ज्युपेक्स कोमोडिल प्रा०लि०
804	U65993WB1992PLC54656	जुवेनिल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
805	U65993WB1990PTC49636	जुवेनिल सेविंग्स प्रा०लि०
806	U65993WB1983PLC35725	ज्वलंत सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
807	U17299WB1959PTC24338	ज्योति वेविंग फैक्टरी प्रा०लि०
808	U74210WB1963PTC25883	ज्योतिमय टेक्निकल एडवाइजर्स प्रा०लि०
809	U51109WB1961PTC25008	के धारियाल एण्ड कं. प्रा०लि०

810	U25199WB1976PTC30762	के मेहता एण्ड ब्रदर्स प्रा०लि०
811	U14106WB1997PTC85987	के एन स्टोनवर्क्स प्रा०लि०
812	U64191WB1996PTC81499	के.सी.एस.कुरियर सर्विस प्रा०लि०
813	U99999WB1971PTC28165	के.एल.दत्ता (हेण्ड ग्लोव्स) कं. प्रा०लि०
814	U45207WB1964PTC26087	के.पी.बिल्डर्स एण्ड कंस्ट्रक्टर्स प्रा०लि०
815	U74210WB1985PTC39394	के.पी.कंस्ट्रक्शन (इण्डिया) प्रा०लि०
816	U99999WB1993PTC58594	कबीर इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
817	U71374WB1995PTC71374	कदमबाड़ी फण्ड्स प्रा०लि०
818	U51491WB1992PTC55498	कैलाश ट्रेड एण्ड कॉमर्स प्रा०लि०
819	U51909WB1995PTC69309	काकुल मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
820	U26941WB1977PTC30930	कालिमातारकनाथ प्रा०लि०
821	U15491WB1918PLC522	कालिनुगेर एण्ड खोइल टी कं. लिमिटेड
822	U25191WB1973PTC28865	कल्पना रबड़ इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
823	U15419WB1997PTC85999	कल्याणेश्वरी बेकर्स प्रा०लि०
824	U70101WB1997PTC85965	कल्याणी प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
825	U23109WB1983PLC35962	कामख्या वाणिज्य विकास लिमिटेड
826	U22219WB1961PTC25152	कमला आर्ट प्रिन्टिंग प्रा०लि०
827	U85110WB1992PTC55767	कमलालय हॉस्पिटल प्रा०लि०
828	U01132WB1982PTC35550	कनक धारा एलॉयज प्रा०लि०
829	U27101WB1972PLC28520	कंगसाबती स्टील प्लान्ट लिमिटेड
830	NO CIN NO	कंथाल इण्डिया लिमिटेड
831	U13100WB1972PTC28213	कान्ति प्रसाद माइनिंग प्रा०लि०
832	U51909WB1996PTC76637	कंवत फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
833	U15491WB1996PLC82053	कपिला प्लान्टेशन लिमिटेड

834	U19111WB1977PTC30917	काप्राप्रियम प्रा०लि०
835	U10101WB1921PLC4292	करनपुरा कोलियरिज लिमिटेड
836	U51109WB1994PLC61569	कारिगर एक्सपोर्टर्स लिमिटेड
837	U45201WB1997PTC85730	कर्मकार डेवलपर्स प्रा०लि०
838	U51109WB1993PTC59655	कारनिन्द्रा ट्रेडिंग प्रा०लि०
839	U99999WB1982PTC35325	कथयानी विकास प्रा०लि०
840	U25209WB1971PTC28083	केय केय डी इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट इंटरप्राइजेज प्रा०लि०
841	U70109WB1987PTC42852	काथम बिल्डर्स प्रा०लि०
842	U51909WB1987PTC42850	कायम एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
843	U51909WB1973PTC28934	केगपीयर ट्रेडिंग कं. प्रा०लि०
844	U01406WB1965PTC26502	केबेमेर इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
845	U65999WB1993PTC58639	केडिको फिनांस प्रा०लि०
846	U67120WB1992PTC54433	केलन्का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
847	U51909WB1996PTC76781	केमरॉक कॉमर्शियल प्रा०लि०
848	U99999WB1969PTC27605	केटेल्ला टी कं. प्रा०लि०
849	U51392WB1992PTC55886	केवल ट्रेड एण्ड मर्केन्टाईल प्रा०लि०
850	U92111WB1958PTC24063	खान एण्ड सन्स प्रा०लि०
851	U28991WB1965PTC26359	खरदह इन्जीनियरिंग कं. प्रा०लि०
852	U10200WB1952PTC20354	खास बसरा कोल कंसर्न प्रा०लि०
853	U10101WB1921PLC4369	खास काजोरा कोल कं. लिमिटेड
854	U70109WB1965PTC26698	खास सिजुआ कोल कं. प्रा०लि०
855	U99999WB1999PLC89742	खेभका वनस्पति एण्ड ऑयल्स मिल लिमिटेड
856	U25200WB1992PTC55230	खेरिया प्लारट प्रा०लि०
857	U51909WB1995PTC72356	किडवेल्ली मर्केन्टाईल प्रा०लि०
858	U67120WB1993PLC59550	किनारा फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी

859	U27109WB1982PTC35395	के के कार्टिंग प्रा० लि०
860	U74140WB1996PTC79851	केएलबी कंसलटेंट्स प्रा० लि०
861	U51109WB1993PTC59861	कलिनशन एजेंसी प्रा० लि०
862	U51109WB1995PTC72698	कोनार्क तारासेल्स एण्ड फिनान्स प्रा० लि०
863	U29191WB1988PTC43978	कूल केव कम्पनी प्रा० लि०
864	U29130WB1989PTC46605	कोठारी ब्रिंग्स प्रा० लि०
865	U99999WB2000PTC91133	कृष्णा प्रेकास्ट प्रा० लि०
866	U16001WB1987PTC42587	कृष्णा सिगरेट्स लिमिटेड
867	U65993WB1994PLC61700	कृत्तिका फिन्को एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
868	U10222WB1995PLC70049	कृत्तिका कृषि फार्मर्स लिमिटेड
869	U14299WB1961PTC24942	कुजू कोलरिज प्रा० लि०
870	U10102WB1949PLC18116	कुजू जारंगडीह कोल कम्पनी लिमिटेड
871	U70109WB1987PTC42851	कुमार मोहन कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
872	U51009WB1947PLC15637	कुन्दन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
873	U51909WB1962PTC25458	कुन्दूभाई कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०
874	U28997WB1973PTC28944	क्वालिफन प्रा० लि०
875	U01541WB1987PTC42597	क्वालिफि कन्फेक्शनर्स प्रा० लि०
876	U45201WB1986PTC41652	एल.टी. इस्टेट्स प्रा० लि०
877	U24231WB1995PLC73959	एलए पेन-जी कामा (इण्डिया) लिमिटेड
878	U85195WB1949PLC18054	लेब्रोटीरी डाईग्नोसिस लिमिटेड
879	U27109WB1948PLC17328	लाहा गायुली एण्ड कम्पनी लिमिटेड
880	U28991WB1961PTC25088	लहेरी मेटल मेन्युफैक्चरिंग प्रा० लि०

881	U67120WB1992PTC57160	लाकेदा होल्डिंग प्रा० लि०
882	U55101WB1996PTC79549	लकेस जंगलस एण्ड क्रीक्स रेसोर्ट्स प्रा० लि०
883	U15422WB1982PTC35600	लालबाघ सुगर मिल्स प्रा० लि०
884	U51909WB1993PTC59546	ललिता कोमोडीटिज प्रा० लि०
885	U65993WB1993PTC57727	लमनी फिनान्स प्रा० लि०
886	U70109WB1987PTC42711	लैण्डकोन एण्ड एसोसिएट्स प्रा० लि०
887	U17121WB1992PTC55945	लटेक्स फेब्रिक प्रा० लि०
888	U18101WB1995PTC72922	लाविनो फैशनस प्रा० लि०
889	U65910WB1984PLC37498	लेज कम्पनी (इण्डिया) प्रा० लि०
890	U24231WB1995PTC71096	लेबेन फार्मासियुटिकल्स प्रा० लि०
891	U31909WB1992PLC56467	लेवल स्टेट सिस्टमस इण्डिया लिमिटेड
892	U65999WB1992PLC56847	लाइफ इन्ट्रेस्ट सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया)
893	U32109WB1989PTC46349	लायन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०
894	U65110WB1992PLC54302	लोकदीप फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
895	U67120WB1995PLC72155	लोककलायन फिनान्स लिमिटेड
896	U15312WB1992PTC56698	लॉग लाइन इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
897	U70109WB1987PTC42285	लकी लैण्ड एण्ड हाउसिंग डेवलपमेंट कम्पनी
898	U51109WB1995PTC70024	लाकीप्राइम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०
899	U29120WB1987PTC42339	लक्ष्मी वालवेस एण्ड इक्यूपमेंट्स प्रा० लि०
900	U74210WB1989PTC46641	एम अदित्या एण्ड एसोसिएट्स प्रा० लि०
901	U70101WB1999PTC89712	एम सी एल प्रोपर्टीज प्रा० लि०
902	U15549WB1971PTC28112	एम.ए. फारमेशन इंजीनियर्स प्रा० लि०

903	U51909WB1996PTC76544	एम.बी. टेक्नॉ सर्विसेज प्रा० लि०
904	U16003WB1985PLC39761	एम.पी. टॉबाको लिमिटेड
905	U51909WB1999PTC88580	एम. आर. सिन्दिकेट प्रा० लि०
906	U18101WB1987PTC42951	एम.एस. ग्लास वर्क्स प्रा० लि०
907	U32342WB1973PTC28894	एम.एस. वादा एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
908	U70101WB1999PTC89357	एमएए शितला कन्सल्टेशन प्रा० लि०
909	U45201WB2000PTC92361	एमएए विन्ध्याचल डेवलपर्स प्रा० लि०
910	U65929WB1988PLC44580	माबेल इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
911	U50200WB1989PTC46122	माचेले इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा० लि०
912	U29219WB1977PTC30977	माघिनां फिबरिक (हावडा) प्रा० लि०
913	U27310WB1996PTC81160	मककैल कोप्प ऑटो इक्विपमेंट्स प्रा० लि०
914	U15143WB1959PLC24382	मध्य प्रदेश राइस ब्रेन आयल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
915	U74140WB1992PTC56445	माध्यम कंसलटेंट्स प्रा० लि०
916	U99999WB1983PLC35900	मडिशन मार्केटलाइ लिमिटेड
917	U17299WB1994PLC65908	माफकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
918	U65929WB1992PLC55550	मगधाचल सचय एण्ड विनियोग लिमिटेड
919	U51109WB1993PTC60892	मैजिक कॉमोडीटिज प्रा० लि०
920	U34300WB1964PTC26031	महाबीर आर्टो पार्ट्स प्रा० लि०
921	U26101WB1993PTC57674	महाबीर ग्लास वर्क्स प्रा० लि०
922	U51229WB1997PTC85991	महाकाली ट्रेडिंग प्रा० लि०
923	U45201WB1992PTC55295	महामाया एपाटमेंट ऑगर्स
924	U65992WB1973PTC28669	महाराष्ट्र सेविंग्स एण्ड फिनान्स कम्पनी प्राइवेट

925	00000 WB1949PLC18190	महात्मा एण्ड कम्पनी 1949 लिमिटेड
926	U51909WB1977PTC30915	महावीर एजेंसि प्रा० लि०
927	U15314WB1993PTC59874	महेन्द्र एगो प्रा० लि०
928	U27310WB1989PTC47146	महेन्द्र स्टीलस एण्ड क्रेडिटर्स प्रा० लि०
929	U65993WB1986PLC40017	महिशादल रोविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट
930	U51109WB1986PTC40802	मैत्रेय रिसोर्स प्रा० लि०
931	U15312WB1996PTC81495	मैती फुड्स ऑर्गनाइजेशन एण्ड कम्पनी
932	U15549WB1988PLC45796	मकेसवेल्ल फुड लिमिटेड
933	U15312WB1948PTC16972	मालदा एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन प्रा० लि०
934	U01122WB1994PTC63184	मालदा प्लानटेशन प्रा० लि०
935	U51109WB1995PTC70300	मालीनि टेक्सट्राइड प्रा० लि०
936	U24121WB1988PTC44448	ममता केमिकल्स प्रा० लि०
937	U15312WB1999PTC89679	मानादा राइस मील प्रा० लि०
938	U74140WB1969PTC27490	मानकॉन (मैनजमेंट कन्सल्टेंट्स) प्राइवेट
939	U51909WB1997PTC83560	मंगलम मारकेटिंग प्रा० लि०
940	U51109WB1996PTC76577	मंगोली कॉमोर्ट्रेड प्रा० लि०
941	U99999WB1983PLC35911	मनहात्तन मर्कण्टाइल लिमिटेड
942	U32109WB1987PLC42039	मनोहरी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
943	U51109WB1994PLC66423	मनीफोन्ड एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन (इण्डिया) लिमिटेड
944	U65922WB1989PTC46784	मनिहर रोविंग्स एण्ड क्रेडिट कम्पनी प्राइवेट
945	U51109WB1995PLC70510	मनिरुपायन रायलायर्स लिमिटेड
946	U51109WB1996PTC76541	मनोज कोमर्शियल सर्विसेज प्रा० लि०

947	U15491WB1985PLC38702	मनोरमा इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
948	U51109WB1992PTC54983	मानसरोवर कोल एण्ड इम्पेक्स प्रा० लि०
949	U70101WB1986PTC40359	मानसता वेन्ट्रेस एण्ड होल्डिंग्स प्रा० लि०
950	U51909WB1995PTC71429	मनसुल मर्चण्टलाइज प्रा० लि०
951	U32201WB1960PTC24845	मैन्थुफेक्चरिंग इन्टरप्राइज प्रा० लि०
952	U67120WB1995PLC72403	मानवी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
953	U65993WB1992PLC57004	मार्गदर्शनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एण्ड
954	U99999WB1990PTC50132	मैरिगोल्ड फिन्को प्रा० लि०
955	U17297WB1985PTC39740	मैरिगोल्ड इम्पेक्स प्रा० लि०
956	U67200WB1956PLC22802	मैरिन एण्ड जेनरल इन्धोरेंस कम्पनी लिमिटेड
957	U74300WB1982PTC34543	मार्क पब्लिसिटी प्रा० लि०
958	U27109WB1995PTC71255	मारुति टियूबा प्रा० लि०
959	U65922WB1990PTC50235	मारवेल्स हाउसिंग एण्ड फिनान्स प्रा० लि०
960	U29293WB1966PTC26912	मसिनेनबाऊ (पेपर) प्रा० लि०
961	U15199WB1974PTC29390	मार्कोट रबड़ कम्पोजिट प्रा० लि०
962	U23301WB1989PTC46323	मास्टर रोपस प्रा० लि०
963	U22190WB1996PTC76808	मतामत प्रिन्टिंग एण्ड पब्लिकेशन प्रा० लि०
964	U24117WB1987PLC42611	मतागिनी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया)
965	U17232WB1989PTC46622	माटिगृह टियन फैक्टरी प्रा० लि०
966	U51109WB1996PTC79919	मोटर ट्रेडिंग प्रा० लि०
967	U27320WB1968PTC27378	मौसुमी एमएफजी प्रा० लि०
968	U45203WB1987PTC42267	मेक्सी-क्रोप्स प्रा० लि०

969	U27209WB1978PTC31604	मेक्सिलद प्रा० लि०
970	U01409WB1998PLC86660	मैक्सप्रो ग्रीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
971	U74140WB1988PTC44394	मजुमदार कंसलटेंट्स सर्विसेज प्रा० लि०
972	U74140WB1976PTC30405	मीट एण्ड बटर कंसलटेंट्स (इण्डिया)
973	U74140WB1960PTC24901	मेक्निकल स्पेशलिटीज प्रा० लि०
974	U99999WB1997PTC85165	मेकम इक्यूपमेंट्स प्रा० लि०
975	U74140WB1976PTC30836	मेकॉम (कलकत्ता) प्रा० लि०
976	U51397WB1990PTC49124	मेदी ड्रिप्स मार्केटिंग एसोसिएट्स प्रा० लि०
977	U32109WB1987PTC42593	मेडिकॉम प्रा० लि०
978	U65993WB1992PLC55905	मेडिनि क्रेडिट एण्ड इन्वेस्ट कम्पनी लिमिटेड
979	U72200WB1992PTC55367	मेगा थर्म माइक्रो सिस्टमस प्रा० लि०
980	U63090WB1959PTC24379	मेघदूत ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा० लि०
981	U51909WB2000PTC91129	मेघना इंडिकाफ्ट प्रा० लि०
982	U17111WB1996PTC79172	मेघना टेक्सटाइल्स प्रा० लि०
983	U28920WB1959PTC24378	मेहता सन्स प्रा० लि०
984	U51109WB1995PTC72633	मेलकॉन मर्चण्ट्स प्रा० लि०
985	U27104WB1985PLC39214	मेटामिन्स इण्डिया लिमिटेड
986	U27202WB1988PTC45002	मेटफलो केमिकल्स प्रा० लि०
987	U29248WB1976PTC30710	मेथोडेक्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०
988	U45201WB1965PTC26557	मेट्रोप्लोटिन एपार्टमेंट्स प्रा० लि०
989	U70101WB1968PTC27419	मेवर भिन्स प्रा० लि०
990	U29199WB1997PTC85212	एमजीएस इंजीनियरिंग्स प्रा० लि०

991	U99999WB1993PTC58736	माइक्रो कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
992	U10101WB1950PLC18999	मिडलैण्ड कोल कम्पनी लिमिटेड
993	U27109WB1974PTC29293	मेदिनापुर इंजीनियरिंग उद्योग प्रा० लि०
994	U63090WB1960PTC24536	मिलाप ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा० लि०
995	U27101WB1972PLC28268	मिगिरल ऑरिएन्टल लिमिटेड
996	U67120WB1962PTC25492	माइनरेवा डेल्स प्रा० लि०
997	U65993WB1985PLC38387	माइनरेवा फिनान्स (इण्डिया) लिमिटेड
998	U65909WB1995PTC75965	मिगा टाईअप प्रा० लि०
999	U65921WB1989PLC45875	मिनी क्रेडिट एण्ड हायर पचेज लिमिटेड
1,000	U40109WB1951PTC19766	मिनिंग एण्ड इलेक्ट्रिक कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०
1,001	U51909WB1995PLC70440	माइनोंलता कॉमर्शियल लिमिटेड
1,002	U51909WB1964PTC26021	मिश्रा इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,003	U26920WB1970PTC27875	मिताली म्यूलिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1,004	U45201WB1964PTC26057	मिटसेन कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
1,005	U27209WB1958PTC24047	मिशन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,006	U70109WB1987PTC42501	एमएम हउसिंग डेवलपमेंट्स प्रा० लि०
1,007	U70109WB1988PTC44538	मोडल डेवलपर्स प्रा० लि०
1,008	U70101WB1988PTC44543	मोडल इस्टेट्स प्रा० लि०
1,009	U74140WB1972PTC28453	मोडर्न ग्रैन प्रोसिसिंग कंसलटेंट्स प्रा० लि०
1,010	U01116WB1959PTC24331	मोडर्न रबर मैन्यूफैक्चरिंग्स प्रा० लि०
1,011	U70109WB1948PTC16643	मोडर्न टेक्निसियन्स प्रा० लि०
1,012	U17232WB1955PLC22165	मोदी कम्पनी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

1,013	U70101WB1989PTC46895	मोडुलर कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट
1,014	U51909WB1982PLC35320	मोदथ रिसोर्स लिमिटेड
1,015	U99999WB1979PTC32038	मोहनस फेब्रिकेटर्स प्रा० लि०
1,016	U26932WB1999PTC89250	महिन्द्रा प्लीमर्स प्रा० लि०
1,017	U45201WB1987PTC42482	मोनिका कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०
1,018	U01111WB1999PTC89350	मोनिमाया एग्रो प्रा० लि०
1,019	U65922WB1993PLC60618	मनमोहिनी हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट
1,020	U01111WB1994PTC64255	मोरगन मैनेजमेंट प्रा० लि०
1,021	U34103WB1992PTC56718	मोरवी मोटर्स प्रा० लि०
1,022	U99999WB1982PLC35430	मोयूलिंग कॉमर्शियल लिमिटेड
1,023	U23109WB1966PTC26819	मुखर्जी ज्योति जर्नाल कोल कम्पनी प्रा० लि०
1,024	U70109WB1961PTC24979	मुरारि लैण्ड प्रोजेक्ट्स एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
1,025	U24248WB1960PTC24714	मुतुअल कॉमर्शियल क्रोफ़ प्रा० लि०
1,026	U74140WB1985PLC38549	मुतुअल डेवलपमेंट (इण्डिया) कॉरपोरेशन
1,027	U67120WB1997PTC85962	एमवीके सिन्थुरिटिज प्रा० लि०
1,028	U65999WB1992PTC55107	एनए फिन्वेस्ट प्रा० लि०
1,029	U65993WB1993PLC57517	नबदुता विनियोग लिमिटेड
1,030	U99999WB1935PLC08329	नदिया एग्रीकल्चरल एण्ड इंडस्ट्रीयल क्रोफ़
1,031	U74300WB1996PTC76576	नागरिक पब्लिकेशन प्रा० लि०
1,032	U65999WB1992PTC55204	नाहटा ट्रेकिंग एण्ड होल्डिंग्स प्रा० लि०
1,033	U41000WB1995PTC76242	नानकॉ प्रा० लि०
1,034	U51909WB1994PTC62733	नन्दलाल मर्चण्ट्स प्रा० लि०

1,035	U74210WB1972PTC28342	नारा चक्रवर्ती प्रा० लि०
1,036	U63022WB1997PTC85235	नर्मदा कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०
1,037	U51109WB1959PTC24398	नर्सिंग साव प्रा० लि०
1,038	U26101WB1971PTC28029	नाथ क्रेमिक्स एण्ड स्टील्स प्रा० लि०
1,039	U31300WB1941PLC10461	नेशनल केबल वर्क्स लिमिटेड
1,040	U24231WB1935PLC8216	नेशनल केमिकल्स एण्ड साल्ट वर्क्स (इण्डिया)
1,041	U67120WB1946PLC13758	नेशनल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
1,042	U27103WB1934PLC8101	नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड
1,043	U65999WB1994PLC61785	एनएवी दुर्गा रोविंग्स एण्ड विनियोग लिमिटेड
1,044	U45201WB1992PTC56004	एनएवी निवास कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
1,045	U51219WB1994PTC65479	नवज्योति डेवलपमेंट प्रा० लि०
1,046	U27310WB1965PTC26560	नवारून इंजीनियरिंग इन्टरप्राजेज प्रा० लि०
1,047	U26101WB1946PLC13243	नवयुग प्रोपर्टीज एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1,048	U51109WB1995PTC70378	नवदीपका मार्केटिंग प्रा० लि०
1,049	U51909WB1992PTC55025	नवीकेटिव ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,050	U51109WB1996PTC78632	नवीलेन सप्लायर्स प्रा० लि०
1,051	U51909WB1993PTC57767	नवरंग सिन्टेक्स एण्ड निनिमय प्रा० लि०
1,052	U32109WB1997PTC85898	नवरत्न कम्प्यूटर्स प्रा० लि०
1,053	U70101WB1987PTC42955	नवरत्न कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
1,054	U45201WB1974PTC29278	नवयुग बिल्डर्स एण्ड टेडर्स प्रा० लि०
1,055	U65922WB1992PLC54551	नयना हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट
1,056	U51909WB1992PTC55837	नयीमिल्ल मर्चण्टलाइज प्रा० लि०

1,057	U65921WB1987PTC42450	एनबीस बिल्डर्स प्रा० लि०
1,058	U67120WB1994PLC61593	नीरनीज फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड
1,059	U24231WB1987PTC42789	नेकतारा लेब्रोटरिज प्रा० लि०
1,060	U24121WB1972PTC28452	एनइओ केमिकल्स एण्ड मेटल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,061	U70101WB1995PTC71738	नेस्कान्त एक्सपोर्टर्स प्रा० लि०
1,062	U27109WB1940PTC10098	नेताई लाल डे एण्ड ब्रोस प्रा० लि०
1,063	U67190WB1990PTC50118	नेटवर्थ फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
1,064	U27101WB1973PTC28958	न्यू एशिया रॉल्लिंग मिल्स प्रा० लि०
1,065	U99999WB1968PTC27376	न्यू असाम कोल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,066	U14219WB1955PTC22095	न्यू बुररा घेमाँ कोलरी कम्पनी प्रा० लि०
1,067	U99999WB1926PLC05457	न्यू दुर्गाबारी टी कम्पनी लिमिटेड
1,068	U51909WB1948PTC17086	न्यू इस्टन ट्रेडर्स (स्ट्रिट) प्रा० लि०
1,069	U05001WB1979PTC32002	न्यू इण्डिया फिश-हूक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी
1,070	U27109WB1973PTC28933	न्यू इण्डिया फाउन्ड्री लिमिटेड
1,071	U99999WB1918PLC002965	न्यू जुनागर कोल कम्पनी लिमिटेड
1,072	U65999WB1988PLC45379	न्यू लाइफ हाउसिंग डेवलमेंट फिनान्स
1,073	U70109WB1993PTC58740	न्यू ऐज होल्डिंग्स प्रा० लि०
1,074	U55101WB1993PTC58597	निबेडिट केयर होमस प्रा० लि०
1,075	U35921WB1987PTC42595	निगम एण्ड निगम प्रा० लि०
1,076	U51909WB1993PTC58610	निघटिंगल एक्सपोर्टर्स प्रा० लि०
1,077	U70109WB1995PTC71634	निलसागर प्रोपर्टीज प्रा० लि०
1,078	U15214WB1997PLC85793	निम्बल ग्रेनरी एंड प्रोटीन लिमिटेड

1,079	U65999WB1993PLC59717	निरापत्ता सेविग्स एण्ड क्रेडिट कम्पनी इण्डिया
1,080	U51109WB1993PTC60717	एनसेटी ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,081	U51103WB1959PLC24222	नॉखाली मशिन टूल्स लिमिटेड
1,082	U51102WB1987PTC42725	नोबल इम्पेक्स प्रा० लि०
1,083	U31501WB1993PTC58922	नोबल लैम्पस प्रा० लि०
1,084	U51109WB1996PTC78542	नॉमेक्स ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,085	U80903WB1998PTC86915	नॉर्थ बंगाल होटल डेवलपमेंट प्रा० लि०
1,086	U63023WB1943PTC11232	नॉर्थ बंगाल प्लान्टर्स प्रा० लि०
1,087	U65923WB1988PLC45834	नॉर्थ स्टार सेविग्स एण्ड फिनान्स कम्पनी
1,088	U25199WB1974PTC29166	नॉर्थ हैण्ड आईस फैक्टरी एण्ड स्टोरेज प्रा० लि०
1,089	U65999WB1992PTC55575	एनआरआई होल्डिंग्स प्रा० लि०
1,090	U51109WB1992PTC55574	एनआरआई ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,091	U05005WB1996PLC81837	एनयू फिश फार्मिंग कम्पनी लिमिटेड
1,092	U74999WB1951PTC19784	ओ.एन. मुखर्ती एण्ड सन्स प्रा० लि०
1,093	U51909WB1960PLC24740	ओसेनिक कॉमर्शियल ऑगनाजेशन लिमिटेड
1,094	U65993WB1994PLC61747	ओडलाबारी हाउसिंग एण्ड क्रेडिट कम्पनी
1,095	U02001WB1998PLC86624	ऑलिविआ एग्रोटैक लिमिटेड
1,096	U24117WB1993PTC57538	ऑमेगा केमिकल्स प्रा० लि०
1,097	U51109WB1996PTC78347	ओमेक्स ट्रेडलैक्स प्रा० लि०
1,098	U45201WB1971PTC28026	ओमकार इंजीनियरिंग सिन्डिकेट प्रा० लि०
1,099	U65999WB1996PTC79294	ओमनिम फिन्कॉन प्रा० लि०
1,100	U17299WB1995PLC71205	अप्सा अप्पारेल्स इण्डिया लिमिटेड

1,101	U72900WB1997PTC85946	ऑप्टिमा इरनफोच प्रा० लि०
1,102	U51909WB1996PTC79805	अरकॉन मार्केटिंग प्रा० लि०
1,103	U26105WB1960PTC24567	ओरिएन्ट ग्लास वर्क्स प्रा० लि०
1,104	U70101WB1961PTC25200	ओरिएन्ट उद्योग प्रा० लि०
1,105	U51226WB1983PLC36505	ओरिएन्टल (इण्डिया) लिमिटेड
1,106	U92114WB1995PLC71172	ओरिएन्टल टेलीटल्स इण्डिया लिमिटेड
1,107	U01131WB1993PLC60687	उड़ीसा फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1,108	U27310WB1991PLC52880	ओरमेक इंजीनियरिंग लिमिटेड
1,109	U51109WB1995PTC69695	अथोडोक्स कंसलटेंट्स लिमिटेड
1,110	U45201WB1965PTC26558	अवध प्रोपर्टीज एण्ड ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,111	U74140WB1988PLC45042	ओवरलैण्ड कम्प्यूटर्स लिमिटेड
1,112	U01122WB1990PTC49670	ओवरलैण्ड फार्म हाउस प्रा० लि०
1,113	U70109WB1996PTC76842	ओजनो प्रोपर्टीज प्रा० लि०
1,114	U74140WB1981PTC33804	पी रोबिन कंसलटेंट्स प्रा० लि०
1,115	U22121WB1995PLC73999	पी.सी. पब्लिकेशनस लिमिटेड
1,116	U51101WB1952PTC20677	पी.जे. अशेर (इण्डिया) प्रा० लि०
1,117	U45201WB1974PTC29189	पी.के. बिल्डिंग सर्विसेज प्रा० लि०
1,118	U25209WB1987PTC42663	पी के चोपड़ा कन्सल्टेशन प्रा० लि०
1,119	U27201WB1971PTC28166	पी.एस. बहुवर्द्धिग इन्टरप्राइज प्रा० लि०
1,120	U74140WB1995PLC75792	पेसिफिक क्रेडिट रिसोर्स लिमिटेड
1,121	U01122WB1993PTC59968	पालिश्री रिसर्व एण्ड डेवलपमेंट
1,122	U65999WB1988PLC45332	पालिश्री स्मॉल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट

1,123	U17111WB1986PTC41685	पान पेसिफिक्स एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,124	U65929WB1992PLC55594	पाननटिक सेविंग्स एण्ड फिनान्स (इण्डिया) लिमिटेड
1,125	U55101WB1997PTC85722	पानचक होटल्स प्रा० लि०
1,126	U63090WB1965PTC26571	पंचश्रमिक परिवहन प्रा० लि०
1,127	U74210WB1982PLC34622	पंकज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
1,128	U51909WB1960PTC24570	पाप कम्पनी प्रा० लि०
1,129	U17297WB1976PTC30477	पाराडाइज एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,130	U51103WB1959PLC24222	पारास लेजिंग लिमिटेड
1,131	U51909WB1996PTC81075	पारस मिर्माण प्रा० लि०
1,132	U65110WB1987PTC42934	भारशमोनि सेविंग्स एण्ड क्रेडिट प्रा० लि०
1,133	U99999WB1993PTC58608	परशुराम पब्लिकेशनस प्रा० लि०
1,134	U29211WB1997PLC86042	पारका रेसोर्ट्स एण्ड प्लान्टेशन (इण्डिया)
1,135	U65992WB1972PTC28506	परिजात फिनान्स सेंटर प्रा० लि०
1,136	U67120WB1986PLC41421	परोत सेविंग्स एण्ड इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट
1,137	U51109WB1963PTC25849	परोत स्प्रिंग मशीन प्रा० लि०
1,138	U13100WB1960PTC24652	पारशवनाथ मिनरल डेव. कम्पनी
1,139	U28932WB1959PLC24129	परातस सेविंग्स इण्डिया लिमिटेड
1,140	U23101WB1996PTC77609	परूल कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,141	U70101WB1987PTC42356	परुपति कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०
1,142	U25206WB1994PLC66374	पाटक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1,143	U70101WB1995PTC72762	पाटलिपुत्रा डेवलपर्स प्रा० लि०
1,144	U51109WB1996PTC78350	पाटलिपुत्रा विनिमय प्रा० लि०

1,145	U15312WB1993PTC59633	पाटुलसारा राइस मिल प्रा० लि०
1,146	U22110WB1973PTC28761	पाउसालि प्रकाशीनि प्रा० लि०
1,147	U63032WB1990PTC49201	पवलादेश शिपिंग प्रा० लि०
1,148	U51909WB1995PLC70493	पवनवीर सेल्स लिमिटेड
1,149	U51909WB1996PTC79361	पायल डिलर्स प्रा० लि०
1,150	U74140WB1986PTC40339	पीसीआई कंसलटेंट्स प्रा० लि०
1,151	U99999WB2000PLC92199	पीस टाइम ट्रिस्ट डेवलपर लिमिटेड
1,152	U24299WB1987PTC42666	पीयरलिट मेटल्लर्ग्रीकलस प्रा० लि०
1,153	U70101WB1996PTC78237	पीयर्स प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०
1,154	U74210WB1989PTC46617	पीकेय इन्वारमेंटल इंजीनियर्स प्रा० लि०
1,155	U55101WB1990PTC49289	पीयरलेस गणपति इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
1,156	U65999WB1984PLC37819	पेलिकन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
1,157	U24119WB1998PTC86957	परफेक्ट पाक एंड ट्रेड प्रा० लि०
1,158	U31101WB1998PTC87682	प्रपेच्यूल मोशन जेनरेटर प्रा० लि०
1,159	U67120WB1995PTC71934	प्रेसपेक्टिव फिनान्स प्रा० लि०
1,160	U26911WB1987PTC42998	फार्मा हेम प्रा० लि०
1,161	U00000WB1961PTC24930	फोटो ओपिटक्ल कम्पनी प्रा० लि०
1,162	U17232WB1983PLC35910	पिकल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
1,163	U65993WB1986PLC40165	पाइक स्मॉल सेविंग्स एण्ड फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
1,164	U29299WB1996PTC79612	पायोनीर कूलिंग टावर सिस्टमस प्रा० लि०
1,165	U23209WB1997PTC85715	पायोनीर पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,166	U99999WB1984PLC37721	पायस जेनरल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

1,167	U67120WB1995PTC75088	पीरजी कॉमर्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,168	U67120WB1995PTC71421	पिताम्बरी फण्डस प्रा० लि०
1,169	U51909WB1965PTC26348	प्लानेड मैनेजमेंट एण्ड एजेंसि प्रा० लि०
1,170	U65992WB1963PTC25741	प्लेटेनियम पैकिंग प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,171	U65993WB1987PLC42563	पल्की सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड
1,172	U02001WB1989PTC46902	प्लाईवूड एण्ड टिम्बर प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा० लि०
1,173	U70109WB1963PLC25937	पोद्दार चेम्बर्स लिमिटेड
1,174	U70109WB1972PLC28205	पोद्दार प्लांटेशन लिमिटेड
1,175	U22190WB1985PTC39653	पोद्दार प्रेस एण्ड पब्लिकेशन सर्विसेज प्रा० लि०
1,176	U25201WB1961PTC25147	पॉलिमर्स (इण्डिया) प्रा० लि०
1,177	U51109WB1994PTC63732	पॉयन्टिक एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,178	U67120WB1993PLC58647	पूनम् धाना बृद्धि (इण्डिया) लिमिटेड
1,179	U51909WB1996PTC79330	प्रोरिट्स सप्लायर्स प्रा० लि०
1,180	WB1975PLC30063	पोस्ट-मेरिडियन पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड
1,181	U65993WB1985PLC39461	परावर्तक फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
1,182	U51909WB1995PTC71014	प्रभुधान मर्चण्डाइज प्रा० लि०
1,183	U70109WB1960PTC24705	प्रदीप प्रोपर्टीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,184	U70101WB1996PTC76704	प्रगति निकेतन प्रा० लि०
1,185	U70101WB1995PTC75783	पराग्य निकेत प्रा० लि०
1,186	U70101WB1992PTC54609	पराग्य प्लास्टिक प्रा० लि०
1,187	U52324WB1992PTC56670	परमानन्द सेल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०
1,188	U51909WB1964PTC26030	परामुक एजेंसि प्रा० लि०

1,189	U51226WB1995PTC72207	प्रनब टी कम्पनी प्रा० लि०
1,190	U67120WB1985PLC38492	प्रनरिक स्मॉल सेर्विस् (इण्डिया) लिमिटेड
1,191	U01119WB1993PTC59145	प्रापति एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,192	U70101WB1982PTC35012	प्रशान्त (इण्डिया) प्रा० लि०
1,193	U24223WB1985PTC39079	प्रतिलिपि (इण्डिया) प्रा० लि०
1,194	U99999WB1982PLC35538	प्रवारी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
1,195	U26921WB1995PTC76259	प्रेसिसन कन्क्रेट प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,196	U17119WB1928PLC5973	प्रेम वान्द जुट गिल्स लिमिटेड
1,197	U70109WB1994PLC62874	प्रेम दीप विनियोग लिमिटेड
1,198	U70101WB1993PTC59692	प्रेस्टिज बिल्डर्स प्रा० लि०
1,199	U33112WB1992PLC56582	प्राइम पावर कन्ट्रोल टेक्नोलॉजी इण्डिया
1,200	U70101WB1986PTC40298	प्राइमकॉन इंजीनियरिंग प्रा० लि०
1,201	U24114WB1988PTC44579	प्राइमटाइम एडवर्टाइजिंग प्रा० लि०
1,202	U51504WB1992PTC56587	पीआरओ कंसलटेंट्स प्रा० लि०
1,203	U22219WB1959PTC24317	प्रोसेज एण्ड प्रीट प्रा० लि०
1,204	U28932WB1959PTC24357	प्रोडक्शन इंजीनियर वर्क्स प्रा० लि०
1,205	U51909WB1983PLC35979	प्रोफेज कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनांस
1,206	U99999WB1993PTC59759	प्रोग्रामेड जेनरल फिनांस एण्ड
1,207	U27106WB1972PTC28530	प्रोजेक्ट्स एण्ड प्रोडक्ट्स (ए. सरकार) प्रा० लि०
1,208	U65922WB1992PLC57066	पॉलिफिक फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
1,209	U45203WB1994PTC65460	प्रोमेक्स होटेलिंग्स प्रा० लि०
1,210	U65999WB1988PTC44802	प्रस्तुति हायर पर्येज एण्ड फिनांस प्रा० लि०

1,211	U51909WB2000PLC92287	प्रोटक इम्पेक्स लिमिटेड
1,212	U51109WB1996PTC78160	प्रोटेंटियल डेलोकॉम प्रा० लि०
1,213	U65999WB1993PLC57861	प्रूड फियूचर लॉयन एण्ड इन्वेस्टमेंट
1,214	U51109WB1991PLC52917	प्रूडेन्टियल इक्विम स्क्रिप्स इक्सचेंज लिमिटेड
1,215	U19129WB1994PTC66468	प्रूडेन्टल लिमिटेड
1,216	U65110WB1972PTC28369	प्रूडेन्टल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,217	U22219WB1951PTC19736	पब्लिसिटी एजेंसि एण्ड प्रिन्टर्स प्रा० लि०
1,218	U45201WB1990PTC48269	पुर्बाचल डेवलपर्स प्रा० लि०
1,219	U51909WB1966PTC26790	पियोर बलादीग मिनरलस प्रा० लि०
1,220	U00000WB1959PLC24262	पीयोरताब प्रॉ कम्पनी लिमिटेड
1,221	U65910WB1992PTC55499	पुष्पा रेशोर्स प्रा० लि०
1,222	U51909WB1993PTC59251	पिरामिड डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड सेल्स प्रा० लि०
1,223	U36102WB1963PTC25793	पिरामिड स्टील प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,224	U17209WB1986PLC41414	क्वालिटी फाउंडरिज लिमिटेड
1,225	U65921WB1995PTC69419	क्वीन्स फिनान्सियल सर्विसेज प्रा० लि०
1,226	U50102WB1989PTC46105	आर.ए. हिमरासिगिका एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
1,227	U63090WB1978PTC31656	आर. बी. ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा० लि०
1,228	U14106WB1959PTC24479	आर.डी. कपूर ब्रदर्स प्रा० लि०
1,229	U70109WB1941PTC10742	आर.के. चट्टर्जी एण्ड सन्स प्रा० लि०
1,230	U15544WB1950PLC19029	आर.एन. सारोगी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
1,231	U51109WB1982PTC35293	आर.आर सिंग एण्ड कम्पनी (होलिडिंग एजेंट्स) प्रा० लि०
1,232	U19202WB1987PTC42553	राधा कृष्णा टियूब्स प्रा० लि०

1,233	U24292WB1959PTC24098	रेडिन्ट फायर वर्क्स कम्पनी प्रा० लि०
1,234	U99999WB1961PTC24976	रघुनाथ स्टेशनरि प्रा० लि०
1,235	U51909WB1996PTC79364	राहुल ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,236	U91312WB1989PTC45972	रायगज टाकिज प्रा० लि०
1,237	U24232WB1986PTC40443	रालशन इंडस्ट्रीयल एण्ड साइन्टिफिक
1,238	U51909WB1995PTC71402	रैना इंजीनियरिंग प्रा० लि०
1,239	U18101WB1990PTC50059	रायपुर कॉटॉन एण्ड सिल्क वेविंग कम्पनी
1,240	U74140WB1965PTC26579	राज आनन्द राज (एजेंसि) प्रा० लि०
1,241	U70109WB1960PTC24741	राजपुर कोयलवरी कम्पनी प्रा० लि०
1,242	U99999WB1972PLC28582	राजरथान स्टीलस लिमिटेड
1,243	U51909WB1996PTC79316	राजधानि विनिमय प्रा० लि०
1,244	U51109WB1996PTC81164	राजेश कुमार शर्मा आयुर्वेदिक
1,245	U45202WB1987PTC42490	राजमहल कन्स्ट्रक्शंस प्रा० लि०
1,246	U51909WB1982PTC35188	राजमहल इण्डिया प्रा० लि०
1,247	U51909WB1995PLC75999	राजपुताना व्यापार लिमिटेड
1,248	U29308WB1942PTC10888	राल्सी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०
1,249	U27106WB1964PLC26162	रामाकास्ट लिमिटेड
1,250	U51909WB1995PTC75784	रमाकेश एजेंसि प्रा० लि०
1,251	U51109WB1992PTC55762	रमण कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,252	U51909WB1996PTC79212	रामावति ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,253	U63021WB1948PTC16900	रामग्रह विणापनि ट्रान्सपोर्ट एण्ड इंडस्ट्रीज
1,254	U31200WB1972PTC28206	रामपुर कम्पोनेटरा इलेक्ट्रिकल एण्ड

1,255	U67120WB1997PLC84852	रमशा फिनान्स लिमिटेड
1,256	U70101WB1993PTC57577	राणा तेजेन्द्र कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
1,257	U70101WB1988PTC44670	रनका एण्ड लधानी डेवलपर्स प्रा० लि०
1,258	NO CIN NO	रंकस इण्डिया प्रा० लि०
1,259	U27101WB1998PTC86888	रेपीड कारस्टॉप्लाट प्रा० लि०
1,260	U27109WB1997PLC82697	रपति एक्सपोर्ट इण्डिया लिमिटेड
1,261	U51909WB1971PTC28194	रत्न कम्पनी (फूड प्रोविजन्स) प्रा० लि०
1,262	U19111WB1993PTC57560	रत्न सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,263	U51219WB1993PTC57993	रेनूका मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड डिस्ट्री. सिस्टम्स
1,264	U25199WB1974PTC29252	रवि रबर वर्क्स प्रा० लि०
1,265	U51909WB1995PTC70495	रावत डेलकॉम प्रा० लि०
1,266	U31504WB1982PTC35096	रायकॉ इलेक्ट्रिकल इन्डस्रा प्रा० लि०
1,267	U74300WB1998PTC87520	आरसीआई मेडिया मैट्रिक प्रा० लि०
1,268	U60221WB1996PLC82043	रीच एण्ड रीच (इण्डिया) लिमिटेड
1,269	U70102WB1995PTC72314	रायलकॉन प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०
1,270	U24119WB1999PTC89407	रेबट्रेड कैमिकल्स प्रा० लि०
1,271	U67190WB1982PTC35233	रेकॉन कंसलटेन्सी सर्विसेज प्रा० लि०
1,272	U51109WB1970PTC27834	रेकॉन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०
1,273	U51909WB1996PTC79382	रेडक्लिफ डेलकॉम प्रा० लि०
1,274	U74210WB1959PTC24354	रेडोलेनी प्रा० लि०
1,275	U17111WB1997PLC82696	रीड एण्ड पीक एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
1,276	U67120WB1994PTC65516	रेजेंसि स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्रा० लि०

1,277	U70109WB1996PTC81505	रेहब प्रोमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि०
1,278	U65191WB1987PLC42361	रिलायन्स क्रेडिट लिमिटेड
1,279	U65999WB1992PLC54709	रेनार्सेस सेविंग्स कम्पनी लिमिटेड
1,280	U70101WB1995PTC75300	रेशमी कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०
1,281	U74300WB1961PTC25285	रेवोलवोलिटी कम्पनी प्रा० लि०
1,282	U01117WB1997PLC86181	आरएफडी एग्रीकल्चर लिमिटेड
1,283	U92113WB1987PTC42577	रहिना एडवर्टाइजिंग इण्डिया प्रा० लि०
1,284	U15142WB1996PTC81523	रीच कॉकडमेटरा कम्पनी प्रा० लि०
1,285	U64201WB2000PTC91043	रिद्धी सिद्धि कम्युनिकेशन्स प्रा० लि०
1,286	U70200WB1997PTC85889	रिखिया इस्टेट्स प्रा० लि०
1,287	U65999WB1992PTC55324	रिक्के क्रेडिट एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा० लि०
1,288	U26921WB1974PTC29365	रिवरसाइड ब्रीक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा० लि०
1,289	U23109WB1990PTC49877	आरजे कूल सेल्स प्रा० लि०
1,290	U51909WB1982PLC35397	रॉबर्ट रेसोर्स लिमिटेड
1,291	U15491WB1978PTC31827	रोचा प्रा० लि०
1,292	U63040WB1993PTC59827	रॉगर्स होलिडे होम एण्ड फिलिकल सर्विसेज प्राइवेट
1,293	U74300WB1982PTC35572	रोमास एडवर्टाइजिंग प्रा० लि०
1,294	U24239WB1996PTC76381	रोनि-केम फार्मासियुटिकल्स प्रा० लि०
1,295	U65999WB1996PTC79780	रोनटेकरा इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०
1,296	U65999WB1993PLC60677	रुमय फिनान्सएण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
1,297	U20299WB1947PTC15991	रॉय ब्रदर्स प्रा० लि०
1,298	U51909WB1998PTC87826	रॉयक्स प्रा० लि०

1,299	U24232WB1989PTC46469	रॉयटेक कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,300	U74130WB1995PTC71936	आरएस मार्केटिंग सर्विसेज प्रा० लि०
1,301	U74140WB1986PLC41351	आरटीवी इंडस्ट्रीयल एण्ड बिजनेस मैनेजमेंट
1,302	U51909WB1987PTC42861	रुचि टेक्सटाइल प्रा० लि०
1,303	U29191WB1987PTC42472	रूपेश आईस फैक्टरी प्रा० लि०
1,304	U92112WB1953PTC20899	रुपनारायण टाकिज प्रा० लि०
1,305	U99999WB1950PLC18563	एस डी एम सिन्डिकेट लिमिटेड
1,306	U51398WB1948PTC16420	एस डी टी (पी) लिमिटेड
1,307	U29141WB1968PTC27289	एस के फाउन्डरी एण्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,308	U65993WB1985PLC38641	एस के इंडस्ट्रीयल एण्ड क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
1,309	U99999WB1997PTC85162	एस एन डी सुपरटेक प्रा० लि०
1,310	U31300WB1992PTC54460	एस बिकाश प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,311	U15491WB1995PTC75070	एस बी एक्जुक्यूटिव एण्ड एग्री फार्मिंग प्रा० लि०
1,312	U55101WB1993PTC60657	एस एच होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्रा० लि०
1,313	U24246WB1996PTC81529	एस के कस्मेटिक्स प्रा० लि०
1,314	U27104WB1970PTC27668	एस लहिरी (मेटल्स) प्रा० लि०
1,315	U74950WB1977PTC30910	एस.एम. इम्पेक्स प्रा० लि०
1,316	U74950WB1986PTC40516	एस.एम. पैकिंगिंग प्रा० लि०
1,317	U67120WB1971PTC28171	एस. एम. ट्रेड सर्विसेज प्रा० लि०
1,318	U32209WB1989PTC46599	एस. पी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०
1,319	U36912WB1972PTC28590	एस. पी. मिनरल्स प्रा० लि०
1,320	U51109WB1996PTC79276	एस. आर. (कलकत्ता) ट्रेडिंग एण्ड फिनान्स प्रा० लि०

1,321	U51909WB1961PTC24957	एस.एस. चित्रामंदिर प्रा० लि०
1,322	U60109WB1996PTC81825	एस.टी.एस. कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०
1,323	U17299WB1997PTC85870	साबटेक्स इम्पेक्स प्रा० लि०
1,324	U31909WB1942PTC10984	साबीस प्रा० लि०
1,325	U51494WB1982PLC35497	सबुज टेक्टाइल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
1,326	U51109WB1995PTC72697	सादगी कॉमर्शियल एण्ड फिनान्स प्रा० लि०
1,327	U32109WB1973PTC29097	साहा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०
1,328	U99999WB1983PTC35751	साहा वूडाल्ट डुक्खाम प्रा० लि०
1,329	U63090WB1961PTC25178	सहदेव सिध प्रा० लि०
1,330	U70101WB1996PTC76663	सहारन प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्रा० लि०
1,331	U67120WB1992PTC56947	सहाय फिनान्स प्रा० लि०
1,332	U67120WB1990PTC49555	सहेश इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०
1,333	U65999WB1997PLC86197	साहु फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
1,334	U33205WB1965PTC26430	सैलेन्द्र पिकचर्स प्रा० लि०
1,335	U51909WB1995PTC69966	सैप्रताप कॉमोडीटिज प्रा० लि०
1,336	U31901WB1986PTC40064	सकुमा इलेक्ट्रोमोटिव (इण्डिया) प्रा० लि०
1,337	U67120WB1994PLC61833	साल्की बिनियोग उद्योग लिमिटेड
1,338	U34201WB1988PTC45040	साल्ट लेक डिजल इन्जेक्शन कम्पनी प्रा० लि०
1,339	U15143WB1997PLC82644	सामन्ना आरयन फूडरा लिमिटेड
1,340	U29294WB1986PTC40045	सामन्त इंजीनियरिंग प्रा० लि०
1,341	U26931WB1987PTC42946	साम्पत व्रीकरा इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,342	U51109WB1992PTC55434	समुसुक्ति ट्रेडिंग प्रा० लि०

1,343	L99999WB1993PTC58572	एसएएन फिनान्स लिमिटेड
1,344	U51909WB1996PTC79749	सनान एक्सपोर्ट प्रा० लि०
1,345	U93020WB1990PTC49913	सानन्दा कैमिक्लस प्रा० लि०
1,346	U22219WB1963PTC25840	संजिवन प्रिन्टर्स प्रा० लि०
1,347	U63090WB1971PTC28191	सान्ता रोडवेज प्रा० लि०
1,348	U51909WB1996PTC76687	समटेक ट्रेडिंग प्रा० लि०
1,349	U45201WB1980PTC79580	सान्ति कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०
1,350	U92112WB1995PTC72878	सान्ति श्री सिनेमा प्रा० लि०
1,351	U01409WB1998PTC88518	सारदा राइस मिल प्रा० लि०
1,352	U01132WB1917PLC2842	सारालता देबीज इस्टेट लिमिटेड
1,353	U65993WB1992PTC55219	सारोगी सिक्यूरिटीज प्रा० लि०
1,354	U51109WB1996PTC78625	सारश ट्रेडिंग प्रा० लि०
1,355	U51900WB1996PTC76517	सरिता एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,356	U29130WB1990PTC49969	सारजी इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
1,357	U65921WB1996PTC79339	सार्क फिनान्स प्रा० लि०
1,358	U65923WB1993PLC59087	सरना भूमि क्रेडिट एण्ड होल्लिंग कम्पनी
1,359	U45202WB1948PTC16298	सारपी सजोरा कोल माइन्स प्रा० लि०
1,360	U65999WB1992PLC55807	सारसा इन्वेस्टमेंट एण्ड फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
1,361	U51109WB1996PTC79176	सशि ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,362	U51109WB1996PTC76629	स्टेल्लिट डेल्स प्रा० लि०
1,363	U67120WB1998PTC86955	सतुन सिक्यूरिटीज प्रा० लि०
1,364	U51109WB1985PTC39229	स्ट्रून मार्केटिंग प्रा० लि०

1,365	U60210WB1948PTC16853	सत्यभामा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा० लि०
1,366	U51109WB1995PTC70203	सत्यवन सेल्स प्रमोशन प्रा० लि०
1,367	U10102WB1949PLC18105	सुनन्दा कोलरिज लिमिटेड
1,368	U85110WB1987PTC42547	सौरव मेडिकेयर प्रा० लि०
1,369	U70109WB1995PTC75832	सवानाह इस्टेट्स प्रा० लि०
1,370	U65999WB1988PLC45074	सवेक्स फिनान्स एण्ड इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट
1,371	U65993WB1986PLC40377	सवेयोर सेवेयर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
1,372	U28920WB1960PTC24561	साइन्टिफिक रेपेयर एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,373	U72900WB1996PTC76878	एसडीएच कम्प्यूटर्स एण्ड सिस्टीम रिजिज प्रा० लि०
1,374	U6599WB1995PLC67684	सिक्कूर फिनान्स एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड
1,375	U70101WB1986PTC40073	सीमा एण्ड रोहित इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
1,376	U32101WB1985PTC39676	सेल्ड्रीक इण्डिया प्रा० लि०
1,377	U10102WB1952PTC20252	सलेक्टेड डलुरबॉन्ड कोल कम्पनी प्रा० लि०
1,378	U65993WB1986PTC40489	सेन कंसलटेंसि एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
1,379	U15433WB1998PTC86959	सेन महाशय प्रा० लि०
1,380	U15317WB1960PTC24670	सेट्टु बेकरिज प्रा० लि०
1,381	U99999WB1991PTC50896	सेवॉक ट्रेडिंग प्रा० लि०
1,382	U74950WB1986PTC40252	साह इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,383	U20221WB1998PTC87136	शक्ति प्लाई प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,384	U51109WB1996PTC76590	शक्तिपुंज कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,385	U50300WB1996PTC79295	शंकर ऑटो एंजिनियरिंग प्रा० लि०
1,386	U17232WB1960PTC24886	शानरद प्रा० लि०

1,387	U60231WB1989PTC46829	शान्तिलाल सुशिल कुमार डागा प्रा० लि०
1,388	U29199WB1976PTC30716	शर्मा हार्डवेयर स्टोर्स प्रा० लि०
1,389	L51909WB1982PLC35485	शसान प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड
1,390	U65921WB1996PTC79880	शशि लेज एण्ड फिनान्स प्रा० लि०
1,391	U92111WB1978PTC31786	शेल्ली फिल्मस प्रा० लि०
1,392	U21022WB1973PTC28983	शेऑ गौरव प्रा० लि०
1,393	U92114WB1949PLC17787	शिबानि सेनेमा लिमिटेड
1,394	U36911WB1948PTC16521	शिल्पा प्रोजेजक प्रा० लि०
1,395	U19129WB1997PTC85381	शिल्पा सदन प्रा० लि०
1,396	U17119WB1960PLC24856	शिव वायर एण्ड स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1,397	U74140WB1995PTC71992	श्री हनुमान सर्विसेज प्रा० लि०
1,398	U65910WB1973PTC28862	श्री कमल सेविंग्स युनिट कम्पनी प्रा० लि०
1,399	U65993WB1990PTC49367	श्री माधव होल्डिंग्स प्रा० लि०
1,400	U45201WB1961PTC25252	श्री पार्वती प्रोपर्टीज प्रा० लि०
1,401	U67120WB1965PLC26432	श्री रमण इन्वेस्टमेंट्स एण्ड एमएफजी कम्पनी लिमिटेड
1,402	U40106WB1996PLC81630	श्री सुभम एलायज लिमिटेड
1,403	U28910WB1959PTC24362	श्री तारकेश्वर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,404	U70101WB1999PLC88754	श्री त्रिरूपति आवाश निर्माण लिमिटेड
1,405	U70109WB1998PLC87975	श्री भूमि प्लान्टेशन एण्ड डेवलपर्स इण्डिया
1,406	U70109WB1994PLC61719	श्रीमोशक्ति फिन्वेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड
1,407	U92100WB19PLC58600	श्रीमिता विजन एण्ड मार्केटिंग लिमिटेड
1,408	U65999WB1994PLC65952	श्रुति कैपिटल एण्ड फिनान्स लिमिटेड

1,409	U26941WB1963PLC25747	श्रुति लिमिटेड
1,410	U34300WB1998PTC86903	शुभम ऑटो प्रा० लि०
1,411	U67120WB1981PLC33901	श्यामन्शु व्यापारिक नेत्रा लिमिटेड
1,412	U15202WB1972PTC28522	सिबसन्स इण्डिया मार्केटिंग एजेंसी प्रा० लि०
1,413	U01122WB1993PTC59146	सिद्धाह टेक्नोलॉजिकल प्रा० लि०
1,414	U70109WB1995PTC75174	सिद्धार्थ टावर एण्ड इस्टेट्स प्रा० लि०
1,415	U99999WB1983PTC35794	सित्र रेसोर्स उपा० लि०
1,416	U65192WB1992PLC56426	रोश फिनांसाएण्ड हायर पवर्ज (इण्डिया)
1,417	U65910WB1988PLC45487	सिकको ग्रोथ फण्ड लिमिटेड
1,418	U35999WB1992PLC54437	सिखा सुरजो इकोनॉमि सर्विसेस एण्ड
1,419	U91312WB1987PTC42764	सिलिकॉन डाय प्रा० लि०
1,420	U15492WB1917PLC02865	सिलकॉट टी कम्पनी लिमिटेड
1,421	U67190WB1987PTC42201	सिलिवा इन्वेस्टमेंट एण्ड कंसलटेंट्स प्रा० लि०
1,422	U65922WB1997PLC85894	सिम्यार्क इनफ्रेस्ट्रक्चर (न्यू मार्केट)
1,423	U52311WB1995PTC71076	सिध प्रारम्भ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०
1,424	U27310WB1976PLC30406	सिध प्रेसिशन कार्टिंग लिमिटेड
1,425	U65921WB1995PLC75405	सिघल फाइनेशियर इण्डिया लिमिटेड
1,426	U17111WB1941PTC10757	सिघानिया बोरस प्रा० लि०
1,427	U99999WB1962PTC25662	सिघानिया कॉमर्शियल कम्पनी प्रा० लि०
1,428	U45201WB1986PTC40242	सिघी पैलेस कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
1,429	U28920WB1960PTC24927	सिन्धु मेटल वर्क्स प्रा० लि०
1,430	U10200WB1949PLC18104	सरिका वैल्वी कोल कम्पनी लिमिटेड

1,431	U65993WB1992PTC55640	सिता क्रेडिट कंसलटेटरा प्रा० लि०
1,432	U63022WB1986PTC40510	सितला रेफरी जेरेशन एण्ड कोल्ड स्टोरेज
1,433	U27101WB1986PTC40563	सिवाजी इलेक्ट्रो स्टील प्रा० लि०
1,434	U00000WB1959PTC24360	स्काबकॉ प्रा० लि०
1,435	U74300WB1971PTC28095	स्कारशन एडवर्टाइजिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट
1,436	U15549WB1982PTC35379	स्काईलार्क (वीन्स) प्रा० लि०
1,437	U51109WB1999PTC89403	स्काईलाइन कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,438	U32209WB1990PTC49575	स्काईटॉन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०
1,439	U99999WB1918PLC02942	स्मीथसतानी स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड
1,440	U36991WB1961PTC25128	स्नैप ब्रूशिंग्स (इण्डिया) प्रा० लि०
1,441	U65922WB1992PLC55890	स्नर्स हाउसिंग फिनान्स कम्पनी लिमिटेड
1,442	U72200WB1993PTC59889	सॉफटेक्स सोलुशन प्रा० लि०
1,443	U65910WB1989PLC45912	सोहन सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
1,444	U24232WB1960PTC24888	सोलर एजेंसि प्रा० लि०
1,445	U27109WB1973PTC28847	सोलर ब्राइट स्टील एगएफजी कम्पनी प्रा० लि०
1,446	U65909WB1992PLC57059	सोलर इकॉनॉमिक फिनान्स (इण्डिया) लिमिटेड
1,447	U40106WB1996PTC79440	सोलर सिस्टमस प्रा० लि०
1,448	U27108WB1974PLC29169	सॉलिड एलाय ग्रैडिंग बॉल्स लिमिटेड
1,449	U70101WB1984PLC37739	सॉलिटीयर डेवलपमेंट लिमिटेड
1,450	U51109WB1966PTC26786	सॉलस सेल्स एण्ड सप्लाय प्रा० लि०
1,451	U21015WB1960PTC24914	सोमनाथ बनर्जी एण्ड ब्रोस पेपर मर्चण्टस
1,452	U29266WB1976PTC30827	सोनालि क्राफ्टस प्रा० लि०

1,453	U01122WB1997PLC86050	सोनालि फोरेस्ट इण्डिया लिमिटेड
1,454	U99999WB1936PLC08808	सोनार बंगला कॉलगेज मिल्स लिमिटेड
1,455	U65993WB1993PTC57670	सोनाराथी फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
1,456	U22219WB1988PTC44091	सोनाटा प्रिंटआर्ट प्रा० लि०
1,457	U33301WB1997PTC84403	साउथ कलकत्ता नेटवर्क प्रा० लि०
1,458	U99999WB1921PLC04296	साउथ कर्णपुरा कोल कम्पनी लिमिटेड
1,459	U51109WB1948PTC16852	साउथ परासिया कालरिज प्रा० लि०
1,460	U67120WB1986PLC41492	साउथ वेस्ट फिनान्स लिमिटेड
1,461	U65999WB1993PLC59898	रोविनियर रोविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
1,462	U51505WB1996PTC76542	रोयलटेक्स इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०
1,463	U52201WB1992PTC55464	स्पेशलिटी कोमॉडीटिज प्रा० लि०
1,464	U51909WB1991PTC50692	स्पेक्ट्रा मार्केटिंग सर्विसेज प्रा० लि०
1,465	U15137WB1985PTC38496	स्पेन्सर बेवरएजेन्स प्रा० लि०
1,466	U51109WB1995PTC72169	स्पीहिनेक्स टी ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,467	U51109WB1961PLC25288	स्पाइरा इम्पोर्ट्स कोल लिमिटेड
1,468	U21022WB1988PTC44111	स्पाइन-मेक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,469	U65910WB1992PLC54598	स्क्वाड जेनरल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट
1,470	U51109WB1985PTC39232	स्क्वार कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,471	U67120WB1999PTC89439	एसआरबी कोमॉडीटिज ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,472	U65993WB1975PLC30342	श्री गजेन्द्र विनियोग लिमिटेड
1,473	U92114WB1955PLC22124	श्री गणेश फिल्मस लिमिटेड
1,474	U51491WB1997PTC85897	श्री जूट सप्ललाई प्रा० लि०

1,475	U27310WB1982PTC35577	श्री मनमोहन फाउण्ड्री प्रा० लि०
1,476	U51909WB1996PTC81696	श्रेयेश बिजनेसज प्रा० लि०
1,477	U70109WB1948PTC16219	श्री गणेश प्रोपर्टीज प्रा० लि०
1,478	U92111WB1987PTC42658	श्री गुरु सिनेमा प्रा० लि०
1,479	U51109WB1995PTC76193	श्री पंचातातुबा इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
1,480	U27101WB1987PTC42286	श्री पंकज मेटल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,481	U67120WB1936PLC8546	श्री शंकर कम्पनी लिमिटेड
1,482	U99999WB1927PLC05850	श्रीनाथपुर टी कम्पनी लिमिटेड
1,483	U70101WB1998PTC86887	एसएस कोर्गेंडीटेज सर्विसेज प्रा० लि०
1,484	U01222WB1997PTC84697	एसएसबी पोलिट्री एण्ड फार्मिंग प्रा० लि०
1,485	U17226WB1983PLC36402	स्टाल्लशान इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
1,486	U32301WB1959PTC24272	स्टेण्डर्ड एक्सोरिज प्रा० लि०
1,487	U55333WB1982PTC35257	स्टेण्डर्ड बारले मिल्स प्रा० लि०
1,488	U51909WB1951PTC19811	स्टेण्डर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०
1,489	U35911WB1972PTC28430	स्टेण्डर्ड मोपेड कम्पनी प्रा० लि०
1,490	U51109WB1995PTC70315	स्टारबुस्ट कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,491	U92221WB1973PTC28893	स्टारलिंग रॉलर कम्पनी प्रा० लि०
1,492	U65191WB1983PLC35891	स्टेटस फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
1,493	U65910WB1988PLC45477	स्टेट फास्ट फिनांस लिमिटेड
1,494	U51109WB1947PTC15981	स्टील कम्पनी प्रा० लि०
1,495	U27310WB1965PLC26407	स्टील एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन
1,496	U27310WB1987PTC42702	स्टील आर्ट एजेंसि प्रा० लि०

1,497	U24231WB1934PTC8034	स्टेरलिंग फार्मासियुटिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड
1,498	U24131WB1978PTC31649	स्टेयरलिंग सिन्थेटिक्स प्रा० लि०
1,499	U65999WB1960PLC24787	स्टॉक एण्ड फिनान्स लिमिटेड
1,500	U67120WB2000PLC92355	स्टॉक्स 2 गैस लिमिटेड
1,501	U28999WB1960PTC24713	स्ट्रेक्चरल इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
1,502	U74300WB1985PTC38644	स्टेण्ड मार्केटिंग कंसल्टेंट्स प्रा० लि०
1,503	U26933WB1989PTC46382	एसयू-वर्ड टाइल्स प्रा० लि०
1,504	U63090WB1951PTC20048	सुब्रह्म पेऑप्लाइज ट्रांसपोर्ट प्रा० लि०
1,505	U22219WB1961PTC25108	सुचित्रिता प्रा० लि०
1,506	U51109WB1991PTC51031	सुदर्शन मैनेजमेंट प्रा० लि०
1,507	U51909WB1979PTC32001	सुधिर कुमार साहा प्रा० लि०
1,508	U65993WB1987PTC42883	सुगम इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०
1,509	U67120WB1972PTC28508	सुगर एजेंट्स (कलकत्ता) प्रा० लि०
1,510	U17142WB1992PTC57014	सुजाता आयल मिल्स प्रा० लि०
1,511	U74210WB1982PTC35399	सुजिकॉन कंसल्टेंट्स प्रा० लि०
1,512	U28920WB1960PTC24701	सुकचर मेटल वर्क्स प्रा० लि०
1,513	U51109WB1995PTC70349	सुखचर मर्चण्ट्स प्रा० लि०
1,514	U67120WB1982PLC34629	सुखि संघय एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
1,515	U51109WB1999PTC89725	सुमन फर्टिलाइजर प्रा० लि०
1,516	U99999WB1982PLC35421	सुभानगर निधि लिमिटेड
1,517	U24121WB1988PTC45046	सुमिसु कॅमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,518	U70101WB1996PTC76847	सुग्गेर वाइली प्रोपर्टीज प्रा० लि०

1,519	U27103WB1973PTC29151	सन जिप्सर्स प्रा० लि०
1,520	U64120WB1995PTC72329	सनसिटि कोरियर्स एण्ड कारगो प्रा० लि०
1,521	U60232WB1977PTC30986	सुन्दर एक्सपोर्ट (इन्डोनेस प्रोडक्ट्स) प्रा० लि०
1,522	U61100WB1956PTC22964	सुन्दरबन लव सिन्डिकेट
1,523	U65922WB1978PTC31696	सुन्दर इस्टेट्स प्रा० लि०
1,524	U51109WB1996PTC79175	सनफलावर टेक्सटाइल्स प्रा० लि०
1,525	U52339WB1998PTC86889	सुनिल क्लेक्शन प्रा० लि०
1,526	U51109WB1960PTC24907	सुनिल इम्पोर्ट्स प्रा० लि०
1,527	U29262WB1987PTC42795	सुनिल प्लास्टिक इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
1,528	U51909WB1995PTC70149	स्नॉल सॉफ्टवेयर प्रा० लि०
1,529	U27103WB1961PTC25029	सुपर मेटल्स प्रा० लि०
1,530	U51222WB1988PTC44871	सुपर मिल्कमेग मार्केटिंग प्रा० लि०
1,531	U70101WB1995PTC70814	सुपर उत्पादन प्लान्टेशन इन्वेस्टमेंट
1,532	U51394WB1961PTC25021	सुपर वाच कम्पनी प्रा० लि०
1,533	U92112WB1965PTC26478	सुपरमार्क इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०
1,534	U28991WB1971PTC28034	सुरेका इक्विपमेंट्स प्रा० लि०
1,535	U01122WB1986PTC40188	सुरेन्द्र एण्ड सन्स कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०
1,536	U51909WB1964PTC26232	सुरेन्द्र एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
1,537	U289911972PTC28577	सुरेश आयरन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,538	U51109WB1996PTC81983	सुरुचि व्यापार प्रा० लि०
1,539	U24234WB1985PTC39259	सरवाईव फार्मासियुटिकल्स प्रा० लि०
1,540	U63022WB1995PTC75226	सुरया टैक्स प्रा० लि०

1,541	U70109WB1961PTC24983	सुशिल इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०
1,542	U67120WB1973PTC29110	स्वदेशी होल्डिंग्स प्रा० लि०
1,543	U99999WB1936PLC08800	स्वदेशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1,544	U51109WB1985PLC39034	स्वाल्लो ट्रेडिंग लिमिटेड
1,545	U65991WB1999PTC88780	स्वम्भू फिनांसियल सर्विसेज प्रा० लि०
1,546	U05004WB1994PLC66082	स्वान अक्युआ लिमिटेड
1,547	U65993WB1991PTC50947	स्वप्न सेविंग्स एण्ड क्रेडिट कम्पनी प्रा० लि०
1,548	U65999WB1992PTC55742	स्वप्नदीप एग्री डेवलपमेंट्स एण्ड
1,549	U65110WB1992PLC55469	स्वर्ण साथि हाउसफिन कम्पनी इण्डिया लिमिटेड
1,550	U65929WB1986PTC40471	स्वस्तयानी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०
1,551	U65923WB1987PTC42753	स्वास्तिक फिनांसियल सर्विस प्रा० लि०
1,552	U02001WB1987PTC42704	स्वाति फोरस्ट एण्ड फार्मा प्रा० लि०
1,553	U28920WB1960PTC24900	स्वीथिन प्रा० लि०
1,554	U65999WB1993PLC58567	स्वर्णक्षेत्र सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट
1,555	U28991WB1959PTC24300	सलवानिया इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,556	U51909WB1996PTC76635	सेम्फोनि डेलर्स प्रा० लि०
1,557	U51909WB1996PTC76630	सेम्फोनि टेक्सटाइल्स प्रा० लि०
1,558	U65921WB1996PLC82318	सिन्दिकेट हायर पर्येज लिमिटेड
1,559	U28993WB1960PTC24921	टी.जी. चौधुरी प्रा० लि०
1,560	U51909WB1993PTC58512	टी.एच.ई. ऑटो एण्ड हाइवेयर प्रा० लि०
1,561	U01211WB1950PLC18644	टेगोर कॉमर्शियल क्रॉन लिमिटेड
1,562	U70109WB1994PLC61548	टालबॉट हाउसिंग फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट

1,563	U10101WB1921PLC4372	टलधर कोल फिल्ड लिमिटेड
1,564	U51222WB1997PTC85652	तलिधा डायरि एण्ड एग्रो प्रा० लि०
1,565	U99999WB1983PLC35947	तमाम फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
1,566	U51109WB1954PTC21702	तमलुक फ्रेंड्स स्टोर्स प्रा० लि०
1,567	U65993WB1975PTC30281	तमारलिप्ता चीत एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि०
1,568	U52609WB1996PTC79882	ताना इलेक्ट्रिक प्रा० लि०
1,569	U74999WB1985PLC39258	तपारिथा पॉलि उद्योग लिमिटेड
1,570	U51226WB1995PTC72831	तप्पा प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्रा० लि०
1,571	U51909WB1995PTC71316	तपसी निर्यात प्रा० लि०
1,572	U45202WB1965PTC26604	तपति प्रोपर्टीज प्रा० लि०
1,573	U65929WB1992PLC55549	तराई हाउसिंग फिनान्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड
1,574	U31300WB1987PTC42804	तराई वायर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,575	U24233WB1997PTC85740	तास फार्मा प्रा० लि०
1,576	U27201WB1961PLC24971	टाटानगर स्पन पाइपरा एण्ड टियूब्स लिमिटेड
1,577	U51399WB1998PTC86669	टेक्नॉकॉम हाउस प्रा० लि०
1,578	U65291WB1995PTC75924	टेक्नोकम्प्यूटर इन्टिग्रेटेड सिस्टम प्रा० लि०
1,579	U51101WB1986PTC41618	तेस्ता इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा० लि०
1,580	U51221WB1985PLC38510	तेस्ता वैल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1,581	U27109WB2000PTC91702	तेजास फास्टनर प्रा० लि०
1,582	U74999WB1951PLC19906	टेलिग्राफ चेक ऑफिस वर्कर्स रिलिफ
1,583	U26919WB1988PTC45215	तराई कैमिक्स इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,584	U17232WB1960PTC24719	टेक्सवेल्ल प्रा० लि०

1,585	U02610WB1944PLC11958	द इस्टर्न इण्डिया ग्लास मै-यूफेक्चर्स
1,586	U91990WB1950PLC19235	द जूट ब्रोक्स एसोसिएशन
1,587	U51505WB1949PTC17640	थिएटर इक्विपमेंट्स कम्पनी प्रा० लि०
1,588	U20211WB1959PTC24115	थर्मोलिथ प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,589	U74210WB1988PTC44691	थर्मो-मेक कन्सट्रक्शन इण्डिया प्रा० लि०
1,590	U74210WB1985PTC39684	थर्मोवैल्ड इंजीनियरिंग प्रा० लि०
1,591	U31501WB1982PLC34427	टाइगर लेम्ब इंटरट्रीज लिमिटेड
1,592	U51101WB1966PTC26755	टिकमान्य ट्रेडर्स प्रा० लि०
1,593	U19129WB1969PTC27617	टिप्पी यूनिवर्सल (लेदर) प्रा० लि०
1,594	U65993WB1985PLC38601	त्रीथम सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी
1,595	U67120WB1995PLC73965	टॉबू फिनान्सियल सर्विसेज लिमिटेड
1,596	U28920WB1960PTC24500	तपनदास सतरामदास सन्स प्रा० लि०
1,597	U17118WB1995PTC71816	तांफेद वाणिज्य एण्ड विफनवेस्ट प्रा० लि०
1,598	U65993WB1994PLC61932	टॉपलाइन सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स(इण्डिया) लिमिटेड
1,599	U51109WB1996PTC81191	टॉपमोस्ट मर्चण्टलाइन प्रा० लि०
1,600	U45203WB1987PTC42353	टोपमोस्ट प्रोमोटेर्स प्रा० लि०
1,601	U51109WB1985PLC39035	ट्रान्टो होल्डिंग्स लिमिटेड
1,602	U26932WB1971PTC28068	टोरी सरमाइक्स एण्ड रेफरेक्टरेज प्रा० लि०
1,603	U72200WB1995PTC75132	टोटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रा० लि०
1,604	U01222WB1995PLC70813	ट्रान्सनेशन बयॉटेक लिमिटेड
1,605	U22122WB1959PTC24361	त्रीबेणी प्रकाशन प्रा० लि०
1,606	U65993WB1992PLC55327	त्रीकोड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

1,607	U74940WB1972PTC28543	त्रीगुण फिक्चर प्रा० लि०
1,608	U51109WB1996PTC78183	त्रीनेनी ट्रेडिंग प्रा० लि०
1,609	U67120WB1995PTC75107	त्रीशला कॉमर्शियल एण्ड फिनान्स प्रा० लि०
1,610	U51109WB1996PTC79056	त्रृष्णा सेल्स प्रा० लि०
1,611	U67120WB1985PLC38912	त्रीस्ता ब्रह्म्युत्र स्मॉल सेर्विसेस एण्ड
1,612	U66010WB1918PLC545	त्रीएशन इश्योरेस कम्पनी लिमिटेड
1,613	U26960WB1975PTC30274	ट्रोयास टेक्निशियन्स प्रा० लि०
1,614	U28993WB1974PTC29199	टू-टेम मेटल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
1,615	U15312WB1995PLC73775	टेवन्टि फर्स्ट सेंचुरी राइस एण्ड एगो प्रा० लि०
1,616	U51909WB1996PTC79906	टयकून मर्चण्ट्स प्रा० लि०
1,617	U63031WB1987PTC42927	टायर ट्रेडर्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा० लि०
1,618	U24299WB1987PLC42468	यू पी एगो कैमिकल्स लिमिटेड
1,619	U24222WB1984PLC37795	अल्ट्रागिल्ड इण्डिया लिमिटेड
1,620	U45200WB1987PTC42325	ऊमा प्रोपर्टीज प्रा० लि०
1,621	U70109WB1987PTC42692	अमन होल्डिंग्स प्रा० लि०
1,622	U65992WB1972PTC28440	उमेश बेनीफिट स्किम्स प्रा० लि०
1,623	U22219B1970PTC27808	उमेश प्रेस प्रा० लि०
1,624	U65993WB1987PLC42818	अनिदेव फिनान्स इण्डिया लिमिटेड
1,625	U63020WB1997PTC85129	यूनिक्रोन ट्रेवल सर्विसेज प्रा० लि०
1,626	U70109WB1987PTC42826	यूनिक एपाट्रमेंट मेकर्स प्रा० लि०
1,627	U51397WB1947PTC16124	यूनियन लेबोरेटरी प्रा० लि०
1,628	U70101WB1952PTC20774	यूनियन टेक्स्टाइल क्रोम इण्डिया प्रा० लि०

1,629	U99999WB1972PTC28437	यूनाइटेड डक्टाइल कार्टिंग्स प्रा० लि०
1,630	U99999WB1971PTC28046	यूनाइटेड इक्नॉमिक इन्वेस्टमेंट पूल प्रा० लि०
1,631	U24129WB1965PTC26709	यूनाइटेड फर्टिलाइजर प्रा० लि०
1,632	U01119WB1913PLC2442	यूनाइटेड फ्लोर गिल्स कम्पनी लिमिटेड
1,633	U34300WB1925PLC05230	यूनाइटेड मोटर वर्क्स कम्पनी लिमिटेड
1,634	U18102WB1987PTC42525	यूनाइटेड प्रोसेसिंग प्रा० लि०
1,635	U99999WB1972PTC28591	यूनाइटेड सेविंग्स एण्ड फिनांस कम्पनी प्रा० लि०
1,636	U51909WB1969PTC27635	यूनाइटेड स्क्रैप प्रोसेसिंग प्रा० लि०
1,637	U24241WB1969PLC27431	यूनाइटेड स्मॉल रकेल सोप मैनुफैक्चर्स प्रा० लि०
1,638	U21023WB1960PTC24722	यूनिर्वसल बुक्स बाइन्डर्स प्रा० लि०
1,639	U24121WB1960PTC24541	यूनिर्वसल फर्टिलाइजर कम्पनी प्रा० लि०
1,640	U28999WB1977PLC30940	यूनिर्वसल इंडस्ट्रीज एण्ड कॉटॉन भित्स लिमिटेड
1,641	U70109WB1951PTC19856	यूनिर्वसल सनिटरीय इंजीनियर्स प्रा० लि०
1,642	U29197WB1990PTC49597	यूनिक फिल्टर प्रा० लि०
1,643	U70101WB1986PLC41482	अर्बनबोर्ड आर्किटेक्ट्स लिमिटेड
1,644	U45201WB1975PLC30289	उर्वसि कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
1,645	U50200WB1995PTC75993	यू-टेक ऑटो सर्विसेज प्रा० लि०
1,646	U65923WB1992PTC56516	उत्तराल क्रेडिट एण्ड कॉमर्स प्रा० लि०
1,647	U24229WB1998PTC86932	उत्कर्म पेंट्स प्रा० लि०
1,648	U28999WB1987PTC42275	वी. एच. वेयर्स इण्डिया प्रा० लि०
1,649	U65992WB1976PTC30740	वी.एस. इन्वेस्टमेंट एण्ड वीत स्किम प्रा० लि०
1,650	U63090WB1989PTC46035	वैकेशन प्लानर्स इण्डिया प्रा० लि०

1,651	U35123WB1985PTC39644	वद्धयार बोटस एण्ड मैरिन्स प्रा० लि०
1,652	U51909WB1999PTC88914	वागदी इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
1,653	U29299WB1951PTC19661	वर्मा कुची सप्ललाई इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०
1,654	U51909WB1949PTC17762	वसन्त क्रोफ़ा प्रा० लि०
1,655	U74210WB1989PTC46879	वसुधा डेवलपर्स प्रा० लि०
1,656	U15491WB1994PLC66198	वसुधा फूड प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड
1,657	U85200WB1934PLC8127	वैक्स-इंस्टिट्यूट लेबोरेटरी लिमिटेड
1,658	U65993WB1989PTC46548	वीपी होल्डिंग्स प्रा० लि०
1,659	U32201WB1960PTC24875	वेनस इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,660	U51109WB1996PTC79174	वेनस पॉलिमर्स प्रा० लि०
1,661	U65993WB1977PLC31186	वेरोना कॉमर्शियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट
1,662	U99999WB1983PTC35955	विब्रयोर रेसोर्स प्रा० लि०
1,663	U65921WB1988PLC45475	विक्टर डेवलपमेंट लिमिटेड
1,664	U27109WB1966PTC26863	विक्टर स्टील सेल्स प्रा० लि०
1,665	U70109WB1995PTC75657	विदुला प्रोमोटर्स प्रा० लि०
1,666	U70101WB1971PLC28102	विजय ब्रेवराइज लिमिटेड
1,667	U00000WB1946PLC13271	विजय पेपर क्रोफ़ा लिमिटेड
1,668	U15491WB1959PTC24318	विजोय आयरन प्रा० लि०
1,669	U65999WB1995PLC75588	विकाश फिनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
1,670	U29120WB1972PLC28401	विकरम स्टील एण्ड एलायज लिमिटेड
1,671	U26103WB1989PTC46700	विनायक कन्टेनर्स प्रा० लि०
1,672	U45202WB1998PTC86948	विनायक डेवलपर्स एण्ड मैनुफैक्चर्स

1,673	U51909WB1996PTC79920	विन्ध्यवासिनि कॉमर्शियल प्रा० लि०
1,674	U15491WB1995PTC72118	लोरेन टी कम्पनी प्रा० लि०
1,675	U74140WB1998PTC87693	यरयूअल क्रेडिट प्रा० लि०
1,676	U51909WB1999PLC48358	विशाल फार्मस लिमिटेड
1,677	U70101WB1995PTC75289	विश्राम इन्वेस्टमेंट्स प्रा० लि०
1,678	U65993WB1983PTC35767	वीएमडी फिनान्साएण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि०
1,679	U51103WB1961PTC25214	वॉल्कन इंटरट्रीज प्रा० लि०
1,680	U72200WB1996PTC76932	वीआर नेटवर्क प्रा० लि०
1,681	U51909WB1947PTC15502	डब्लू एस क्रेजवेल एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
1,682	U51109WB1995PTC69067	वाह्येगुरु कॉमर्स प्रा० लि०
1,683	U91397WB1989PTC45934	वाकरमिंग फार्मसियायुटेवल्स प्रा० लि०
1,684	U24111WB1984PLC37784	देवरले सिलेन्डर्स लिमिटेड
1,685	U65999WB1992PTC57140	वेल्कम कॉमर्शियल फिनान्स लिमिटेड
1,686	U65993WB1993PLC57604	वेलफेयर इकोनॉमिक एण्ड क्रेडिट (इण्डिया) लिमिटेड
1,687	U65999WB1993PLC57695	वेलफेयर इकोनॉमिक विफन्वेस्ट इण्डिया लिमिटेड
1,688	U65993WB1986PLC41220	वेल फियूचर इकोनॉमिक फिनान्स लिमिटेड
1,689	U67120WB1993PLC59621	वेलफेयर कन्सेप्स एण्ड फिनान्स लिमिटेड
1,690	U51909WB1997PTC83610	वेन्डर मार्केटिंग प्रा० लि०
1,691	U22122WB1987PTC42569	वेस्ट बंगाल लॉ रिपोर्टर प्रा० लि०
1,692	U22219WB1971PTC28061	वेस्ट बंगाल लिटेरेचर प्रिन्टर्स प्रा० लि०
1,693	U73200WB1973PLC28766	वेस्ट बंगाल सुडिमा हेवीमेटल एण्ड
1,694	U63032WB1985PTC39018	वेस्ट ओरिएन्ट शिपिंग कम्पनी प्रा० लि०

1,695	U61100WB1981PTC33813	वेस्ट दर्ज शिपिंग सर्विसेज प्रा० लि०
1,696	U35921WB1971PTC28043	वहीलर साइकल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
1,697	U51909WB1995PTC69330	विन्टर डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा० लि०
1,698	U31300WB1962PTC25606	वायर बेल्ट प्रा० लि०
1,699	U67120WB1995PLC73514	एक्सईडीडी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
1,700	U26960WB1995PLC73570	एक्सईडीडी ग्रैनाइडर्स लिमिटेड
1,701	U51109WB1996PTC78344	एक्सआईटीआईजी राफलायर्स प्रा० लि०
1,702	U45201WB1993PTC58826	योकोगावा बिल्डर्स एण्ड कंसल्टेशन
1,703	U99999WB1974PTC29196	वॉल्मो कम्पनी प्रा० लि०
1,704	U70101WB1986PTC40641	जेवररान्स प्रा० लि०
1,705	U24246WB1997PTC83159	जैन ब्यूटी केयर प्रा० लि०
1,706	U74940WB1997PTC83158	जैन कलर फोटोलेब प्रा० लि०
1,707	U51109WB1995PLC73919	जैन रासकास्ट कम्पनी लिमिटेड
1,708	U67120WB1996PTC79463	जेयूस इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०
1,709	U51909WB1996PTC78339	जिष्को मार्केटाइल प्रा० लि०
1,710	U29150WB1988PTC44133	जौडिक लिफ्ट प्रा० लि०
1,711	U51397WB2001PTC93610	जयरस मार्केटिंग प्रा० लि०

डी. बन्धोपाध्याय
कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भूषण सिक्कूरिटीज़ एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 24 अप्रैल 2008

सं. आर.ओ.सी./560(3)/387--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त तारीख के तीन मास के अवसान पर मैसर्स भूषण सिक्कूरिटीज़ एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम उसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956

और

निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद - 500 195 दिनांक: 22-11-2007

स0: आर ए पी/एफ टी एस/ 560(3) / 2005 - कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 3 तथा भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-09-2000 के पत्र सं: 1/5/2000 सी ए ल वी के परिपत्र सं0:10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियों विघटित कर दी जाएगी.

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम	निगमन का तिथि
01.	01-11585	अग्रसेन सिन-टेक्स प्राैवेट लिमिटेड	10.08.1990

डी. रामकृष्ण
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों

के विषय में

कोयंबतूर — 641005, दिनांक 30.04.2008

सं. आरओसी/सीभीई/ 560:5द्ध /2007 — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 5द्ध के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यहां निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टार ऑफ कम्पनिज के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियों विधित्त कर दी जाएंगे

625	5	अन्नूर भारतजोती मिल्स लिमिटेड
626	22	कोयंबतूर जनसहायम प्रइवेट लिमिटेड
627	356	अमभिका बस को प्रइवेट लिमिटेड
628	1022	अन्नै सपिर्निंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
629	5060	आलविन कोकनट प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
630	5166	सारनी स्टील्स प्रइवेट लिमिटेड
631	5179	आप्पील ग्रनैट एक्सपोर्ट प्रइवेट लिमिटेड
632	5201	वि.एस.पी. सेक्युरिटी सर्विस्स प्रइवेट लिमिटेड
633	5206	श्रीतम फ्रागो लिमिटेड
634	5210	प्रजा चिटफन्ड्स प्रइवेट लिमिटेड
635	5231	श्री गणेश ट्रान्सपोर्ट प्रइवेट लिमिटेड
636	5252	जेम डिसपले सिस्टम्स प्रइवेट लिमिटेड
637	5267	काडेसवर गारमेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
638	5281	आलविन टेक्सटैल्स स्पेर प्रइवेट लिमिटेड
639	5292	सरस्वती नटराज सपिन्नअरस प्रइवेट लिमिटेड
640	5305	पडियूर टेक्सटैल्स प्रइवेट लिमिटेड
641	5316	श्री विरुसका विनायक सपिन्नअरस प्रइवेट लिमिटेड
642	5350	एसपील चिटस प्रइवेट लिमिटेड
643	5355	के.के.जी. फाबरीक्स प्रइवेट लिमिटेड
644	5357	इडप्पाडी सपिन्नींग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
645	5359	श्री कुमारन एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
646	5374	ली ब्रतरस ट्रावल्स अन्ड टेड्स प्रइवेट लिमिटेड
647	5386	यमुना ग्रानैट प्रइवेट लिमिटेड
648	5405	सिवशक्ती केमिकल्स प्रइवेट लिमिटेड

649	5409	के.आर. अन्ड शन्स ज्वेल्लरस प्रइवेट लिमिटेड
650	5412	सिवशक्ती मेगनिसीया रिफाकटरी प्रइवेट लिमिटेड
651	5421	पेरियार टेक्सटाइल्स मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
652	5424	बलुडयमन्ड एनजिनियरस अन्ड केमिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
653	5434	वेंकट टेक्स्टाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
654	5468	तियच्चेगोड टेक्स्टाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
655	5475	राजराजन कन्सट्रक्सन्स प्रइवेट लिमिटेड
656	5482	आकाष श्री फाषन गर्मेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
657	5523	आर.पि.जे. काटटन सपिन्नींग मिल प्रइवेट लिमिटेड
658	5532	बेस्ट ट्रेडिंग कम्पनी (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
659	5538	कोम्बीटेक्स एन्जिनियरिंग कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
660	5543	रियल वर्त डी मेगनम इन्डिया लिमिटेड
661	5550	विसाल कायर प्रइवेट लिमिटेड
662	5582	रासिपुरम स्टाच अन्ड सागो एफ्लुयन्ट ट्रीटमेन्ट लिमिटेड
663	5584	अरन स्टोन्स प्रइवेट लिमिटेड
664	5606	आर.एम.आर टेक्स्टाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
665	5645	नागप्पा टेक्स्टाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
666	5646	श्री सतीष मेसिनरीस प्रइवेट लिमिटेड
667	5680	पी.आर.वी. गिरी चिट फन्ड प्रइवेट लिमिटेड
668	5685	अन्नपुरनेषवरी एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
669	5720	लिन्क्स रिसॉर्ट रिसोर्स (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
670	5721	क्रेनिच होटल्स अन्ड रिसोर्स (इन्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
671	5736	ओमकार कोटिंग प्रइवेट लिमिटेड
672	5762	सारु कलर अन्ड आरट हउस प्रइवेट लिमिटेड
673	5804	कोयंबतूर कुलिंग टवरस प्रइवेट लिमिटेड
674	5810	अन्नैलक्क्ष्मी एक्सपोर्ट प्रइवेट लिमिटेड
675	5813	चरकन्नु कन्स्ट्रक्सन्स प्रइवेट लिमिटेड
676	7083	अलगुसुरया आर्चार्ड्स प्रइवेट लिमिटेड
677	7093	सफिया लेर्तस प्रइवेट लिमिटेड
678	7165	के.एस.एन.एलक्को-वेकम प्लास्टिक मेटालिसिंग प्रइवेट लिमिटेड
679	7171	हसमी प्रपर्टीस लिमिटेड
680	7173	अलगुसुरया टेक्स्टाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
681	7183	श्री सरवनवेल प्रपर्टी प्रमोर्टस प्रइवेट लिमिटेड

682	7250	कतिरवन अगरो इन्टगरेटेड फाम इन्डस्ट्रिस प्रडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रइवेट लिमिटेड
683	7255	इन्डरदनुष हिल रिसार्ट प्रइवेट लिमिटेड
684	7257	ए.वी.एन. अग्रो अन्ड पेप्पर प्रडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
685	7258	जेएफ फुड्स मार्केटिंग प्रइवेट लिमिटेड
686	7259	एस.डि.एमण टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
687	7261	टि.एस.आर.अग्रो फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
688	7268	कासमास लेर्सस प्रइवेट लिमिटेड
689	7287	राजमुरुगन स्पिन्निंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
690	7292	श्री कलैसेल्वी टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
691	7298	ऐसवरयलक्ष्मी फुड ब्राडवट प्रइवेट लिमिटेड
692	7308	ढनसुरया अप्पेरल्स प्रइवेट लिमिटेड
693	7317	श्री वेंखटेस्वरा कोटस प्रइवेट लिमिटेड
694	7323	मार टिमोटियस अग्रो फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
695	7333	इज्ट अन्ड एन कम्युनिकेणन्स प्रइवेट लिमिटेड
696	7335	अकिलान्डम टेक्स टाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
697	7344	कोवै रोमा रिसार्टस फार्म हउस प्रइवेट लिमिटेड
698	7347	एम.आर.पी. केमिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
699	7351	फुल मार्क गार्मेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
700	7353	सिरुवानी आठठोमोबैल्स लिमिटेड
701	7356	राजगणपती ट्रान्स अन्ड कारगो प्रइवेट लिमिटेड
702	7358	प्रवीन विजय एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
703	7577	पिच्चम्माल टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
704	7580	आम अन्ड एम एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
705	7806	एस.जे मेषिन टुल्स प्रइवेट लिमिटेड
706	7808	आरना अग्रो इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड
707	7810	पीजीएस इल्क्ट्रीकल्स प्रइवेट लिमिटेड
708	7814	कन्तीरमाट्टम चिटस प्रइवेट लिमिटेड
709	7828	रमया टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
710	7844	तरुवम टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
711	7849	कुरुमन्तुर टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
712	7851	सी वी एस आठठो प्रेस्सिंग इन्डस्ट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
713	7856	टोरान्डो एन्टरप्राइस प्रइवेट लिमिटेड
714	7859	एजीएस कंप्यूटर अन्ड सोल्युसन्स प्रइवेट लिमिटेड

715	7865	राज सालिनी फामर्स प्रइवेट लिमिटेड
716	7872	अमरावती पम्पस प्रइवेट लिमिटेड
717	8031	इन्धु पिगनेष फामर्स प्रइवेट लिमिटेड
718	8032	दनविषा कम्प्युटरस प्रइवेट लिमिटेड
719	8036	अखषया होम अप्लैसन्स प्रइवेट लिमिटेड
720	8039	कुमरपालैयम टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
721	8040	श्री सारदा परमेश्वरी स्टील इन्डस्ट्रीस लिमिटेड
722	8048	डेल्टा अग्रो इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
723	8053	इन्नोवेटल इन्टरनेटवर्किंग (मार्केटिंग) इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
724	8060	वी.के.के.वी. टेक्सटाइल्स प्रइवेट लिमिटेड
725	8076	सुक्का स्टील रोलिंग मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
726	8078	जुबिली एम्बरायडरीस प्रइवेट लिमिटेड
727	8079	केज इन्टरनेशनल प्रइवेट लिमिटेड
728	8082	का-उचु इन्जिनियअरस प्रइवेट लिमिटेड
729	8089	के.एम.ए. डेसिको प्राडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
730	8100	जयमारुती काठठन मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
731	8102	इन्टरनेट कोरियरस प्रइवेट-लिमिटेड
732	8107	कोयंबतूर जेनरल युटिलिटी सर्वीस प्रइवेट लिमिटेड
733	8111	विन्दाक्स गार्मेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
734	8116	पामणन स्टील्स प्रइवेट लिमिटेड
735	8117	जी.के.जी जेन्ल एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
736	8127	शिवाम्बीका पेप्परस अन्ड पाकेजींग्स प्रइवेट लिमिटेड
737	8248	शिवाम्बीका कार्टन्स प्रइवेट लिमिटेड
738	8252	अनामिका कामपेक्टींग प्रइवेट लिमिटेड
739	8259	एवरगेयन अग्रो फामर्स लिमिटेड
740	8260	मेटको बिल्डिंग मेटिरियल एजन्सी प्रइवेट लिमिटेड
741	8265	इएसकेवी रोडवेस प्रइवेट लिमिटेड
742	8305	बिग-विग कम्प्युटर्स प्रइवेट लिमिटेड
743	8345	कालिब्री अक्स फाषन्स प्रइवेट लिमिटेड
744	8361	सिल्वर कैन मेटल कोटिंग्स प्रइवेट लिमिटेड
745	8385	श्री आतिवरागन कन्सट्रक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
746	8419	वेंखटरमणा अलायस प्रइवेट लिमिटेड
747	8440	सेरिडान निटस प्रइवेट लिमिटेड

748	8446	वी.ए. अप्पेरल्स प्रइवेट लिमिटेड
749	8500	अमरिन्ड आरगानिक्स प्रइवेट लिमिटेड
750	8516	जुपीटर सेक्युरिटी सर्वीस्स प्रइवेट लिमिटेड
751	8517	कोल्मेन क्युरेटिक्स प्रइवेट लिमिटेड
752	8519	मिल्का शफट ड्रिक्स प्रइवेट लिमिटेड
753	8521	सिवकामी होटल्स प्रइवेट लिमिटेड
754	8545	टेक्स सिटी होटल्स प्रइवेट लिमिटेड
755	8558	के.एम.पी. डयरी इन्डस्ट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
756	8568	जेएसएस कन्सट्रक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
757	8571	विष्णु प्रिया ज्युट काठठन फाब्रिक्स लिमिटेड
758	8577	वीजयराजा फूड अन्ड स्पैस्स एक्स्ट्राक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
759	8585	पेरियसोला टी फाक्टरी प्रइवेट लिमिटेड
760	8597	पान्की सफट ड्रिक्स प्रइवेट लिमिटेड
761	8601	हैलेन्ड टी फाक्टरी प्रइवेट लिमिटेड
762	8605	इन्फो सक्स्स कम्प्युटर्स प्रइवेट लिमिटेड
763	8606	मोन्शन बिसनस इन्फोटेक प्रइवेट लिमिटेड
764	8619	पी के एस एर्त मुवर्स प्रइवेट लिमिटेड
765	8632	अलगु सिस्टमस प्रइवेट लिमिटेड
766	8649	आर.सी टेक्स प्रइवेट लिमिटेड
767	8653	आर.आर.के. है-टेक फाब्रिक्स एक्सपोर्टर्स प्रइवेट लिमिटेड
768	8660	कान-लिंक टेलिकम इन्डिया प्रइवेट लिमिटेड
769	8713	जे अन्ड पी.डबिलयु इन्टरनेशनल प्रइवेट लिमिटेड
770	8717	रिप्राडक्टिव हेल्थ इन्स्टीटयुट प्रइवेट लिमिटेड
771	8724	के.एम. डयरी इन्डस्ट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
772	8725	सेवराय फलैईंग क्लब लिमिटेड
773	10029	श्री वासपी सेल्स अन्ड एकनामिक मार्केटिंग कायंबत्तुर प्रइवेट लिमिटेड

पी. राजगोपालन
कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. कं.सं./क.र.ब/तस/560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिए गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	18454	मैसर्स यशस्वी एग्रिको प्राईवेट लिमिटेड
2.	18903	मैसर्स बिजनेस इन्फोरमेशन एण्ड गार्डिन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
3.	19005	मैसर्स माइस्टाम्प मार्किंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	19149	मैसर्स इन्फैन्ट क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	19851	मैसर्स ठन्डुर प्रॉपर्टी प्राईवेट लिमिटेड
6.	19873	मैसर्स एस. एन. आर. ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
7.	19896	मैसर्स सुरुचि फिन्टेड प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. 560(5)/एसईएस-2005/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	29921	मैसर्स आइडियोलोजिक्स कम्प्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

सं. 560(3)/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिए गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	33231	मैसर्स आध्यान इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	37124	मैसर्स मेडुस्लिंक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	15418	मैसर्स द्वारकामी फार्म्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	1716	मैसर्स कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कांफेरेशन लिमिटेड
5.	43429	मैसर्स लोकापुर लाइमस्टोन माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	28734	मैसर्स इस्मार्ट टर्नकी साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	37573	मैसर्स मांडेन कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	25276	मैसर्स प्रशांथ प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
9.	41865	मैसर्स क्वांट कनेक्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	34289	मैसर्स साई रेडीवियर प्राईवेट लिमिटेड
11.	43804	मैसर्स निसर्ग ट्रेवल एजेंसी (बेंगलूर) प्राईवेट लिमिटेड
12.	43058	मैसर्स जस्प आईटी साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	44258	मैसर्स टीएलसी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	31496	मैसर्स रेनुका रियल इस्टेट एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	33410	मैसर्स चंद्रहास रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	33409	मैसर्स ज्योस्तना प्रॉपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
17.	33419	मैसर्स उमांशर इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
18.	33290	मैसर्स जैन विलास प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कंपनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 31st July 2007

No. A-19014/12/2007-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training order No. 5/6/2007-CS.I (Desk) dated 4th July, 2007 the President is pleased to appoint Shri Manoj Srivastava (DoB : 05-11-1963) (CSL No. 5787), a regular Section Officer of CSS cadre of Ministry of Urban Development to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 31st July, 2007 (F.N.) until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 11th October 2007

No. A-19014/18/2007-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training order No. 5/17/2007-CS.I (Desk) dated 27.09.2007 the President is pleased to appoint Shri S. S. Kataria (SC) (DoB : 01-05-1965) (CSL No. 5898), a regular Section Officer of CSS cadre of Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 10th October, 2007 (F.N.) until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New

Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 24th October 2007

No. A-19011/5/2007-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Sinha, IDAS (91) as Joint Secretary (Director level) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Office of the Union Public Service Commission for a period of five years w.e.f. the forenoon of 24th October, 2007 or until further orders, whichever event takes place earlier.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 29th October 2007

No. A-19014/21/2007-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Rohit Bhardwaj, ISS (98) as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on central deputation for a period of four years w.e.f. the forenoon of 26th October, 2007 or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 1st May 2008

No. DP/Pers.I/2008/0083/3/19/2001—Services of Shri Pankaj Saxena, IPS (JK : 1992) DIG, Central Bureau of Investigation have been placed at the disposal of Government of Jammu & Kashmir with effect from the afternoon of 11.04.2008 on completion of deputation tenure at Centre.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 23rd April 2008

No. 2/27/07-Admn./9720—The competent authority hereby appoints Shri Vineet Anand, Personal Assistant in the Commission, as Private Secretary, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on ad hoc basis with effect from the forenoon of 22.04.2008 for a period of one year or till further order, whichever is earlier.

2. Appointment of Shri Vineet Anand to the post of Private Secretary is purely temporary and on ad hoc basis under rule 3(2) of the Central Vigilance Commission (Private Secretary) Recruitment Rules, 2006 and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

SATVINDER SINGH
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 23rd April 2008

No. O.II.3597/2007/Pers.I—Consequent on attaining the age of superannuation Shri S. I. S. Ahmed, IPS (WB : 70) relinquished the charge of the post of Director General, CRPF in the afternoon of 31.03.2008. Accordingly, the officer has been struck off the strength of CRPF w.e.f 31.03.2008 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers.I)

The 24th April 2008

No. O.II.3604/2008/Pers.I—The Govt. of India appointed Shri V. K. Joshi, IPS (BH : 71) as Director General in CRPF in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the date of his assuming the charge of the post and till the date of his superannuation or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Director General CRPF in the afternoon of 31.03.2008.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers.I)

The 29th April 2008

No. O.II.4212/08-PF-Pers-I—Consequent on acceptance of his notice dated 11.03.2008 for resignation from Government service by the competent authority, Shri Sunil Kumar, Dy. Commandant (IRLA-4212) of 75 Bn. CRPF, has relinquished his post on 05.04.2008 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 05.04.2008 (AN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

No. O.II.2420/87-Pers-I—Consequent on acceptance of his notice dated 10.01.2008 for voluntary retirement from Government service, Shri Ashok Bali, Commandant (IRLA-2676) of 119 Bn. CRPF, relinquished the charge of his post on 15.04.2008 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force with effect from 15.04.2008 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 29th April 2008

No. E-16015/(2)/2/2007/Pers.I/116—The President is pleased to appoint the following Sr. Commandants on regular

promotion to the rank of Additional Deputy Inspector General in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- plus Rs. 400 Special pay in CISF with effect from the date noted against each :—

Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Additional Deputy Inspector General on regular Basis
Shri G. S. Nair	RTC Barwaha	01.04.2008

Sd/- Illegible
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/2/2007/Pers.I/117—The President is pleased to appoint the following Inspectors/Fire on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/Fire in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Asstt. Commandant/Fire on Regular Basis
	S/Shri		
1.	Kumud Chandra Patel	FSTI Nisa Hyderabad	27.03..2008
2.	Dhyan Singh	SSP Salem	13.03..2008

Sd/- Illegible
Director General

No. E-16015/(2)/2/2007/Pers.I/118.—The President is pleased to appoint the following Inspectors (Min.) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/JAO in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Asstt. Commandant/JAO on Regular Basis
	S/Shri		
1.	Ajaya Kumar Barick	NISA Hyderabad	31.03..2008
2.	P. P. K. Sinha	ONGC Nazira	30.03.2008

Sd/- Illegible
Director General

The 1st May 2008

No. E-28017/1/Noti./2008/Pers.II/876.—Consequent upon his voluntary retirement from Govt. Service under rule-48 A

of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri Mahesh Kumar, relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant/Fire, CISF Unit, SSTPS Shaktinagar in the forenoon of 07.04.2008.

Sd/- Illegible
Director General

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL
(CIVIL AUDIT) RAJASTHAN

Jaipur, the 1st May 2008

No. Admn. I/Au/P-13044/2008/50—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Audit Officers to the post of Sr. Audit Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	Rajendra Singh Lather	01.01.2008
2.	Damodar	01.01.2008
3.	Kamal Kishore Mathur	01.01.2008
4.	Ashok Kumar Bhandari	01.01.2008
5.	Pit Ram	01.01.2008
6.	Diler Singh	01.01.2008
7.	Het Ram Verma, (SC)	01.01.2008
8.	Chand Behari Mathur	01.01.2008

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2008—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Asstt. Audit Officers to the post of Audit Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	Ladu Ram	19.11.2007
2.	Keshri Chand Tanwar	28.12.2007
3.	Jag Mohan Garg	28.12.2007
4.	Narayan Prasad Sharma	01.01.2008
5.	Bhanwar Lal Tanwar	01.01.2008

1	2	3
	S/Shri	
6.	Mahendra Kumar Sharma	01.01.2008
7.	Dalip Singh	01.02.2008
8.	Rajendra Prasad	03.03.2008
9.	Dushyant Kumar Sharma	25.04.2008

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

No. Admn. I/Au/P-13044/2008—The Pr. Accountant General (Civil Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Section Officers to the post of Asstt. Audit Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in an officiating capacity on the probation of two years till further orders from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	Rajendra Sirohia	19.11.2007
2.	Smt. Amarjeet Nanara	19.11.2007
3.	Amar Singh Jangir	19.11.2007
4.	Nathu Lal Sharma	01.01.2008
5.	Manjindra Singh Atwal	01.01.2008
6.	Anand Chand Sharma	01.01.2008
7.	Alok Kumar Goyal	01.01.2008
8.	Rajesh Sanduja	01.01.2008
9.	Pradeep Kumar Kankani	07.01.2008
10.	Vishnu Prasad Gupta	22.01.2008
11.	Jag Mohan Rajora, (SC)	01.02.2008
12.	Pooran Singh	01.02.2008
13.	Rajendra Prasad Jangir	03.03.2008
14.	Bhagwan Dass	03.03.2008
15.	Mukesh Dhingra	25.04.2008

V. K. JAIN
Sr. Audit Officer/Admn. I.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
LABOUR BUREAU

Shimla-171 004, the 30th April 2008

No. 5/1/2008-C.P.I.—The All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001 = 100 increased

by 2 points and stood at 137 (one hundred & thirtyseven) for the month of March, 2008.

R. K. GUPTA
Jt. Dir.

DEPARTMENT OF COMMERCE
(SUPPLY DIVISION)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES &
DISPOSALS

New Delhi-110 001, the 21st April 2008

No. A-32013/1/2006-A.6—The President is pleased to appoint the following officers of Senior Time Scale [Second Grade (Non-Functional)] of Indian Inspection Service (Group 'A') to the Junior Administrative Grade of the Service, as Director of Quality Assurance in the scale of pay of Rs. 14,300-400-13,300/- with effect from the date of taking over of charge mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge
	S/Shri	
1.	R. Karupiah	24.01.2008
2.	Paritosh Singhal	04.02.2008
3.	R. S. Pandey	24.01.2008
4.	H. R. Sharma	11.02.2008
5.	R. K. Aggarwal	28.01.2008
6.	R. D. Shivsharan	31.01.2008
7.	S. C. Mondal	29.01.2008

2. The promotions ordered above are provisional and subject to the outcome of the Contempt Petition O.A. No. 889/2004, filed by Shri S. C. Mondal and O.A. No. 347/2005, filed by Shri Ashisan Tirkey in the Hon'ble Tribunal, Kolkata bench and other petitions, if any, pending in any High Court/CAT.

K. K. SAXENA
Dy. Dir. (Admn.)
for Dir. Genl. of Supplies & Disposals

MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 28th April 2008

No. 19012/449/2008-Estt.APP—It is informed with profound sorrow that Smt. Sushama Jagdish Kapoor Assistant Administrative Officer, expired on the evening of 06.03.2008, as such her name has been struck off the strength of the Indian Bureau of Mines.

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer

No. A-19012/469/2008-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri A. S. Rathor.

Superintending Draftsman is promoted to the post of Assistant Drawing Officer in Indian Bureau of Mines, Ajmer w.e.f. 28.03.2008 (F/N).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer
for Controller General

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
O/o THE DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY

New Delhi-110 003, the 23rd April 2008

No. A-32014/AO/3/2006-E.I./8911—The Director General of Meteorology has appointed the under mentioned Superintendents in India Meteorological Department as Administrative Officers (scale Rs. 6,500-200-10,500/-) in an officiating capacity with effect from the dates indicated against their names below and until further orders :—

Sl. No.	Name	Dates from which appointed as Administrative Officer
1.	Shri S. K. Karvande	01.01.2008
2.	Shri Patrick Budha	03.03.2008

R. B. THAPA
Meteorologist (Establishment)
for Dir. Genl. of Meteorology

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 15th April 2008

Ref. No. PD/11(2)/2007-R-III/2008/3224—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Ajitha Thariyan, Assistant to officiate as Assistant Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 17.01.2008 (FN) to 29.02.2008 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 16th April 2008

Ref. No. PD/6(2)/2008-R-III/2008/3275—Controller, BARC appoints Smt. Devaki S. Shetty, Assistant BARC, Mumbai to officiate as Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- at BARC, Mumbai w.e.f. the forenoon of 01st April, 2008 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 17th April 2008

Ref. No. PD/12(5)/2001-R-III/2008/3327—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Nilofar Khan,

Senior Hindi Translator, as Assistant Director (OL) in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 18.02.2008 (FN) to 19.03.2008 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 22nd April 2008

Ref. No. PD/4(4)/2005-R-III/2008/3393—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Raje Urs Ravindra Kumar, Private Secretary (Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary in Rare Materials Project, Mysore on regular basis with effect from the forenoon of 01.04.2008, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

Ref. No. PD/11(1)/2008-R-III/2008/3425—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Devaki S. Shetty, Assistant, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 14.01.2008 (FN) to 31.03.2008 (AN).

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 24th April 2008

Ref. No. PD/4(1)/2006-R-III/2008/3542—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. P. George, Assistant Accounts Officer, DPS, Mumbai to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- at BARC, Mumbai with effect from the forenoon of 10th April, 2008 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 31st March 2008

No. 21/9(1)/2008-CCS/04—The President is pleased to appoint Smt. Yashodhara Yogesh, Senior Accounts Officer (Scale of pay of Rs. 8,000-13,500/-), Directorate of Construction, Services and Estate Management, Mumbai of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10,000-15,200/-) in the same Centre on ad hoc basis with effect from 28.01.2008 (FN) to 29.02.2008 (AN).

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 30th April 2008

No. AEC-1(2)/08/2929—The President is pleased to decide that paragraph 3(a) of the Government of India

Resolution No. 13/7/58-Adm. dated March 1, 1958 (as amended from time to time) constituting the Atomic Energy Commission be amended to read as follows :

Paragraph 3(a)

The Commission shall consist of full time and part time members and the total number of members shall not be less than three and not more than twelve.

2. Accordingly, a copy of the Government Resolution No. 13/7/58-Adm. dated March 1, 1958, as now amended, is being forwarded herewith.

K. MURALIDHAR
Secy. to the Atomic Energy Commission

CONSTITUTION OF THE ATOMIC ENERGY COMMISSION

Resolution No. 13/7/58-Adm. of March 1, 1958, as amended by Note :—

- (i) No. DAE/C-1-H dt. March 6, 1962
- (ii) No. 3(5)/81-Admn.I dt. January 24, 1981
- (iii) No. 3(5)/81-Admn.I dt. October 13, 1983
- (iv) No. AEC-1(2)84 dt. March 20, 1984
- (v) No. AEC-1(2)86 dt. March 17, 1986
- (vi) No. AEC-1(2)04 dt. June 14, 2004
- (vii) No. AEC-1(2)04/24 dt. December 27, 2004, and
- (viii) No. AEC-1(2)04/2929 dt. April 30, 2008.

The Department of Atomic Energy was established in August, 1954 and since then research and development in the peaceful uses of atomic energy have made important and rapid strides and a greatly expanded programme is envisaged for the future, in the course of which India should be able to produce all the basic materials required for the utilisation of atomic energy and build a series of atomic power stations, which will contribute increasingly to the production of electric power in the country. These developments call for an organisation with full authority to plan and implement the various measures on sound technical and economic principles and free from all non-essential restrictions or needlessly inelastic rules. The special requirements of atomic energy, the newness of the field, the strategic nature of its activities and its international and political significance have to be borne in mind in devising such an organisation.

2. After careful consideration, the Government of India have decided to establish an Atomic Energy Commission with full executive and financial powers, modelled, more or less, on the lines of the Railway Board. This Commission will replace the Commission set up in the late Department of Scientific Research Notification No. F-402/DSR/48, dated 10th August, 1948, which is hereby cancelled.

3. CONSTITUTION OF THE COMMISSION

- (a) The Commission shall consist of full-time and part-time members and the total number of members shall not be less than three and not more than twelve.
- (b) The Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be the ex-officio Chairman of the Commission.
- (c) A member of the Commission shall be the Member for Finance, who shall also be ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy in financial matters.

4. FUNCTIONS

The Atomic Energy Commission shall be responsible.

- (a) for formulating the policy of the Department of Atomic Energy for the consideration and approval of the Prime Minister;
- (b) for preparing the budget of the Department of Atomic Energy for each financial year and getting it approved by Government; and
- (c) for the implementation of Government's policy in all matters concerning Atomic Energy.

5. Within the limits of the budget provision, approved by Parliament, the Commission shall have the powers of the Government of India, both administrative and financial, for carrying out the work of the Department of Atomic Energy.

6. CHAIRMAN

- (a) The Chairman in his capacity as Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be responsible under the Prime Minister for arriving at decisions on technical questions and advising Government on matters of atomic policy. All recommendations of the Commission on policy and allied matters shall be put up to the Prime Minister through the Chairman.
- (b) The Chairman shall have the power to overrule the other members of the Commission, except that the Member for Finance shall have the right to ask that any financial matter, in which he does not agree with the Chairman, be referred to the Prime Minister and the Finance Minister.
- (c) The Chairman may authorise any member of the Commission to exercise on his behalf, subject to such general or special orders as he may issue from time to time, such of his powers and responsibilities as he may decide.

7. MEMBER FOR FINANCE

The Member for Finance shall exercise the powers of the Government of India in financial matters concerning the

Department of Atomic Energy except in so far as such powers have been, or may in future be, conferred on or delegated to the Department.

8. The Commission shall have power to frame its own rules of procedure. The Commission shall meet at such times and places as may be fixed by the Chairman.

The 1st May 2008

No. AEC-1(1)08/2931—The President is pleased to reconstitute the Atomic Energy Commission (AEC) for the year 2008 as given below :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dr. Anil Kakodkar
Secretary to the Govt. of India,
Department of Atomic Energy | Chairman
(ex-officio) |
| 2. Shri Prithviraj Chavan
Minister of State,
Prime Minister's Office | Member |
| 3. Shri M. K. Narayanan
National Security Advisor | Member |
| 4. Shri T. K. A. Nair
Principal Secretary to the Prime Minister | Member |
| 5. Shri K. M. Chandrasekhar
Cabinet Secretary | Member |
| 6. Dr. D. Subba Rao
Finance Secretary &
Secretary to the Govt. of India,
Department of Economic Affairs | Member |
| 7. Shri Shiv Shankar Menon
Foreign Secretary | Member |
| 8. Shri R. C. Joshi
Secretary to the Govt. of India | Member
for Finance |
| 9. Prof. C. N. R. Rao
Honorary President,
Jawaharlal Nehru Centre
for Advanced Scientific Research,
Bangalore | Member |
| 10. Dr. M. R. Srinivasan
Former Chairman, AEC | Member |
| 11. Prof. P. Rama Rao
ISRO Dr. Brahm Prakash
Distinguished Professor | Member |
| 12. Dr. S. Banerjee
Director,
Bhabha Atomic Research Centre,
Mumbai | Member |

K. MURALIDHAR
Secy. to the Atomic Energy Commission

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 17th March 2008

No. A-32013/6/2007-E.II—The President is pleased to extend the promotion of the following Senior Airworthiness Officers to the grade of Deputy Director/Controller of Airworthiness on ad hoc basis from the date shown against their names in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- for a period of further six months or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Ad hoc period extended from
	S/Shri	
1.	P. K. Bhakta	24.01.2008
2.	K. Ramakrishna	26.01.2008
3.	B. C. Behra	19.01.2008

2. The President is also pleased to appoint Shri D. K. Das, Senior Airworthiness Officer to the grade of Deputy Director/Controller of Airworthiness on ad hoc basis with effect from 08.02.2008 (Forenoon) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Civil Aviation for a period of six months or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

MEENA SHARMA
Dy. Dir. of Admn.

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS
OFFICE OF THE CHIEF ARCHITECT (NR)
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 3rd March 2008

No. 27/86/91/CA(NR)/Estt./265-70—Shri Hukam Singh, Daftary of this office retires from Government service on attaining the age of superannuation with effect from 29.02.2008 (AN).

D. S. KAPOOR
Architect/L.O. to CA(NR)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
O/O REGISTRAR OF COMPANIES

New Delhi-110 019, the 6th May 2008

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies

No. ROC/DELHI/560(3)/Regular/467—Notice is hereby given pursuant to Sub section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	43451	M/s. Inremat Publications Private Limited
2.	154254	M/s. Infinite Softpro Private Limited
3.	140323	M/s. A. K. Compusolutions Private Limited
4.	110141	M/s. Springs Impex Private Limited
5.	71129	M/s. Shilpi Financial Services Private Limited
6.	143109	M/s. MRV Musics Private Limited
7.	91875	M/s. N. G. Power System Private Limited
8.	2491	M/s. Rural Trust Private Limited
9.	2505	M/s. Shri Jain Tractors and Auto Spares Private Limited
10.	140845	M/s. Golden Turtle Education and Careers Private Limited
11.	107975	M/s. A. A. Resource Development Support System Private Limited
12.	103347	M/s. Itil Online Private Limited
13.	54308	M/s. Hotline Couriers Private Limited
14.	26400	M/s. K. M. Agencies Private Limited
15.	67354	M/s. Aashikaash Exports Private Limited
16.	106875	M/s. Bbil TV Channel Private Limited
17.	119854	M/s. Rai Movies Private Limited
18.	9222	M/s. Vinay Rai and Company Private Limited
19.	46081	M/s. Icec India Private Limited
20.	51774	M/s. Usha Securities and Support Services Private Limited
21.	102107	M/s. S. S. Network Private Limited
22.	123587	M/s. Pemako Travels India Private Limited
23.	78591	M/s. Prahar Crescelease Private Limited
24.	88341	M/s. J. K. Software and Solutions Limited
25.	106758	M/s. Dillords Departmental Store Private Limited
26.	71673	M/s. Aram Sales Agencies Private Limited
27.	68888	M/s. Avertch Speciality Chemicals Private Limited
28.	80993	M/s. KLM Fin-man (India) Private Limited
29.	71121	M/s. Brilliance Holdings Private Limited
30.	71117	M/s. Starglow Capital Services Private Limited
31.	62115	M/s. Surkshit Overseas Private Limited

1	2	3
32.	72471	M/s. Zeus Communications Limited
33.	83344	M/s. Mulyankan Investments Private Limited
34.	143280	M/s. MRV Spinning Mills Private Limited
35.	29347	M/s. Pee Cee Metals Private Limited
36.	122187	M/s. GBN Impex Private Limited
37.	123767	M/s. Simran Clothing Company Private Limited
38.	74184	M/s. Vinayaka Infin Limited
39.	22965	M/s. Prerit Chit Fund Private Limited

T. P. SHAMI
Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Jaipur-302 006, the 28th September 2008

No. ROC/JPR/560/3—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	002107	M/s. Roxy International Private Limited
2.	002109	M/s. Venus Marbles Enterprises Private Limited
3.	002110	M/s. Dhawan Enterprises Private Limited
4.	002112	M/s. Emerald Hotels and Restaurants Private Limited
5.	002117	M/s. Sanjay Engineering Services Private Limited
6.	002119	M/s. Panchsheel Agencies Private Limited
7.	002123	M/s. Kutumb General Trading Co. Limited
8.	002130	M/s. Shree Asbestos Cement (Rajasthan) Limited
9.	002131	M/s. Vikas Insulation Co. Private Limited
10.	002135	M/s. Lakecity Enterprises Private Limited
11.	002139	M/s. Rhoda Chem Industries Private Limited
12.	002142	M/s. Agarwal Ceramics Private Limited

1	2	3
13.	002143	M/s. Raj Mangal Syntex Private Limited
14.	002146	M/s. Rajasthan Cresols Limited
15.	002149	M/s. Poly-Protein Private Limited
16.	002150	M/s. Shree Annapurana Chemicals Private Limited
17.	002151	M/s. Kumar Fabrics Private Limited
18.	002158	M/s. Tripura Fabrics Private Limited
19.	002163	M/s. Orient Gum Industries Private Limited
20.	002166	M/s. Swastika Tyres Private Limited
21.	002170	M/s. Sanwat Agro Industries Private Limited
22.	002171	M/s. Rajasthan Thread Industries Private Limited
23.	002173	M/s. Durolite Fibre Glass Products Private Limited
24.	002195	M/s. Excellent Rubber Private Limited
25.	002196	M/s. Delhi Multi Tech Industries Private Limited
26.	002199	M/s. Rajasthan Plasticraft Industries Private Limited
27.	002203	M/s. Udaipur Flour Mills Private Limited
28.	002206	M/s. Hitop Tools Private Limited
29.	002208	M/s. Arvind Suitings Private Limited
30.	002210	M/s. RPL India Limited
31.	002214	M/s. Ess Ess Marbles (India) Private Limited
32.	002215	M/s. Shri Ganesh Himalaya Private Limited
33.	002217	M/s. Jai Grinders Private Limited
34.	002218	M/s. Ganga Insulators Private Limited
35.	002219	M/s. Manish Manju Marbles Private Limited
36.	002221	M/s. Marwar Multi Industries Private Limited
37.	002226	M/s. Carnation Textile Private Limited
38.	002236	M/s. Powdrex (India) Limited
39.	002240	M/s. International Springs Private Limited
40.	002246	M/s. Priti Organic and Chemical Private Limited
41.	002248	M/s. Sumit Textiles Private Limited
42.	002250	M/s. Alwar Rubber Private Limited
43.	002254	M/s. Marabar Pharmaceuticals Private Limited

1	2	3	1	2	3
44.	002263	M/s. Verma Builders and Engineers Private Limited	75.	002365	M/s. Jaingo Ispat Private Limited
45.	002265	M/s. Abhishek Engineering Industries Private Limited	76.	002369	M/s. United Structures (India) Private Limited
46.	002269	M/s. Udaipur Textile Processors Private Limited	77.	002371	M/s. Rajnagar Marble and Mineral Industries Private Limited
47.	002272	M/s. Raj Boards and Chemicals Private Limited	78.	002380	M/s. Mayank Textiles Private Limited
48.	002274	M/s. Jeevan Phosphates and Chemicals Private Limited	79.	002386	M/s. Hamir Enterprises Private Limited
49.	002277	M/s. Microwax (India) Private Limited	80.	002387	M/s. Shivrani Enterprises Private Limited
50.	002280	M/s. Shekhawati Chemicals Private Limited	81.	002388	M/s. Kailash Oil Mills Private Limited
51.	002281	M/s. Arvind Enterprises Private Limited	82.	002392	M/s. Mridula Steel and Wires Limited
52.	002285	M/s. Kanodia Rubber Private Limited	83.	002397	M/s. Abu Cement Works Private Limited
53.	002288	M/s. Lahoty Constructions Co. Private Limited	84.	002402	M/s. Laxmi Lime and Cement Works Private Limited
54.	002289	M/s. Premier Electrodes Private Limited	85.	002403	M/s. Ambica Machines Private Limited
55.	002290	M/s. Sayar Engineering Private Limited	86.	002406	M/s. Joysina Trading Co. Private Limited
56.	002291	M/s. Urvashi Hotels Private Limited	87.	002407	M/s. R. Kumar Enterprises Private Limited
57.	002299	M/s. SVS Forgings Private Limited	88.	002414	M/s. Alwar Thermopack Industries Private Limited
58.	002303	M/s. Neelam Marbles and Industries Private Limited	89.	002421	M/s. Super Cable Machine Private Limited
59.	002305	M/s. R. Tubes Private Limited	90.	002423	M/s. Maruti Cement Private Limited
60.	002307	M/s. Bhilwara Metals Private Limited	91.	002424	M/s. Hem Kund Products Limited
61.	002316	M/s. Salecha Krishi Private Limited	92.	002425	M/s. Continental Marbles Private Limited
62.	002318	M/s. Golecha Cinetalc Private Limited	93.	002431	M/s. Arch Enterprises Private Limited
63.	002319	M/s. Govind Marbles Private Limited	94.	002434	M/s. Rajasthan Xlo Sanwa Midland Limited
64.	002324	M/s. Hindustan Agro Chemicals Private Limited	95.	002436	M/s. Madhogarhia Investment Co. Private Limited
65.	002325	M/s. Foremost Engineering Co. Private Limited	96.	002437	M/s. C. K. Enterprises Private Limited
66.	002330	M/s. Continental Foregings Private Limited	97.	002444	M/s. Swastika Engineering Works Private Limited
67.	002334	M/s. Yadav Road Transport Private Limited	98.	002446	M/s. Premier Cylinders Limited
68.	002344	M/s. Bhagwati Enterprises Private Limited	99.	002449	M/s. Domoplast (India) Private Limited
69.	002348	M/s. Kaushal Papers Private Limited	100.	002455	M/s. Madhu Cement Private Limited
70.	002353	M/s. Vandana Chemicals Private Limited	101.	002461	M/s. Sahi Ramka Steels Private Limited
71.	002354	M/s. R. B. Textile Mills Private Limited	102.	002462	M/s. Shree Laxmi Cement Private Limited
72.	002356	M/s. Shakti Steels Private Limited	103.	002466	M/s. K. F. Diamond Marbles Private Limited
73.	002360	M/s. Udaipur Synthetics Private Limited	104.	002471	M/s. Rajasthan Tyres Private Limited
74.	002364	M/s. Jan Kalyan Finance and Investment Co. Limited	105.	002473	M/s. Shri Ambika Oil and Chemical Mills Private Limited
			106.	002479	M/s. Richa Chem (India) Private Limited
			107.	002483	M/s. Khajanchi Cement Works Private Limited

1	2	3
108.	002485	M/s. Rama Enterprises Private Limited
109.	002486	M/s. Super Potteries Private Limited
110.	002489	M/s. Jwala Cement and Allied Industries Private Limited
111.	002496	M/s. Maheshwari Plastic Industries Private Limited
112.	002498	M/s. Raj Amber Films Private Limited
113.	002499	M/s. Goyal Oil Flour and Dal Mills Private Limited
114.	002514	M/s. Tarai Seedsindia Private Limited
115.	002516	M/s. Agglomerate Private Limited
116.	002520	M/s. Divya Fertilizers Private Limited
117.	002521	M/s. Bhilwara Insulations Private Limited
118.	002524	M/s. Shekhawati Transport Co. Private Limited
119.	002525	M/s. Shringar Trading Co. Private Limited
120.	002529	M/s. Fabtec Engineers Private Limited
121.	002531	M/s. Sidharath Cones Private Limited
122.	002534	M/s. Meratwal Insulations Private Limited
123.	002542	M/s. Savera Savings and Finance (India) Limited
124.	002548	M/s. Modis Prayers Private Limited
125.	002549	M/s. Sumansilk Mill Private Limited
126.	002553	M/s. Primado Marble Private Limited
127.	002555	M/s. Arun Mica Industries Limited
128.	002558	M/s. Arya Agro Private Limited
129.	002561	M/s. Dan Chemicals Private Limited
130.	002562	M/s. Fasco Duplicators Private Limited
131.	002566	M/s. Goyals Constructions Investments Private Limited
132.	002570	M/s. Hem Kund Minerals and Chemicals Private Limited
133.	002576	M/s. Oriental Cylinders Private Limited
134.	002579	M/s. Marble Mandir Private Limited
135.	002581	M/s. G. T. Enterprises Private Limited
136.	002590	M/s. Monarch Chems and Allied Products Private Limited
137.	002594	M/s. Deelex Processors (India) Limited
138.	002596	M/s. Interonics Components Limited
139.	002598	M/s. Western Minerals Private Limited

1	2	3
140.	002599	M/s. Anil Ginning and Pressing Factory Private Limited
141.	002600	M/s. Suchita Trading Co. Private Limited
142.	002604	M/s. Shree Balwant Food Industries Private Limited
143.	002605	M/s. Kwaliti Conduit Private Limited
144.	002612	M/s. Hotel Vijay Private Limited
145.	002622	M/s. Gypsum Fibre India Limited
146.	002623	M/s. Rashmi Soaps Chemicals Private Limited
147.	002629	M/s. Sharma Metal Machines Private Limited
148.	002635	M/s. Friends Trading Co. Private Limited
149.	002636	M/s. Alankar Associates Private Limited
150.	002637	M/s. Shyam Oilcake Private Limited
151.	002647	M/s. Sekhawati Marbles Private Limited
152.	002648	M/s. S. O. Gas Products Private Limited
153.	002651	M/s. B. N. B. Electricals Private Limited
154.	002654	M/s. Seth Sanwaria Marble Industries Private Limited
155.	002655	M/s. Modi Secured Investment Private Limited
156.	002657	M/s. Kumar Swastik Enterprises Private Limited
157.	002659	M/s. Khandelwal Trading Co. Private Limited
158.	002661	M/s. Ethichem Laboratories Private Limited
159.	002663	M/s. Annapurna Silk Mills Private Limited
160.	002665	M/s. Aristo Pulp and Papers Limited
161.	002666	M/s. Jay Shree Rice Mills Private Limited
162.	002672	M/s. Patel Marbles Private Limited
163.	002676	M/s. Kohinoor Marbles Private Limited
164.	002686	M/s. Gopinath Trading Co. Private Limited
165.	002687	M/s. Sah Enterprises (Rajasthan) Limited
166.	002690	M/s. Vardhan Enterprises Private Limited
167.	002693	M/s. Prem Hans Engineering Co. Private Limited
168.	002694	M/s. Samridhi Private Limited
169.	002695	M/s. Vikas Marbles Private Limited
170.	002696	M/s. Hindustan Hydrocarbons and Chemicals Private Limited

1	2	3
171.	002703	M/s. Varun Tar Pulin Industries Private Limited
172.	002704	M/s. Rajasthan Strips Private Limited
173.	002713	M/s. Iceland Private Limited
174.	002716	M/s. Everlast Filters Private Limited
175.	002719	M/s. Nirmal Solvant Limited
176.	002723	M/s. S-Felts (India) Private Limited
177.	002724	M/s. B. R. and Sons Private Limited
178.	002732	M/s. Encons (Rajasthan) Private Limited
179.	002735	M/s. Madan Sons Private Limited
180.	002738	M/s. Vimal Milk Products Private Limited
181.	002739	M/s. Chemcaps Limited
182.	002740	M/s. Bhilwara Spinning Mills Private Limited
183.	002747	M/s. Amarnath Chiranjilal Builders Private Limited
184.	002748	M/s. Bikaner Pulp and Paper Industry Private Limited
185.	002754	M/s. Deepali Distributors Private Limited
186.	002760	M/s. Lakshmi Fabrics Private Limited
187.	002763	M/s. Rana Cement Private Limited
188.	002766	M/s. Madhusudan Properties and Investments Private Limited
189.	002767	M/s. Shiraj Tools Manufacturing Co. Private Limited
190.	002768	M/s. Jan Jyoti Trading Co. Private Limited
191.	002780	M/s. M. M. Alloys Private Limited
192.	002781	M/s. Rajasthan Oxygen Private Limited
193.	002785	M/s. Madhuram Vanaspati and Soya Products Limited
194.	002786	M/s. Giriraj Papers Private Limited
195.	002790	M/s. Marudhar Refinery and Chemical Industries Private Limited
196.	002791	M/s. Computer and Management Services Private Limited
197.	002794	M/s. R. B. Dairy Private Limited
198.	002795	M/s. K. K. Granites Private Limited
199.	002796	M/s. Kama Foods Private Limited
200.	002797	M/s. Rathi Marble Private Limited
201.	002804	M/s. R. M. Marbles Industries Private Limited
202.	002806	M/s. Navrang Spinners Private Limited

1	2	3
203.	002810	M/s. V. G. Mohnot and Co. Private Limited
204.	002811	M/s. New Lucky Marble Granite Private Limited
205.	002819	M/s. Shree Bhagwat Processors Private Limited
206.	002823	M/s. Krishna Forge and Stampings Private Limited
207.	002829	M/s. Kapil Krafts Private Limited
208.	002841	M/s. Trinity Combine Associates Private Limited
209.	002842	M/s. Shree Loharki Cement Private Limited
210.	002843	M/s. Rajasthan Industrial Cutters and Finishers Private Limited
211.	002844	M/s. Bhilwara Mineral and Chemical Private Limited
212.	002848	M/s. Adarsh Private Limited
213.	002850	M/s. Rajputana Hosiery and Chemicals Private Limited
214.	002852	M/s. A. C. M. Private Limited
215.	002856	M/s. Pink City Service on Call Private Limited
216.	002860	M/s. Amrut Sheele Private Limited
217.	002863	M/s. Ace Enterprises Private Limited
218.	002867	M/s. Shree Ganpati Cement Private Limited
219.	002871	M/s. Punjab Pipes Private Limited
220.	002875	M/s. Laxmi Synfab Mills Private Limited
221.	002880	M/s. Cannon and Canon Limited
222.	002882	M/s. Prashant Alums and Chemicals Private Limited
223.	002883	M/s. Saraswati Metals Private Limited
224.	002889	M/s. Cigma Private Limited
225.	002892	M/s. Hindustan Circuits Limited
226.	002893	M/s. Shankar Electronics Limited
227.	002894	M/s. Kedia Fabrics Private Limited
228.	002899	M/s. Sodani Cement and Chemicals Private Limited
229.	002903	M/s. Swastik Cement Distributors Private Limited
230.	002905	M/s. Durga Minchem Private Limited
231.	002906	M/s. Friends Lime Industries Private Limited
232.	002907	M/s. G. S. Processors Private Limited

1	2	3
233.	002913	M/s. Rajasthan Periodicals Limited
234.	002914	M/s. Kopy Rite Limited
235.	002917	M/s. Jupiter Advertising Private Limited
236.	002921	M/s. Shyam G. Limited
237.	002930	M/s. Marudhar Cement Private Limited
238.	002933	M/s. Rajesh Minerals and Industries Limited
239.	002935	M/s. Swapnika Tiles Private Limited
240.	002938	M/s. Bajaj Forging Works Private Limited
241.	002949	M/s. Rohit Enterprises Private Limited
242.	002952	M/s. Gesawat Tiles (India) Private Limited
243.	002974	M/s. Mundra Marbles Private Limited
244.	002980	M/s. Anupama Builders and Contractors Private Limited
245.	002986	M/s. Polyset Silk and Synthetic Private Limited
246.	002987	M/s. Rajgarhia Wooden Industries Private Limited
247.	002992	M/s. Kocher Enterprises Private Limited
248.	002994	M/s. Ajenta Chemicals (India) Private Limited
249.	003008	M/s. J. K. and Sons Private Limited
250.	003010	M/s. Monarch Marble Industries Private Limited
251.	003012	M/s. Standard Automobiles Private Limited
252.	003017	M/s. Uttam Foods Private Limited
253.	003018	M/s. Manglam Agencies Private Limited
254.	003036	M/s. Satyan Packaging Industries Private Limited
255.	003038	M/s. Shree Vishal Printers Limited
256.	003039	M/s. Majeed and Brothers Private Limited
257.	003041	M/s. Bunnty Engineering Works Private Limited
258.	003042	M/s. New Modern Textiles Private Limited
259.	003044	M/s. Motel Amar Private Limited
260.	003045	M/s. Mahaveer Processors Private Limited
261.	003046	M/s. Polystone Industries (India) Private Limited
262.	003048	M/s. Shree Shiva Spinners Limited
263.	003052	M/s. Rajasthan Trade and Travels Private Limited

1	2	3
264.	003057	M/s. Kota Stone and Marble Industries Private Limited
265.	003059	M/s. Jaipur Carpets Mfg. India Private Limited
266.	003061	M/s. Sabko Emerystone Co. Private Limited
267.	003065	M/s. Khaitan Chemicals Limited
268.	003072	M/s. Madhav Hitachi-Taga Electronics (India) Private Limited
269.	003074	M/s. Everest Stoneware Pipes Private Limited
270.	003078	M/s. Gyo International Private Limited
271.	003081	M/s. Gupta Laboratories Private Limited
272.	003082	M/s. Kotputli Cement Industries Private Limited
273.	003090	M/s. Energy and Communications Services Private Limited
274.	003092	M/s. Sheba International Private Limited
275.	003099	M/s. Monarch Films Combined Private Limited
276.	003100	M/s. Akash Deep Oil Indus Private Limited
277.	003110	M/s. West India Electronics Co. Private Limited
278.	003113	M/s. Central Subscription Agencies Private Limited
279.	003115	M/s. Shree Bhagwati Syntex Private Limited
280.	003119	M/s. Khyati Marble and Granite Tiles Private Limited
281.	003127	M/s. Winners Electronic Private Limited
282.	003128	M/s. Synthiko Exports Private Limited
283.	003130	M/s. S. R. Estates Private Limited
284.	003131	M/s. Jawai Cement Private Limited
285.	003135	M/s. Rajasthan Activated Earths Chemicals Private Limited
286.	003137	M/s. Precambrians (India) Private Limited
287.	003155	M/s. Shree Shakti Cement Private Limited
288.	003168	M/s. Marudhar Granites Private Limited
289.	003169	M/s. Northern Castings Private Limited
290.	003696	M/s. Harsa Synthetic Industry Limited
291.	003698	M/s. Shiv Soya Properties and Enterprises Private Limited
292.	003707	M/s. Key Stone Knitting Private Limited

1	2	3
293.	003711	M/s. Profile System Limited
294.	003713	M/s. S. S. M. Enterprises Private Limited
295.	003716	M/s. Alfa Cymex Technologies Limited
296.	003717	M/s. Pannuse Private Limited
297.	003723	M/s. Swati Cements Private Limited
298.	003724	M/s. Accurate Spinning Spares Private Limited
299.	003736	M/s. Marudhar Marketing Co. Private Limited
300.	003745	M/s. Mighty Metals Private Limited
301.	003748	M/s. Rajvaidya Aurved Pharma Private Limited
302.	003754	M/s. Komchek Private Limited
303.	003759	M/s. Pancholi Stone Industries Private Limited
304.	003763	M/s. Cinesonic Electronic Equipments Private Limited
305.	003764	M/s. Arora Eldee Plast Private Limited
306.	003769	M/s. Shriram Food Products Private Limited
307.	003776	M/s. Shree Gaurav Textile Industries Private Limited
308.	003781	M/s. Saira Estates Private Limited
309.	003805	M/s. Srinivas Metals Private Limited
310.	003807	M/s. Poddar Suitings Private Limited
311.	003818	M/s. Pincan Tea Products Private Limited
312.	003820	M/s. Shree Jain Pipes Limited
313.	003821	M/s. Wheels International Limited
314.	003824	M/s. Diamond Stone (India) Private Limited
315.	003825	M/s. Sunshine Electro Private Limited
316.	003828	M/s. Deshanray Contractors Private Limited
317.	003833	M/s. Mukund Films Private Limited
318.	003841	M/s. Johri Lal Madan Gopal Private Limited
319.	003843	M/s. Pink City Containers Private Limited
320.	003844	M/s. Classic Marketing Agency Private Limited
321.	003845	M/s. Capscan Computerforms Private Limited
322.	003850	M/s. Sunshine Rubber Industries Private Limited
323.	003851	M/s. Shreeram Synthetics Private Limited

1	2	3
324.	003852	M/s. Marudhar Rubbers Private Limited
325.	003862	M/s. Antrek Tours Private Limited
326.	003869	M/s. Jai Hanuman Finance Private Limited
327.	003870	M/s. Soft Ware Consultants India Private Limited
328.	003875	M/s. Ganpati Electro Private Limited
329.	003879	M/s. Keshava Oil and Food Processors Private Limited
330.	003880	M/s. Grondig (India) Limited
331.	003888	M/s. Agriman Themis Private Limited
332.	003893	M/s. Kamal Mohan Chemicals Private Limited
333.	003896	M/s. Umed Chemicals and Minerals Private Limited
334.	003907	M/s. Bahubali Marbles Private Limited
335.	003908	M/s. Neelanchal Traders Private Limited
336.	003909	M/s. Kothari Bussiness House Limited
337.	003926	M/s. Continental Polypack Private Limited

S. P KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and
of following Companies

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/5/1019—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	013028	M/s. Rio Estate and Finlease Private Limited
2.	013032	M/s. Hotel Green View Private Limited
3.	013145	M/s. Funtastik Electronics Private Limited
4.	013146	M/s. Suryakamal Metals Private Limited
5.	013272	M/s. Orbit Technico Private Limited
6.	013321	M/s. Jajodia Buildcon Private Limited
7.	013359	M/s. Sapphire Travels Private Limited
8.	013376	M/s. Neelu Electronics Private Limited

1	2	3
9.	013425	M/s. Astra Green Field Private Limited
10.	013439	M/s. Swasti Quality Strips Private Limited
11.	013441	M/s. Shiv Shanti Securities Private Limited
12.	013449	M/s. Akshita Paraffin Wax Private Limited
13.	013453	M/s. Kanchandeep Fincap Private Limited
14.	013454	M/s. Ria Fin-in-Cap Private Limited
15.	013466	M/s. Gemini Material Marketing Private Limited
16.	013473	M/s. Stanford Cements Private Limited
17.	013491	M/s. Poonam Dye-Chem Private Limited
18.	013503	M/s. Triangular Electronics Private Limited
19.	013512	M/s. Sandvich Diamond Tools Private Limited
20.	013521	M/s. Ashok Colonisers Private Limited
21.	013548	M/s. Braj Papers Private Limited
22.	013580	M/s. Muskan Gift and Fincap Private Limited
23.	013650	M/s. Brijwasi Minerals Private Limited
24.	013655	M/s. Tholia Builders Private Limited
25.	013716	M/s. Fateh Construction Company Private Limited
26.	013734	M/s. Spectrum Gems Private Limited
27.	013755	M/s. Survagaya Chemicals Private Limited
28.	013764	M/s. Essex (India) Private Limited
29.	013795	M/s. Van Soft Marketing Private Limited
30.	013803	M/s. R. Jassal Marketing Private Limited
31.	013804	M/s. Gupta Fabricators Private Limited
32.	013814	M/s. Jaya Suitings Private Limited
33.	013913	M/s. RGP Packaging Private Limited
34.	013947	M/s. Visions Foods Private Limited
35.	013980	M/s. Marvel Colonizers Private Limited
36.	013989	M/s. Thar India Forests Limited
37.	014004	M/s. Sujata Informatics Private Limited
38.	014011	M/s. Cygnet Telecommunication Private Limited
39.	014018	M/s. Chachan Financers Private Limited
40.	014066	M/s. Shree G. I. Metal Tubes Private Limited
41.	014079	M/s. Vitupati Forests Limited
42.	014085	M/s. Lezon Forest Private Limited
43.	014112	M/s. Bhilwara Surveyors Private Limited

1	2	3
44.	014121	M/s. Tracar Agencies Private Limited
45.	014130	M/s. Santosh Decorators Private Limited
46.	014133	M/s. Kachhawaha Builders Private Limited
47.	014135	M/s. Panghat Hotels and Resorts Private Limited
48.	014137	M/s. Welcome Agro and Infin Limited
49.	014165	M/s. Bidaji Resorts and Hotels Private Limited
50.	014183	M/s. Sapna Farmers Limited
51.	014186	M/s. Delta Syntex Private Limited
52.	014190	M/s. Marwar Petro Chemicals Private Limited
53.	014192	M/s. Khushbu Fincap Limited
54.	014198	M/s. Sanwaria Air Private Limited
55.	014220	M/s. Dadh Devi Finance Private Limited
56.	014225	M/s. Meridian Technoprints Private Limited
57.	014236	M/s. M. R. C. Gems Private Limited
58.	014237	M/s. Khemi Aggni Daman Private Limited
59.	014249	M/s. SRV Cement and Steel Private Limited
60.	014257	M/s. Big Boss Media Entertainers Private Limited
61.	014264	M/s. Vrishabh Polyplast Private Limited
62.	014287	M/s. Excel Polo Limited
63.	014297	M/s. Anil Padam Construction Company Private Limited
64.	014300	M/s. Elegant Suiting Private Limited
65.	014329	M/s. Supreme Photo Qss Private Limited
66.	014341	M/s. Ramprasad Cold Storage Private Limited
67.	014357	M/s. G. C. M. Build-Con Private Limited
68.	014387	M/s. Shankheswar Ceramics Private Limited
69.	014398	M/s. Shree Balaji Forests India Limited
70.	014409	M/s. Ashok Vatika Amusement Park Private Limited
71.	014439	M/s. Application Compu-Soft Private Limited
72.	014460	M/s. Khusbu Oxygen Private Limited
73.	014490	M/s. Dial Me Home Services Private Limited
74.	014530	M/s. Exotic Apparels Private Limited
75.	014559	M/s. Goldrange Farming Private Limited
76.	014563	M/s. Harsh Hygiene Private Limited

1	2	3
77.	014565	M/s. Jhameshwar Transport Private Limited
78.	014577	M/s. PGV Relation Point Private Limited
79.	014591	M/s. C. G. M. Forest Limited
80.	014595	M/s. Shriladliji Computers (India) Private Limited
81.	014601	M/s. Baba Kunj Giri Cold Storage Private Limited
82.	014616	M/s. Umeed Green Forest Limited
83.	014626	M/s. Sumeet Platichem Private Limited
84.	014627	M/s. Mayank Fabricator Private Limited
85.	014631	M/s. Hemkunt Infotech Private Limited
86.	014636	M/s. Patson Intermediates Private Limited
87.	014638	M/s. Dhanlaxmi Creations Fincap Private Limited
88.	014642	M/s. Baba Ramdev Plastic Private Limited
89.	014649	M/s. Shibhu Transport Private Limited
90.	014680	M/s. Ambika Hospital and Research Centre Private Limited
91.	014684	M/s. Mathania Real Estates and Resorts Private Limited
92.	014685	M/s. Royal Journeys Private Limited
93.	014688	M/s. Koolwal Cold Storage Private Limited
94.	014712	M/s. Red Square Communications Private Limited
95.	014724	M/s. Axiom Creative Marketing Services Private Limited
96.	014734	M/s. APF Trading Private Limited
97.	014741	M/s. O. K. Automobiles Private Limited
98.	014748	M/s. GLJ XL-Marketing Private Limited
99.	014750	M/s. M. Ashrfiya Silicate Private Limited
100.	014765	M/s. Bhardwaj Entertainment Private Limited
101.	014783	M/s. Supra Kraft Intrade Private Limited
102.	014786	M/s. Jan Arpan Vitt Vikash Limited
103.	014799	M/s. Krishan Shubham Finsec Private Limited
104.	014800	M/s. Suraksha Merchantile Services Private Limited
105.	014809	M/s. Swot Capital Private Limited
106.	014821	M/s. Pink Film Private Limited
107.	014838	M/s. Buskers Entertainment Private Limited

1	2	3
108.	014844	M/s. A. Bhanu Marketing Private Limited
109.	014846	M/s. De-Polluters Private Limited
110.	014879	M/s. Shiv Shakti Properties Private Limited
111.	014883	M/s. Bramha Solex Euro System Private Limited
112.	014910	M/s. Suresh Chand Jain Steel Rerolling Mills Private Limited
113.	014914	M/s. Panpet Packers Private Limited
114.	014922	M/s. Sunbeam Shares Private Limited
115.	014923	M/s. Sathi Cables Private Limited
116.	014935	M/s. Live Line Computer Systems Private Limited
117.	014937	M/s. A. S. T. Hotels and Motels Private Limited
118.	014939	M/s. Ecstasy Tours and Travels Private Limited
119.	014950	M/s. Amway Hotel and Developers Limited
120.	014976	M/s. M. F. A. Heritage Resorts India Private Limited
121.	014977	M/s. Shimmering Horizons Resorts Limited
122.	015047	M/s. Meghartz Services and Marketing Limited
123.	015059	M/s. Ganna Estate Private Limited
124.	015061	M/s. Preeti Ceramics Private Limited
125.	015081	M/s. Jaipur Institute of Integrated Education Private Limited
126.	015095	M/s. Topbrass Imports Private Limited
127.	015110	M/s. Ami Orthapedics Appliances Private Limited
128.	015111	M/s. Bashir Chits Private Limited
129.	015118	M/s. B. R. Cassettes Private Limited
130.	015123	M/s. M. K. G. Wires Private Limited
131.	015130	M/s. Citylife Facility Card Private Limited
132.	015154	M/s. Marque Pharmachem Limited
133.	015160	M/s. Padmawati Dye Stuffs Private Limited
134.	015162	M/s. Dharti Dhan Minichem Private Limited
135.	015164	M/s. Subham Transport Contractors and Suppliers Private Limited
136.	015169	M/s. Gunatit Exports Private Limited
137.	015196	M/s. Jagdambica Wires Private Limited
138.	015198	M/s. Bilam Plastics Private Limited

1	2	3
139.	015201	M/s. Choice Packaging Private Limited
140.	015202	M/s. Rubecca Regency Private Limited
141.	015203	M/s. Gandharva Regency Private Limited
142.	015211	M/s. Anant Professional Services Private Limited
143.	015228	M/s. Omini Communications Limited
144.	015248	M/s. Devarshi Advertising and Marketing Private Limited
145.	015250	M/s. Suncity Cable Net Work Private Limited
146.	015255	M/s. Sajjan Goth Club Private Limited
147.	015259	M/s. Shreeji Stainless Utensils Private Limited
148.	015295	M/s. Shreeji Screen Communication Private Limited
149.	015297	M/s. Selcon Engineers and Marketers Private Limited
150.	015300	M/s. Nakoda Natural Resorts and Inns Private Limited
151.	015307	M/s. Udaipur Hydraulics and Diesels Private Limited
152.	015317	M/s. Ahimsa Greens Private Limited
153.	015320	M/s. Adinath Khadya Tail Private Limited
154.	015335	M/s. Arya Infotech Private Limited
155.	015340	M/s. Inz Infoware Private Limited
156.	015345	M/s. Vak Consultants Private Limited
157.	015349	M/s. Archita Prakash Consultancy Private Limited
158.	015351	M/s. TRG Marketing Private Limited
159.	015352	M/s. Jepiya Movies Private Limited
160.	015364	M/s. Vistar Card and Marketing Company Private Limited
161.	015377	M/s. Bequeen Textile Private Limited
162.	015379	M/s. Mustfa Travels and Couriers Private Limited
163.	015392	M/s. Mother Green Polyhouse Private Limited
164.	015407	M/s. Pink City Palace and Entertainment Private Limited
165.	015410	M/s. Kunti Aroma Private Limited
166.	015411	M/s. A. P. Mines and Equipments Private Limited
167.	015423	M/s. Track N. Enjoy Holiday Resorts Private Limited

1	2	3
168.	015426	M/s. Royal Mercantile Facility Cards Private Limited
169.	015471	M/s. Nagar Agro Engineering Company Private Limited
170.	015492	M/s. Mission Network Marketing Private Limited
171.	015495	M/s. Jitendra Metals Private Limited
172.	015501	M/s. BPS Placement Services Private Limited
173.	015502	M/s. Salus Leisure Private Limited
174.	015517	M/s. Bhairotalab Heritage Resorts Private Limited
175.	015520	M/s. Siddharth Atithi Resorts Private Limited
176.	015521	M/s. Siddharth Amusement Park Private Limited
177.	015530	M/s. Royal Orchid Biotech and Tissue Culture Private Limited
178.	015534	M/s. Udaipur Garlico Private Limited
179.	015548	M/s. A. V. Vanaspati Limited
180.	015551	M/s. Centennial Hotels and Resorts Private Limited
181.	015563	M/s. Lifeline Card Private Limited
182.	015568	M/s. Jharokha Tours and Resorts Private Limited
183.	015569	M/s. Shivani Compusoft Private Limited
184.	015586	M/s. Renuka Computer and Education Centre Private Limited
185.	015592	M/s. Bikaner Cotton Limited
186.	015593	M/s. Rare Arts and Crafts Private Limited
187.	015598	M/s. G. K. Compu Hut Private Limited
188.	015600	M/s. Raj Heritage Hotels and Resorts Private Limited
189.	015617	M/s. Tausick Construction Private Limited
190.	015636	M/s. Shri Champadeep Hospitality and Resorts Private Limited
191.	015689	M/s. Manjushree Publications Private Limited
192.	015699	M/s. Prajyot Tradelink Private Limited
193.	015704	M/s. Jagdish Petrochemicals Private Limited
194.	015707	M/s. Jaldhara Meters Private Limited
195.	015712	M/s. Anidi Constructions Private Limited
196.	015728	M/s. MVS Marketing Private Limited

1	2	3
197.	015729	M/s. Adarsh Conductors Private Limited
198.	015730	M/s. Ashawa Infonet Management Private Limited
199.	015736	M/s. Khetan Agrocure Private Limited
200.	015752	M/s. Udaipur Foods Private Limited
201.	015759	M/s. Natata Farms Private Limited
202.	015767	M/s. Hotel Tiptop Private Limited
203.	015776	M/s. Vikash Petrochem Private Limited
204.	015827	M/s. Bansawal Cargo Movers Private Limited
205.	015830	M/s. Shiv Parvati Plastic Products Private Limited
206.	015838	M/s. Arawali Surgicals Private Limited
207.	015840	M/s. Saran Tractors Private Limited
208.	015858	M/s. Parveen Theatres Private Limited
209.	015860	M/s. Madan Woollens Private Limited
210.	015865	M/s. Rays Freight Logistics Private Limited
211.	015878	M/s. Midas Infocom Private Limited
212.	015894	M/s. Dimex Cold Storage Private Limited
213.	015908	M/s. Shivam Infoways Private Limited
214.	015910	M/s. Richa Theatres Private Limited
215.	015914	M/s. Shiv Shakti Suiting Private Limited
216.	015940	M/s. Auro Cold Storage Private Limited
217.	015953	M/s. Kriss Infotech Private Limited
218.	016002	M/s. Deepmala Distributors Private Limited
219.	016030	M/s. Rank Health Private Limited
220.	016069	M/s. Kunwar Polymers Private Limited
221.	016098	M/s. Kalyan Shree Gayatri Agro Processors Private Limited
222.	016481	M/s. V. A. J. Consultants Private Limited
223.	016615	M/s. Future Golden Tradelink Private Limited
224.	016651	M/s. Task Security Services Private Limited
225.	016656	M/s. Wagad Plasmotic Power Component Limited
226.	016675	M/s. Rajasthan Cardiac Vision Private Limited
227.	016689	M/s. Swastik Transit Mixer Private Limited
228.	016691	M/s. Kacholia Shares and Stocks Private Limited
229.	016722	M/s. Accent Marketing Network Limited

1	2	3
230.	016731	M/s. Saboo Roto Printers Private Limited
231.	016746	M/s. Gild Infosys Private Limited
232.	016765	M/s. Satya Hari Om Trading Company Private Limited
233.	016784	M/s. Roop Shree Sarovar Hotels Private Limited
234.	016786	M/s. MV Meditrans Online Private Limited
235.	016809	M/s. M. B. S. Builders and Resorts Developers Private Limited
236.	016814	M/s. Nalin Infotech Private Limited
237.	016841	M/s. Helptime Information and Marketing Services Private Limited
238.	016849	M/s. M. D. Ratnam Impex Private Limited
239.	016851	M/s. Unique Telelink India Private Limited
240.	016855	M/s. Neutron Experts Education Development Services Private Limited
241.	016863	M/s. Top Secret Detective Services Private Limited
242.	016867	M/s. Neway Shoppy and Services Private Limited
243.	016883	M/s. Dubey Hospital and Research Centre Private Limited
244.	016892	M/s. S. G. Compusystems Private Limited
245.	016895	M/s. Anupam Sales Private Limited
246.	016901	M/s. V. I. Exports Private Limited
247.	016968	M/s. A. and S. Land Developers Private Limited
248.	016969	M/s. Ojha Computech Private Limited
249.	016974	M/s. Charming Future Information Services Private Limited
250.	016979	M/s. Futuristic Psychometric Solutions Private Limited
251.	016980	M/s. Manas Alums Private Limited
252.	016981	M/s. Suncity Software Private Limited
253.	016984	M/s. Krati-Kreations Computer Education Private Limited
254.	017007	M/s. Deshwale Marketing Private Limited
255.	017044	M/s. Hasta-La-Vista Resorts Private Limited
256.	017087	M/s. Aivaz Security Services Private Limited
257.	017112	M/s. Dundlod Palace Hotel Private Limited
258.	017124	M/s. Godrise Security Services Private Limited

1	2	3
259.	017144	M/s. A. M. Hospital and Research Centre Private Limited
260.	017174	M/s. Shutrigh Enterprises Private Limited
261.	017189	M/s. Aryan Electrodevices Private Limited
262.	017211	M/s. Shree Siddhi Vinayak Colonisers Private Limited
263.	017215	M/s. Maitrie Tele-Services Private Limited
264.	017232	M/s. Impulse Education Private Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rio Estate and Finlease Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70101 RJ 1996 PTC 013028/1557—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rio Estate and Finlease Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Green View Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 55101 RJ 1996 PTC 013032/1559—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hotel Green View Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Funtastik Electronics Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 20299 RJ 1997 PTC 013145/1561—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Funtastik Electronics Private Limited has

this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suryakamal Metals Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 27107 RJ 1997 PTC 013186/1565—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suryakamal Metals Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orbit Technico Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 74210 RJ 1997 PTC 013272/1565—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orbit Technico Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jajodia Buildcon Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 45201 RJ 1997 PTC 013321/1567—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jajodia Buildcon Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sapphire Travels Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 63040 RJ 1997 PTC 013359/1569—Notice is hereby given pursuant to Sub-section

(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sapphire Travels Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelu Electronics Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 29299 RJ 1997 PTC 013376/1571—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neelu Electronics Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Astra Green Field Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70101 RJ 1997 PTC 013425/1573—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Astra Green Field Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swasti Quality Strips Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 27107 RJ 1997 PTC 013439/1575—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swasti Quality Strips Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Shanti Securities Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 013441/1577—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shiv Shanti Securities Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Akshita Paraffin Wax Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 24117 RJ 1997 PTC 013449/1581—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akshita Paraffin Wax Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanchandeep Fincap Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 013453/1583—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanchandeep Fincap Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ria Fin-in-Cap Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 013454/1585—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ria Fin-in-Cap Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gemini Material Marketing Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 14219 RJ 1997 PTC 013466/
1587—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Gemini Material Marketing Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Stanford Cements Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 26943 RJ 1997 PTC 013473/
1589—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Stanford Cements Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Poonam Dye-Chem Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 24114 RJ 1997 PTC 013491/
1591—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Poonam Dye-Chem Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Traingular Electronics Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 31909 RJ 1997 PTC 0135031593—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name
of M/s. Traingular Electronics Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sandvich Diamond Tools Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 28939 RJ 1997 PTC 013512/
1595—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Sandvich Diamond Tools Private Limited
has this day been struck off the Register of Companies and
the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashok Colonisers Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 45201 RJ 1997 PTC 013521/
1597—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Ashok Colonisers Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Braj Papers Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 21012 RJ 1997 PTC 013548/
1599—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Braj Papers Private Limited has this day
been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Muskan Gift and Fincap Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 013580/
1601—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Muskan Gift and Fincap Private Limited
has this day been struck off the Register of Companies and
the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Brijwasi Minerals Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 14219 RJ 1997 PTC 013650/1603—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brijwasi Minerals Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tholia Builders Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 45201 RJ 1997 PTC 013655/1605—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tholia Builders Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fateh Construction Company Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 45201 RJ 1997 PTC 013716/1607—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fateh Construction Company Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Spectrum Gems Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 36911 RJ 1997 PTC 013734/1609—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spectrum Gems Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Survagaya Chemicals Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 24167 RJ 1997 PTC 013755/1611—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Survagaya Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Essex (India) Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 36911 RJ 1997 PTC 013764/1613—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Essex (India) Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Van Soft Marketing Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 72200 RJ 1997 PTC 013795/1615—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Van Soft Marketing Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. Jassal Marketing Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 15142 RJ 1997 PTC 013803/1617—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. Jassal Marketing Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gupta Fabricators Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 27107 RJ 1997 PTC 013804/1619—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gupta Fabricators Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaya Suitings Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 18108 RJ 1997 PTC 013814/1621—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaya Suitings Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. RGP Packaging Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 74950 RJ 1997 PTC 013913/1623—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. RGP Packaging Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Visions Foods Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 55101 RJ 1997 PTC 013947/1625—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Visions Foods Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marvel Colonizers Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 45201 RJ 1997 PTC 013980/1627—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marvel Colonizers Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Thar India Forests Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70109 RJ 1997 PTC 1013989/1629—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Thar India Forests Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sujata Informatics Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 72200 RJ 1997 PTC 014004/1631—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sujata Informatics Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cygnet Telecommunication Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 64204 RJ 1997 PTC 014011/1633—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cygnet Telecommunication Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chachan Financers Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 014018/
1635—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Chachan Financers Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree G. I. Metal Tubes Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 27107 RJ 1997 PTC 014066/
1637—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Shree G. I. Metal Tubes Private Limited
has this day been struck off the Register of Companies and
the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vittpati Forests Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70109 RJ 1997 PTC 014079/
1639—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Vittpati Forests Limited has this day been
struck off the Register of Companies and the said company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lezon Forests Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70109 RJ 1997 PTC 014085/
1641—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Lezon Forests Private Limited has this day
been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Surveyors Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 74210 RJ 1997 PTC 04112/1643—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name
of M/s. Bhilwara Surveyors Private Limited has this day
been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tracar Agencies Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 18101 RJ 1997 PTC 014121/
1645—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Tracar Agencies Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Santosh Decorators Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 74994 RJ 1997 PTC 014130/
1647—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Santosh Decorators Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kachhawaha Builders Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 45201 RJ 1997 PTC 014133/
1649—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Kachhawaha Builders Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panghat Hotels and Resorts Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 55101 RJ 1997 PTC 014135/1651—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panghat Hotels and Resorts Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Welcome Agro and Infin Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 014137/1653—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Welcome Agro and Infin Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bidaji Resorts and Hotels Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 55102 RJ 1997 PTC 014165/1655—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bidaji Resorts and Hotels Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sapna Farmers Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 51211 RJ 1997 PTC 014183/1657—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sapna Farmers Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Delta Syntex Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 17117 RJ 1997 PTC 014158/1659—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delta Syntex Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marwar Petro Chemicals Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 24111 RJ 1997 PTC 014190/1661—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marwar Petro Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khushbu Fincap Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 014192/1663—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khushbu Fincap Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanwaria Air Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 62200 RJ 1997 PTC 014198/1665—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanwaria Air Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dadh Devi Finance Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1997 PTC 014220/
1667—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Dadh Devi Finance Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. SRV Cement and Steel Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 26943 RJ 1997 PTC 014249/
1675—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. SRV Cement and Steel Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Meridian Technoprints Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 22211 RJ 1997 PTC 014225/
1669—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Meridian Technoprints Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Big Boss Media Entertainers Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 92112 RJ 1997 PTC 014257/
1677—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Big Boss Media Entertainers Private Limited
has this day been struck off the Register of Companies and
the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. R C. Gems Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 36911 RJ 1997 PTC 014236/
1674—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. M. R C. Gems Private Limited has this day
been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Varishabh Polyplast Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 25209 RJ 1997 PTC 014264/
1679—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Varishabh Polyplast Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khemi Aggni Daman Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 25201 RJ 1997 PTC 014237/
1673—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Khemi Aggni Daman Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Excel Polo Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 92413 RJ 1997 PTC 014287/
1681—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Excel Polo Limited has this day been struck
off the Register of Companies and the said company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anil Padam Construction Company Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 45201 RJ 1997 PTC 014297/
1683—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Anil Padam Construction Company Private
Limited has this day been struck off the Register of
Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Elegant Suiting Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 18108 RJ 1997 PTC 014300/
1685—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Elegant Suiting Private Limited has this day
been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme Photo Qss Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 74940 RJ 1997 PTC 014329/
1687—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Supreme Photo Qss Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramprasad Cold Storage Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 63022RJ 1997 PTC 014341/1689—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name
of M/s. Ramprasad Cold Storage Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. G. C. M. Build-Con Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 51432 RJ 1997 PTC 014357/
1691—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. G. C. M. Build-Con Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shankheswar Ceramics Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 26933 RJ 1997 PTC 014387/
1693—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Shankheswar Ceramics Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Balaji Forests India Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70109 RJ 1997 PLC 014398/
1695—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Shree Balaji Forests India Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashok Vatika Amusement Park Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 92199 RJ 1997 PTC 014409/
1697—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Ashok Vatika Amusement Park Private
Limited has this day been struck off the Register of
Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Application Compu-Soft Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 72200 RJ 1997 PTC 014439/1699—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Application Compu-Soft Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khusbu Oxygen Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 74999 RJ 1997 PTC 014460/1701—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khusbu Oxygen Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dial Me Home Services Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 31432 RJ 1997 PTC 014490/1703—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dial Me Home Services Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Exotic Apparels Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 36111 RJ 1997 PTC 014530/1705—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Exotic Apparels Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goldrange Farming Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70109 RJ 1997 PTC 014559/1707—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goldrange Farming Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Harsh Hygiene Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 60210RJ 1998 PTC 014563/1709—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Harsh Hygiene Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. F. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jhameshwar Transport Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 60210 RJ 1998 PTC 014565/1711—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jhameshwar Transport Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. P. G. V. Relation Point Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 74140 RJ 1998 PTC 014577/1713—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P. G. V. Relation Point Private Limited has this day been struck off the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. C. G. M. Forest Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70109 RJ 1998 PLC 014591/
1715—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name
of M/s. C. G. M. Forest Limited has this day been struck off
the Register of Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shriladliji Computers (India) Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 72100 RJ 1998 PTC 014595/
1717—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Shriladliji Computers (India) Private Limited
has this day been struck off the Register of Companies and
the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Baba Kunj Giri Cold Storage Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 63022 RJ 1998 PTC 014601/
1719—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Baba Kunj Giri Cold Storage Private Limited
has this day been struck off the Register of Companies and
the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Umeed Green Forest Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70109 RJ 1998 PLC 014616/
1721—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Umeed Green Forest Limited has this day
been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumeet Plastichem Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 25201 RJ 1998 PTC 014626/
1723—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Sumeet Plastichem Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mayank Fabricators Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 29299 RJ 1998 PTC 014627/
1725—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Mayank Fabricators Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hemkunt Infotech Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 72200 RJ 1998 PTC 014631/
1727—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Hemkunt Infotech Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Patson Intermediates Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 25201 RJ 1998 PTC 014636/
1729—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Patson Intermediates Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhanlaxmi Creations Fincap Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 67120 RJ 1998 PTC 014638/
1731—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Dhanlaxmi Creations Fincap Private Limited
has this day been struck off the Register of Companies and
the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Baba Ramdev Plastic Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 52509 RJ 1998 PTC 014642/
1733—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Baba Ramdev Plastic Private Limited has
this day been struck off the Register of Companies and the
said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shibhu Transport Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 60210 RJ 1998 PTC 014649/
1735—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Shibhu Transport Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambika Hospital and Research Centre Private
Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 85110 RJ 1998 PTC 014680/
1737—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Ambika Hospital and Research Centre Private
Limited has this day been struck off the Register of
Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mathania Real Estates and Resorts Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 70101 RJ 1998 PTC 014684/
1739—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Mathania Real Estates and Resorts Private
Limited has this day been struck off the Register of
Companies and the said company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Journeys Private Limited

Jaipur-302 006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U 63040 RJ 1998 PTC 014685/
1741—Notice is hereby given pursuant to Sub-section
(5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the
name of M/s. Royal Journeys Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Koolwal Cold Storage Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63022RJ1998PTC014688/1743.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Koolwal Cold Storage Private Limited has this day
been struck off the Register of Companies and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Red Square Communications Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92111RJ1998PTC014712/1745—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Red Square Communications Private Limited has this
day been struck off the Register of Companies and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Axiom Creative Marketing Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74300RJ1998PTC014724/1747—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Axiom Creative Marketing Services Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. APF Trading Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31909RJ1998PTC014734/1749—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. APF Trading Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. O. K. Automobiles Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51109RJ1998PTC014741/1751—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. O. K. Automobiles Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. GLJ XL-Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51311RJ1998PTC014748/1753—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. GLJ XL-Marketing Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. Ashrfiya Silicate Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1998PTC014750/1755—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. M. Ashrfiya Silicate Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhardwaj Entertainment Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92199RJ1998PTC014765/1757—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bhardwaj Entertainment Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Supra Kraft Intrade Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25201RJ1998PTC014783/1759—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Supra Kraft Intrade Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jan Arpan Vitt Vikash Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1998PLC014786/1761—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jan Arpan Vitt Vikash Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishan Shubham Finsec Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1998PTC014799/1763—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Krishan Shubham Finsec Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suraksha Mercantile Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51311RJ1998PTC014800/1765—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Suraksha Mercantile Services Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swot Capital Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1998PTC014809/1767—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Swot Capital Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pink Film Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92112RJ1998PTC014821/1769—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pink Film Private Limited has this day been struck off
the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Buskers Entertainment Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92199RJ1998PTC014838/1771—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Buskers Entertainment Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. Bhanu Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51311RJ1998PTC014844/1773—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. A. Bhanu Marketing Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. De-Polluters Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1998PTC014846/1775—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. De-Polluters Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Shakti Properties Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1998PTC014879/1777—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shiv Shakti Properties Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bramha Solex Euro System Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1998PTC014883/1779—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bramha Solex Euro System Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suresh Chand Jain Steel Re-rolling Mills Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1998PTC014910/1781—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Suresh Chand Jain Steel Re-rolling Mills Private
Limited has this day been struck off the register and the
said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panpet Packers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74900RJ1998PTC014914/1781—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Panpet Packers Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunbeam Shares Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1998PTC014922/1785—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sunbeam Shares Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sathi Cables Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1998PTC014923/1787—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sathi Cables Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Live Line Computer Systems Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1998PTC014935/1789—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Live Line Computer Systems Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. S. T. Hotels and Motels Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1998PTC014937/1791—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. A. S. T. Hotels and Motels Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ecstasy Tours and Travels Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17118RJ1998PTC014939/1793—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ecstasy Tours and Travels Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amway Hotel and Developers Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1998PLC014950/1795—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Amway Hotel and Developers Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. F. A. Heritage Resorts India Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55102RJ1998PTC014976/1795—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. M. F. A. Heritage Resorts India Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shimmering Horizons Resorts Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1998PLC014977/1799—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shimmering Horizons Resorts Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Megahertz Services and Marketing Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51311RJ1998PLC015047/1801—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Megahertz Services and Marketing Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganna Estate Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ1998PTC015059/1803—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ganna Estate Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Preeti Ceramics Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U26933RJ1998PTC015061/1805—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Preeti Ceramics Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur Institute of Integrated Education Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U80302RJ1998PTC015081/1807—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jaipur Institute of Integrated Education Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Topbrass Imports Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U91102RJ1998PTC015095/1809—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Topbrass Imports Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ami Orthopedics Appliances Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85199RJ1998PTC015110/1811—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ami Orthopedics Appliances Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bashir Chits Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U65992RJ1998PTC015111/1811—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bashir Chits Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B. R. Cassettes Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U32303RJ1998PTC015118/1815—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. B. R. Cassettes Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. K. G. Wires Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1998PTC015123/1817—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. M. K. G. Wires Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Citylife Facility Card Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1998PTC015130/1819—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Citylife Facility Card Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Marque Pharmachem Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1998PLC015154/1821—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Marque Pharmachem Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Padmawati Dye Stuffs Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1998PTC015160/1823—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Padmawati Dye Stuffs Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dharti Dhan Minichem Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1998PTC015162/1825—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Dharti Dhan Minichem Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Subham Transport Contractors and Suppliers Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63090RJ1998PTC015164/1827—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Subham Transport Contractors and Suppliers Private
Limited has this day been struck off the register and the
said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gunatit Exports Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18101RJ1998PTC015169/1829—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gunatit Exports Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagdambica Wires Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1998PTC015196/1831—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jagdambica Wires Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bilam Plastics Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U99999RJ9999PLC015198/1833—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bilam Plastics Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Choice Packaging Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74950RJ1998PTC015201/1835—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Choice Packaging Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rubecca Regency Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1998PTC015202/1837—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rubecca Regency Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gandharva Regency Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1998PTC015203/1839
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gandharva Regency Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anant Professional Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1998PTC015211/1841—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anant Professional Services Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Omini Communications Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74910RJ1998PLC015228/1843—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Omini Communications Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Devarshi Advertising and Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74300RJ1998PTC015248/1845—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Devarshi Advertising and Marketing Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suncity Cable Net Work Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92199RJ1998PTC015250/1847—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Suncity Cable Net Work Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sajjan Goth Club Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92411RJ1998PTC015255/1849—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sajjan Goth Club Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreeji Stainless Utensils Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1998PTC015259/1851—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shreeji Stainless Utensils Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreeji Screen Communication Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74300RJ1998PTC015295/1853—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shreeji Screen Communication Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Selcon Engineers and Marketers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1999PTC015297/1855—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Selcon Engineers and Marketers Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nakoda Natural Resorts and Inns Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1999PTC015300/1857—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Nakoda Natural Resorts and Inns Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Hydraulics and Diesels Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29120RJ1999PTC015307/1859—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Udaipur Hydraulics and Diesels Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ahimsa Greens Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15101RJ1999PTC015317/1861—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ahimsa Greens Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Adinath Khadya Tail Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1999PTC015320/1863—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Adinath Khadya Tail Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arya Infotech Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015335/1865—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Arya Infotech Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Inz Infoware Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015340/1867—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Inz Infoware Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vak Consultants Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1999PTC015345/1869—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Vak Consultants Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Archita Prakash Consultancy Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1999PTC015349/1971—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Archita Prakash Consultancy Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. TRG Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51102RJ1999PTC015351/1873—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. TRG Marketing Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jepiya Movies Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92112RJ1999PTC015352/1875—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jepiya Movies Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vistar Card and Marketing Company Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1999PTC015364/1877—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Vistar Card and Marketing Company Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bequeen Textile Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18101RJ1999PTC015377/1879—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bequeen Textile Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mustfa Travels and Couriers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1999PTC015379/1881—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mustfa Travels and Couriers Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mother Green Polyhouse Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1999PTC015392/1883—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mother Green Polyhouse Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pink City Palace and Entertainment Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92199RJ1999PTC015407/1885—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pink City Palace and Entertainment Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kunti Aroma Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1999PTC015410/1887—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kunti Aroma Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. P. Mines and Equipments Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U14219RJ1999PTC015411/1889—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. A. P. Mines and Equipments Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Track N. Enjoy Holiday Resorts Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55102RJ1999PTC015423/1891—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Track N. Enjoy Holiday Resorts Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Mercantile Facility Cards Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1999PTC015426/1893—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Royal Mercantile Facility Cards Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nagar Agro Engineering Company Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1999PTC015471/1895—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Nagar Agro Engineering Company Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mission Network Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U52190RJ1999PTC015492/1897—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mission Network Marketing Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jitendra Metals Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1999PTC015495/1899—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jitendra Metals Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. BPS Placement Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74910RJ1999PTC015501/1901—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. BPS Placement Services Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Salus Leisure Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1999PTC015502/1903—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Salus Leisure Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhairotalab Heritage Resorts Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55102RJ1999PTC015517/1905—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bhairotalab Heritage Resorts Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Siddharth Atithi Resorts Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55102RJ1999PTC015520/1907—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Siddharth Atithi Resorts Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Siddharth Amusement Park Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92199RJ1999PTC015521/1909—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Siddharth Amusement Park Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Orchid Biotech and Tissue Culture Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51214RJ1999PTC015530/1911—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Royal Orchid Biotech and Tissue Culture Private
Limited has this day been struck off the register and the
said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Garlico Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U59214RJ1999PTC015534/1913—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Udaipur Garlico Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. V. Vanaspati Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15141RJ1999PTC015548/1915—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. A. V. Vanaspati Limited has this day been struck off
the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Centennial Hotels and Resorts Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1999PTC015551/1917—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Centennial Hotels and Resorts Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lifeline Card Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74995RJ1999PTC015563/1919—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Lifeline Card Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jharokha Tours and Resorts Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1999PTC015568/1921—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jharokha Tours and Resorts Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivani CompuSoft Private Limited
Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015569/1923—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shivani CompuSoft Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Renuka Computer and Education Centre Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015586/1925—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Renuka Computer and Education Centre Private
Limited has this day been struck off the register and the
said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bikaner Cotton Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17115RJ1999PLC015592/1927—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bikaner Cotton Limited has this day been struck off
the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rare Arts and Crafts Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ1999PTC015593/1929—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rare Arts and Crafts Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. G. K. Compu Hut Private Limited
Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015598/1931—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. G. K. Compu Hut Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Heritage Hotels and Resorts Private Limited
Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1999PTC015600/1933—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Raj Heritage Hotels and Resorts Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tausick Construction Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1999PTC015617/1935—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Tausick Construction Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Champadeep Hospitality and Resorts Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85110RJ1999PTC015636/1937—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shri Champadeep Hospitality and Resorts Private
Limited has this day been struck off the register and the
said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manjushree Publications Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22122RJ1999PTC015689/1939—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Manjushree Publications Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prajyot Tradelink Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1999PTC015699/1941—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Prajyot Tradelink Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagdish Petrochemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U23201RJ1999PTC015704/1943—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jagdish Petrochemicals Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaldhara Meters Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1999PTC015707/1945—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Jaldhara Meters Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anidi Constructions Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1999PTC015712/1947—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anidi Constructions Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. MVS Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51201RJ1999PTC015728/1949
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. MVS Marketing Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Adarsh Conductors Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1999PTC015729/1951—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Adarsh Conductors Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashawa Infonet Management Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015730/1953—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ashawa Infonet Management Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khetan Agrocare Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51211RJ1999PTC015736/1955—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Khetan Agrocare Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Udaipur Foods Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15495RJ1999PTC015752/1957—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Udaipur Foods Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Natata Farms Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70109RJ1999PTC015759/1959—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Natata Farms Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Tiptop Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ1999PTC015767/1961—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hotel Tiptop Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikash Petrochem Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U23201RJ1999PTC015776/1963—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Vikash Petrochem Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bansawal Cargo Movers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U60231RJ1999PTC015827/1965—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bansawal Cargo Movers Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Parvati Plastic Products Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25191RJ1999PTC015830/1967—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shiv Parvati Plastic Products Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arawali Surgicals Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U33112RJ1999PTC015838/1969—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Arawali Surgicals Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saran Tractors Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U29211RJ1999PTC015840/1971—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Saran Tractors Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Parveen Theatres Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92120RJ1999PTC015858/1973—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Parveen Theatres Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madan Woollens Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U17117RJ1999PTC015860/1975—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Madan Woollens Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rays Freight Logistics Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U60221RJ1999PTC015865/1977—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rays Freight Logistics Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Midas Infocom Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72100RJ1999PTC015878/1979—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Midas Infocom Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dimex Cold Storage Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63022RJ1999PTC015894/1981—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Dimex Cold Storage Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivam Infoways Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015908/1983—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shivam Infoways Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Richa Theatres Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U92120RJ1999PTC015910/1985—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Richa Theatres Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Shakti Suiting Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1999PTC015914/1987—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shiv Shakti Suiting Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Auro Cold Storage Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U63022RJ1999PTC015940/1989—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Auro Cold Storage Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kriss Infotech Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ1999PTC015953/1991—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kriss Infotech Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepmala Distributors Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51109RJ1999PTC016002/1993—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deepmala Distributors Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rank Health Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85110RJ1999PTC016030/1995—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rank Health Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kunwar Polymers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U25202RJ1999PTC016069/1997—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kunwar Polymers Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalyan Shree Gayatri Agro Processors Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ2000PTC016098/1999—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kalyan Shree Gayatri Agro Processors Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. A. J. Consultants Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74190RJ2000PTC016481/2001—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. V. A. J. Consultants Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Future Golden Tradelink Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U52190RJ2000PTC016615/2003—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Future Golden Tradelink Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Task Security Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74920RJ2000PTC016651/2005—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Task Security Services Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wagad Plasmotic Power Component Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31200RJ2000PLC016656/2007—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Wagad Plasmotic Power Component Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasthan Cardiac Vision Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85110RJ2000PTC016675/2009—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rajasthan Cardiac Vision Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastik Transit Mixer Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U60221RJ2000PTC016689/2011—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Swastik Transit Mixer Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kacholia Shares and Stocks Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ2000PTC016691/2013—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Kacholia Shares and Stocks Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Accent Marketing Network Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51109RJ2000PLC016722/2015—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
Accent Marketing Network Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saboo Roto Printers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U22219RJ2000PTC016731/2017—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Saboo Roto Printers Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gild Infosys Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2000PTC016746/2019—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gild Infosys Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Satya Hari Om Trading Company Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U52110RJ2000PTC016765/2021—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Satya Hari Om Trading Company Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Roop Shree Sarovar Hotels Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ2000PTC016784/2023—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Roop Shree Sarovar Hotels Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. MV Meditrans Online Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2000PTC016786/2025—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. MV Meditrans Online Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. B. S. Builders and Resorts Developers Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70100RJ2001PTC016809/2027—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. M. B. S. Builders and Resorts Developers Private
Limited has this day been struck off the register and the
said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nalin Infotech Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC016814/2029—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Nalin Infotech Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Helptime Information and Marketing Services
Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ2001PTC016841/2031—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Helptime Information and Marketing Services Private
Limited has this day been struck off the register and the
said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. D. Ratnam Impex Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U36911RJ2001PTC016849/2033—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. M. D. Ratnam Impex Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Unique Telelink India Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC016851/2035—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Unique Telelink India Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neutron Experts Education Development Services
Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U80301RJ2001PTC016855/2037—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Neutron Experts Education Development Services
Private Limited has this day been struck off the register
and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Top Secret Detective Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74920RJ2001PTC016863/2039—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Top Secret Detective Services Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neway Shoppy and Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U52190RJ2001PTC016867/2041—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Neway Shoppy and Services Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dubey Hospital and Research Centre Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85110RJ2001PTC016883/2043—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Dubey Hospital and Research Centre Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. G. Compusystems Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC016892/2045—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. S. G. Compusystems Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anupam Sales Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51909RJ2001PTC016895/2047—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anupam Sales Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. I. Exports Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U27201RJ2001PTC016901/2049—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. V. I. Exports Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. and S. Land Developers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70100RJ2001PTC016968/2051—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. A. and S. Land Developers Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ojha Computech Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC016969/2053—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ojha Computech Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Charming Future Information Services Private
Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74999RJ2001PTC016974/2055—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Charming Future Information Services Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Futuristic Psychometric Solutions Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U80302RJ2001PTC016979/2057—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Futuristic Psychometric Solutions Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manas Alums Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U24100RJ2001PTC016980/2059—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Manas Alums Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suncity Software Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC016981/2061—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Suncity Software Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Krati-Kreations Computer Education Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC016984/2063—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Krati-Kreations Computer Education Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deshwale Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51109RJ2001PTC017007/2065—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deshwale Marketing Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hasta-La-Vista Resorts Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55109RJ2001PTC017044/2067—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hasta-La-Vista Resorts Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aivaz Security Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74920RJ2001PTC017087/2069—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Aivaz Security Services Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dundlod Palace Hotel Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U55102RJ2001PTC017112/2071
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Dundlod Palace Hotel Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Godrise Security Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74920RJ2001PTC017124/2073—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Godrise Security Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. M. Hospital and Research Centre Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U85110RJ2001PTC017144/2075—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. A. M. Hospital and Research Centre Private Limited
has this day been struck off the register and the said
Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shutrich Enterprises Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ2001PTC017174/2077—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shutrich Enterprises Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aryan Electrodevices Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U31102RJ2001PTC017189/2079—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Aryan Electrodevices Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Siddhi Vinayak Colonisers Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U70101RJ2001PTC017211/2081—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shree Siddhi Vinayak Colonisers Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maitrie Tele-Services Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ2001PTC017215/2083—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Maitrie Tele-Services Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Impulse Education Private Limited

Jaipur-302006, the 28th September 2007

No. ROC/JPR/560/U80302RJ2001PTC017232/2085—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Impulse Education Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Screen Wallets Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U36991RJ1985PTC003290/2087—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Screen Wallets Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sponsal Chemicals Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U24117RJ1985PTC003432/2089—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sponsal Chemicals Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dipti Ventures Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1985PTC003433/2091—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Dipti Ventures Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Reliance Investment Consultancy Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1985PTC003439/2093—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Reliance Investment Consultancy Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ekantika Resorts Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U55102RJ1986TC003611/2095—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Ekantika Resorts Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Wires Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1986PTC003756/2097—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shree Wires Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Samarsons Decor Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74994RJ1986PTC003765/2099—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Samarsons Decor Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mala Electrodes Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U51395RJ1987PTC004176/2101—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Mala Electrodes Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arya Carpets Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U17222RJ1988PTC004369/2103—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Arya Carpets Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Elpee Marketing Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U51101RJ1994PTC008538/2105—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Elpee Marketing Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Hardbodisc Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U21016RJ1988PTC004629/2107—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bhilwara Hardbodisc Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deeptex Suitings Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U18108RJ1988PTC004642/2109—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deeptex Suitings Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gromed Pharmaceuticals (India) Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U24232RJ1989PTC004818/2111—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Gromed Pharmaceuticals (India) Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goldstar Cables and Appliances Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U31300RJ1989PTC004917/2113—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Goldstar Cables and Appliances Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pushpa Hydrolicks Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U34300RJ1991PTC006019/2115—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Pushpa Hydrolicks Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shubham Solvents Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1991PTC006044/2117—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Shubham Solvents Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Darshna Travels Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U63040RJ1991PTC006058/2119—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Darshna Travels Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anjula Cements Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1991PTC006073/2121—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anjula Cements Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Trace Consultants Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1991PTC006082/2123—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Trace Consultants Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Avanti Cements Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U26943RJ1991PTC006134/2125—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Avanti Cements Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Oilex Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1992PTC006526/2127—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Golden Oilex Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. PJM Leasing and Finance Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1993PTC007489/2129—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. PJM Leasing and Finance Private Limited has this
day been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Proper Deals and Development Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1995PTC009466/2131—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Proper Deals and Development Private Limited has
this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prabha Rangai Chhapin Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ1995PTC010153/2133—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Prabha Rangai Chhapin Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Flybird Couriers Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U64120RJ1995PTC010297/2135—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Flybird Couriers Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhushan Laboratories Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U85195RJ1995PTC010563/2137—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Bhushan Laboratories Private Limited has this day
been struck off the register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanraj Securities Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1995PTC010658/2139—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Sanraj Securities Private Limited has this day been
struck off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. ARS Secfin Private Limited

Jaipur-302006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1995PTC010660/2141—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. ARS Secfin Private Limited has this day been struck
off the register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Monika Oil Refinery Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U15142RJ1995PTC/010819/2143.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Monika
Oil Refinery Private Limited has this day been struck off
the Register of and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jan Sahayog Saving and Investment
Company Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1995PTC/010913/2145.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jan
Sahayog Saving and Investment Company Limited has this
day been struck off the Register and the said Company is
dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajkamal Dry Cells Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U31402RJ1995PTC/011228/2147.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajkamal Dry Cells Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Samruddh Project Consultancy Services
Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74140RJ1996PTC/011396/2149.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Samruddh Project Consultancy Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dadiala Constructions Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1996PTC/011416/2151.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dadiala Constructions Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanji Finance Company Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1996PTC/011568/2153.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanji Finance Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lakhan Plastic Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1996PTC/011578/2155.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lakhan Plastic Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shilpi Color Lab Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74940RJ1996PTC/011587/2157.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shilpi Color Lab Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dixit Gases Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U24111RJ1996PTC/011594/2159.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dixit Gases Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajendra Kumar and Company Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74920RJ1996PTC/011712/2161.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajendra Kumar and Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Weston Sales Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U29299RJ1996PTC/011746/2163.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Weston Sales Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagriti Metals and Chemicals Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U27107RJ1996PTC/012239/2171.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jagriti Metals and Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Azink Chemicals Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U24114RJ1996PTC/011765/2165.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Azink Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amritleela India Finance Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U67120RJ1997PTC/013422/2175.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amritleela India Finance Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Adiwasi Krishi Farm and Resort Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U70109RJ1996PTC/011941/2167.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adiwasi Krishi Farm and Resort Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Savitri Colonizers Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U45201RJ1997PTC/013519/2177.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Savitri Colonizers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Leader Plast Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U25209RJ1996PTC/012020/2169.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Leader Plast Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanuman Salt and Allied Chemicals Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U14220RJ1997PTC/014179/2179.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hanuman Salt and Allied Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tiger Town Resorts Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U55101RJ2001PTC/017015/2183.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tiger Town Resorts Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bohra Entertainment Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U92120RJ2001PTC/017026/2185.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bohra Entertainment Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Meel Computers Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC/017068/2187.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meel Computers Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shastri Cold Storage and Warehousing Private
Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U63023RJ2001PTC/017105/2191.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shastri Cold Storage and Warehousing Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mosaic Softcom Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC/017106/2193.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mosaic Softcom Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. B. Synfab India Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U17124RJ2001PLC/017126/2195.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. B. Synfab India Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Samasya Samadhan Online Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74995RJ2001PTC/017163/2197.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Samasya Samadhan Online Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. D. P. M. Resorts Ventures Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U55102RJ2001PTC/017164/2199.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. D. P. M. Resorts Ventures Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nist Computer Education Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U80302RJ2001PTC/017235/2201.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nist Computer Education Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrinath Network Services Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U74995RJ2001PTC/017245/2203.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shrinath Network Services Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Zip Information and Hardware Technologies
Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC/017258/2205.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zip Information and Hardware Technologies Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Paroda Information Systems Private Limited

Jaipur-302 006, the 11th October 2007

No. ROC/JPR/560/U72200RJ2001PTC/017260/2207.—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paroda Information Systems Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
following Companies

Jaipur-302 006, the 15th November 2007

No. ROC/JPR/560/5/1172.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	003290	M/s Screen Wallets Private Limited
2.	003432	M/s. Sponsal Chemicals Private Limited
3.	003433	M/s. Dipti Ventures Private Limited
4.	003439	M/s. Reliance Investment Consultancy Private Limited
5.	003611	M/s. Ekantika Resorts Private Limited
6.	003756	M/s. Shree Wires Private Limited
7.	003765	M/s. Samarsons Decor Private Limited
8.	004176	M/s. Mala Electrodes Private Limited
9.	004369	M/s. Arya Carpets Private Limited
10.	008538	M/s. Elpee Marketing Private Limited
11.	004629	M/s. Bhilwara Hardbodisc Private Limited
12.	004642	M/s. Deeptex Suitings Private Limited
13.	004818	M/s. Gromed Pharmaceuticals (India) Private Limited
14.	004917	M/s. Goldstar Cables and Appliances Private Limited
15.	006019	M/s. Pushpa Hydrolics Private Limited
16.	006044	M/s. Shubham Solvents Private Limited
17.	006058	M/s. Darshna Travels Private Limited
18.	006073	M/s. Anjula Cements Private Limited
19.	006082	M/s. Trace Consultants Private Limited
20.	006134	M/s. Avanti Cements Private Limited
21.	006526	M/s. Golden Oilx Private Limited
22.	007489	M/s. P. J. M. Leasing and Finance Private Limited
23.	009466	M/s. Proper Deal and Development Private Limited
24.	010153	M/s. Prabha Rangai Chhapin Private Limited
25.	010297	M/s. Flybird Couriers Private Limited

1	2	3
26.	010563	M/s. Bhushan Laboratories Limited
27.	010658	M/s. Sanraj Securities Private Limited
28.	010660	M/s. A. R. S. Secfin Private Limited
29.	010819	M/s. Monika Oil Refinery Private Limited
30.	010913	M/s. Jan Sahayog Saving and Investment Company Limited
31.	011228	M/s. Rajkamal Dry Cells Private Limited
32.	011396	M/s. Samruddh Project Consultancy Services Private Limited
33.	011416	M/s. Dadiala Constructions Private Limited
34.	011568	M/s. Kanji Finance Company Private Limited
35.	011578	M/s. Lakhan Plastic Private Limited
36.	011587	M/s. Shilpi Color Lab Private Limited
37.	011594	M/s. Dixit Gases Private Limited
38.	011712	M/s. Rajendra Kumar and Company Private Limited
39.	011746	M/s. Weston Sales Private Limited
40.	011765	M/s. Azink Chemicals Private Limited
41.	011941	M/s. Adiwasi Krishi Farm and Resort Private Limited
42.	012020	M/s. Leader Plast Private Limited
43.	012239	M/s. Jagriti Metals and Chemicals Private Limited
44.	013422	M/s. Amritleela India Finance Limited
45.	013519	M/s. Savitri Colonizers Private Limited
46.	014179	M/s. Hanuman Salt and Allied Chemicals Private Limited
47.	017015	M/s. Tiger Town Resorts Private Limited
48.	017026	M/s. Bohra Entertainment Private Limited
49.	017068	M/s. Meel Computers Private Limited
50.	017105	M/s. Shastri Cold Storage and Warehousing Private Limited
51.	017106	M/s. Mosaic Softcom Private Limited
52.	017126	M/s. A. B. Synfab India Limited
53.	017163	M/s. Samasya Samadhan Online Private Limited
54.	017164	M/s. D. P. M. Resorts Ventures Private Limited
55.	017235	M/s. Nist Computer Education Private Limited

1	2	3
56.	017245	M/s. Shrinath Network Services Private Limited
57.	017258	M/s. Zip Information and Hardware Technologies Private Limited
58.	017260	M/s. Paroda Information Systems Private Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mod Planners Private Limited

Jaipur-302 006, the 25th March 2008

No. ROC/IPR/560/17576/366—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Mod Planners Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Eyatra Online (India) Private Limited

Jaipur-302 006, the 25th March 2008

No. ROC/IPR/560/20259/370—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Eyatra Online (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. V. Fairdeals Private Limited

Jaipur-302 006, the 31st March 2008

No. ROC/IPR/560/14037/377—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiry of three months from the date hereof the name of M/s. A. V. Fairdeals Private Limited unless cause is shown to the contrary,

will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Reliable Softek Private Limited

Jaipur-302 006, the 31st March 2008

No. ROC/JPR/560/18060/381—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Reliable Softek Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
following Companies

Gwalior-474 009, the 30th April 2008

No. ROC-GC/u/s. 560(5)/2008/171—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	000003	M/s Dewas Techno Products Private Limited
2.	000005	M/s. N. P. Spinners Private Limited
3.	000007	M/s. Ashoka Trans-Gum Private Limited
4.	000024	M/s. The Pasari Flour Mills Limited
5.	000027	M/s. The Swadeshi Cotton & Flour Mills Limited
6.	000119	M/s. Passari Flour Mills Limited
7.	000179	M/s. Sutlej Cotton Mills Limited
8.	000213	M/s. Gwalior Maize Products Limited
9.	000223	M/s. The Malwa General Food Growing Corporation Limited
10.	000239	M/s. Balkrishna Shah & Co. Private Limited
11.	000309	M/s. Sheikh Rasool Motor Transport Company Limited

1	2	3
12.	000365	M/s. Lalwani Litho & Type Works Private Limited
13.	000378	M/s. The Central Trading Co. (Harda) Private Limited
14.	000447	M/s. Prakhar Chemicals Private Limited
15.	000451	M/s. Rewa Mining Co. Limited
16.	000457	M/s. The Rewa Mining Company Private Limited
17.	000568	M/s. J. K. Agents Private Limited
18.	000569	M/s. The Land Development Co. (M. B.) Private Limited
19.	000712	M/s. Annapurna Farms Private Limited
20.	000773	M/s. Digvijay Industries Private Limited
21.	000779	M/s. Katni Lime Manufacturing Co. Private Limited
22.	000851	M/s. M. P. Publications Private Limited
23.	000900	M/s. Gwalior Electricals Industries Private Limited
24.	000905	M/s. Madhya Pradesh Iron and Steel Works Private Limited
25.	000908	M/s. Shree Satpura Transport Co. Private Limited
26.	000916	M/s. The Trust Association of Christian Institutions
27.	000940	M/s. Central Paints Limited
28.	000941	M/s. Hind Cycles Limited
29.	000947	M/s. Bhopal M. P. Finance Company Private Limited
30.	000962	M/s. D & D India Private Limited
31.	000970	M/s. Samrat India Private Limited Indore
32.	000972	M/s. Citizen Newspapers
33.	000979	M/s. Mangal Chand Hukmichand Industries Private Limited Indore
34.	000982	M/s. Ideal Financing & Trading Co. Private Limited
35.	000993	M/s. New Highways Transport Carriers Private Limited
36.	000994	M/s. Pioneer Co. Private Limited
37.	000999	M/s. Bidi & Allied Tobacco Products Private Limited
38.	001002	M/s. Static Transformers Private Limited
39.	001010	M/s. P. S. Sohi & Co. Private Limited

1	2	3
40.	001012	M/s. Rivets Manufacturing Co. Private Limited
41.	001013	M/s. Panama Tools & Implements Private Limited
42.	001015	M/s. Sohi Explosives Limited
43.	001018	M/s. Bundelkhand Financiers Private Limited
44.	001022	M/s. Delhi Ayurvedic Pharmacy Gwalior Private Limited
45.	001023	M/s. Shrestha Udyog Private Limited
46.	001026	M/s. Lamina Industries Private Limited
47.	001034	M/s. Casmo Traders (India) Private Limited
48.	001036	M/s. Commercial Book Centre Private Limited
49.	001037	M/s. Vijay Plastic Private Limited
50.	001041	M/s. V. K. Agro Industries Private Limited
51.	001042	M/s. Pioneer Cotton Co. Private Limited
52.	001044	M/s. Indore Potteries Private Limited
53.	001045	M/s. Bhartiya Shokshanik Prakashan Private Limited
54.	001046	M/s. Rahul Steel Forgings Private Limited
55.	001047	M/s. Malwa Dhakar Corporation Limited
56.	001048	M/s. United Tyres India Private Limited
57.	001054	M/s. Central Cycle Industries Private Limited
58.	001058	M/s. Chhaya Chitra Private Limited
59.	001060	M/s. EGG Products (India) Private Limited
60.	001062	M/s. Bharati Publications Private Limited
61.	001068	M/s. Rajdoot Hotel Enterprise Corporation (Bhopal) Private Limited
62.	001073	M/s. Services Association of the Chritichy (Disciples)
63.	001075	M/s. The Bilaspur Paper and Board Mills Private Limited
64.	001077	M/s. Dhanlaxmi Finance Private Limited
65.	001078	M/s. Quality Engineering and Electrical Products Private Limited
66.	001079	M/s. P. V. C. Pipes and Allied Products Private Limited
67.	001089	M/s. Mukta Finance Private Limited

1	2	3
68.	001090	M/s. Rupa Foaming Co. Private Limited
69.	001091	M/s. Taswin Benefit Finance Private Limited
70.	001092	M/s. Ex Military Junior Commissioned Officers Transports Co. Private Limited
71.	001094	M/s. Fine Films Private Limited
72.	001099	M/s. Nerukar Research Centre Private Limited
73.	001102	M/s. Kesri Steel Industries Limited
74.	001108	M/s. Surguja Financiers Private Limited
75.	001109	M/s. Gwalior Agro Deve & Finance Co. Private Limited
76.	001111	M/s. Sunita Chit & Finance Private Limited
77.	001113	M/s. Rangdhara Chit Fund Private Limited
78.	001118	M/s. Veena Finance & Trading Co. Private Limited
79.	001120	M/s. Vijayant Saving & Chit Finance Co. Private Limited
80.	001122	M/s. Agro Culture Private Limited
81.	001123	M/s. Janki Bachat and Finance Unit Private Limited
82.	001129	M/s. Piploda Farm Products Private Limited
83.	001133	M/s. Shekhar Trading Company Private Limited
84.	001136	M/s. Shri Mahalaxmi Finance Co. Indore Private Limited
85.	001140	M/s. Central India Agro Development Co. Private Limited
86.	001147	M/s. Northern India Fruit Growers & Farmers Private Limited
87.	001150	M/s. Lashkar Agricultural & Cottage Industries Private Limited
88.	001151	M/s. Bhagya Laxmi Investment (Ujjain) Private Limited
89.	001153	M/s. Madhya Pradesh Farmers and Colonisers Private Limited
90.	001158	M/s. Shri Hap Chemical Industries Private Limited
91.	001160	M/s. Murlidhar Unit Savings and Financiers Private Limited
92.	001162	M/s. Rakesh Chit Fund Private Limited

1	2	3	1	2	3
93.	001163	M/s. Vishwa Bhraman Printers & Publishers Private Limited	120.	001246	M/s. Kalani Yarn Private Limited
94.	001164	M/s. Pharma D Venus Private Limited	121.	001247	M/s. Kamgar Vikas Saving & Finance Co. Private Limited
95.	001165	M/s. Shreevijay Nutritions Private Limited	122.	001257	M/s. Gautam Finance & Chit Fund Private Limited
96.	001166	M/s. United Duplicators Private Limited	123.	001259	M/s. Dumez Engineers Private Limited
97.	001169	M/s. Kadey Advertising Agency Private Limited	124.	001262	M/s. Red Star Chit Fund & Coal Traders Private Limited
98.	001175	M/s. Dewas Tyres Private Limited	125.	001267	M/s. Bastar Oil Products Private Limited
99.	001178	M/s. Indore Colonisers Private Limited	126.	001276	M/s. Rose Finance Sugar Private Limited
100.	001181	M/s. Gwalior Savings Private Limited	127.	001280	M/s. Triveni Drilling and Mining Equipments Private Limited
101.	001182	M/s. Munvar Benefit (Chit Fund) Financial Private Limited	128.	001285	M/s. Mohta Paper Mills Limited
102.	001185	M/s. Kisan Cold Storage Gwalior Private Limited	129.	001290	M/s. Anas Textiles Mills Private Limited
103.	001187	M/s. Udai Finance Private Limited	130.	001293	M/s. Campha Dyes and Pesticides Limited
104.	001188	M/s. Jyotima Finance Private Limited	131.	001296	M/s. Anurag Chemicals Udyog Private Limited
105.	001189	M/s. Archana Savings & Finance Private Limited	132.	001299	M/s. Bandhawa Benefit and Investment Co. Private Limited
106.	001191	M/s. Madhya Pradesh Saving Unit Private Limited	133.	001300	M/s. Vipul Investment Private Limited
107.	001193	M/s. Dholpur Colonisers and Agro Development Company Private Limited	134.	001306	M/s. Danteshwari Savings & Financiers Private Limited
108.	001196	M/s. Jhoolelal Benefit & Finance Co. Private Limited	135.	001312	M/s. M. P. Synthetic Paints & Varnish Works Private Limited
109.	001206	M/s. Anand Behari Steel Wire Products Private Limited	136.	001316	M/s. Rajdhan Investment Private Limited
110.	001208	M/s. Elcid Travels Private Limited	137.	001317	M/s. Parijat Chemicals Private Limited
111.	001209	M/s. Neelkamal Agro Implements & Engineering Company Private Limited	138.	001319	M/s. Malav Krishi Udyog (Indore) Private Limited
112.	001211	M/s. Motors and Tractors Private Limited	139.	001322	M/s. Vindhya Investments & Finance Private Limited
113.	001215	M/s. Triumphant Chit Funds Private Limited	140.	001335	M/s. Delux Hotel & Trading Co. Private Limited
114.	001221	M/s. Indore Chit & Finance Co. Private Limited	141.	001336	M/s. Preet Industries & Farm Private Limited
115.	001224	M/s. Orient Roadways Gwalior Private Limited	142.	001338	M/s. Shanvir Heavy Fabrics Private Limited
116.	001230	M/s. Kymore Investment Benefit Co. Private Limited	143.	001340	M/s. Pratibha Finance Private Limited
117.	001231	M/s. Steel Pipes of India Limited	144.	001342	M/s. Vee Kay Water Proofings Private Limited
118.	001232	M/s. Kamdhenu Investments & Trading Co. Private Limited	145.	001348	M/s. Madhya Bharat Petro Chemicals Limited
119.	001236	M/s. H. B. Shastri Chemicals & Steels Private Limited	146.	001349	M/s. Chhajer Publications Private Limited
			147.	001358	M/s. Vishal Hotel Private Limited

1	2	3	1	2	3
148.	001362	M/s. Kanhiji Gases Private Limited	178.	001739	M/s. Nerurkar Laboratories Private Limited
149.	001367	M/s. Dakshin Delhi Express Cargo Service Private Limited	179.	001740	M/s. Divine Pharmaceuticals Private Limited
150.	001368	M/s. Dumet Wire India Limited	180.	001747	M/s. Alchemy Pharmaceuticals Private Limited
151.	001378	M/s. M. P. Tractors Private Limited	181.	001750	M/s. Shakti Rajudyog (Raipur) Private Limited
152.	001380	M/s. Rai Colonising & Publication Private Limited	182.	001751	M/s. Lekha Vijay Investments Private Limited
153.	001391	M/s. Devender Construction & Colonising Private Limited	183.	001758	M/s. Sabot India Rubber Private Limited
154.	001398	M/s. Adcon Electricals Private Limited	184.	001763	M/s. Nakoda Estate and Finance Private Limited
155.	001460	M/s. Dogar Strips Private Limited	185.	001776	M/s. Sacks and Bags Private Limited
156.	001504	M/s. Madumilan Industries Limited	186.	001781	M/s. Amit Cold Storages Private Limited
157.	001593	M/s. Simplex Castings Private Limited	187.	001782	M/s. Jan Dharam Prakashan Limited
158.	001609	M/s. N. G. M. Enterprises Private Limited	188.	001789	M/s. Shri Kamad Papers Private Limited
159.	001628	M/s. Investment and Engineers Private Limited	189.	001792	M/s. Shanti Industries Private Limited
160.	001644	M/s. Computing and Technology Consultants Private Limited	190.	001795	M/s. Bahel's Industries Private Limited
161.	001661	M/s. Godavari Sons Industries Private Limited	191.	001796	M/s. Arihant Food Products Private Limited
162.	001665	M/s. Prem Transport Co. Private Limited	192.	001798	M/s. Indra Chits and Investments Private Limited
163.	001666	M/s. Prem Enterprises Private Limited	193.	001799	M/s. Surya Proteins Limited
164.	001679	M/s. Tracways Timbers Private Limited	194.	001800	M/s. Techno Industrial Equipments Private Limited
165.	001695	M/s. Jain Industrial and Business Consultants Private Limited	195.	001801	M/s. PEC Papers Limited
166.	001700	M/s. Kabra Soya Extractors Private Limited	196.	001802	M/s. Chemin Private Limited
167.	001702	M/s. R. B. Muchhal Syntex Private Limited	197.	001803	M/s. Malwa Distillery Private Limited
168.	001711	M/s. Garlic Processors Private Limited	198.	001806	M/s. Orient Road Transport Carrier Private Limited
169.	001717	M/s. Balwada Cement Limited	199.	001807	M/s. Decorative Veneers & Plywood Private Limited
170.	001719	M/s. Maheudale and Madeudale Private Limited	200.	001811	M/s. Creative Media and Marketing Private Limited
171.	001720	M/s. M. P. Knitting Mills Private Limited	201.	001817	M/s. Arbitree Chem Pharma Limited
172.	001726	M/s. Vostok Pharmaceuticals (India) Private Limited	202.	001818	M/s. SPG Gums & Chemicals Private Limited
173.	001727	M/s. Holy Feathers Agro-Hortica and Exports Private Limited	203.	001823	M/s. Shyam Trading Company Private Limited
174.	001731	M/s. Gwalior Ancillary Industries Private Limited	204.	001828	M/s. Hoshangabad Engineering Company Private Limited
175.	001733	M/s. Chandrakiran Medical Research Centre Private Limited			
176.	001735	M/s. Bharat Cylinders Limited			
177.	001736	M/s. Lokchetna Prakashan Limited			

1	2	3	1	2	3
205.	001829	M/s. Bharat Breweries & Allied Industries Private Limited	232.	001955	M/s. Choudhury Machine Tools (Indore) Private Limited
206.	001842	M/s. Aries Limes Private Limited	233.	001958	M/s. M. L. Bajaj Enterprises Private Limited
207.	001843	M/s. Parvati Proteins Private Limited	234.	001963	M/s. Sarah Cements Private Limited
208.	001844	M/s. Mineral India Private Limited	235.	001965	M/s. Madhya Pradesh Cotton Waste Co. Private Limited
209.	001848	M/s. Meghdoot Agro Electricals Private Limited	236.	001966	M/s. A. P. Instruments Private Limited
210.	001854	M/s. Manish Auto Trading & Engineers Private Limited	237.	001967	M/s. Apins Switchgears Private Limited
211.	001859	M/s. Gaurav Cement Company Private Limited	238.	001968	M/s. Fabrocast Engineers Private Limited
212.	001860	M/s. Form Forge Private Limited	239.	001970	M/s. M. P. Packaging Co. Private Limited
213.	001861	M/s. Vikram Welding Private Limited	240.	001977	M/s. Tip Top Printers Private Limited
214.	001864	M/s. Shri Saddha Baba Foods Feeds and Chemicals Private Limited	241.	001978	M/s. Ras Printer Private Limited
215.	001875	M/s. Shree Balaji Oil Refinery Private Limited	242.	001985	M/s. Gaurav Movies Private Limited
216.	001876	M/s. Orion Auto & Steel Industries Private Limited	243.	001992	M/s. Chhindwara Khandsari Private Limited
217.	001880	M/s. Kasta Extrusion Private Limited	244.	002002	M/s. Adcon Switchgear & Electricals Private Limited
218.	001883	M/s. Shama Solvent Extractions Private Limited	245.	002009	M/s. Paragon Paper Mills Private Limited
219.	001885	M/s. S. K. Switches Private Limited	246.	002146	M/s. Shree Umesh Biri Udyog Private Limited
220.	001888	M/s. Transfusions (India) Private Limited	247.	002151	M/s. Materials Control Systems Private Limited
221.	001905	M/s. Security & Intelligence Guard Services Private Limited	248.	002165	M/s. Santosh Rolling Mills Private Limited
222.	001914	M/s. Monica Processing Plants Private Limited	249.	002234	M/s. G. S. Cements Private Limited
223.	001916	M/s. Enzymes India Private Limited	250.	002312	M/s. Saptarishi Dairy Private Limited
224.	001920	M/s. Ganesh Oils & Solvents Private Limited	251.	002367	M/s. Shree Keshariaji Cements Private Limited
225.	001926	M/s. Reynard Kay (India) Private Limited	252.	002467	M/s. Kam Pharmaceuticals Private Limited
226.	001940	M/s. Shramev Jayate Private Limited	253.	002479	M/s. Convertor Technology Private Limited
227.	001941	M/s. Gulmohar Investment & Trading Company Private Limited	254.	002552	M/s. Ocean Minerals & Industrial Gases Private Limited
228.	001942	M/s. Aravalli Trading & Investment Company Private Limited	255.	002595	M/s. A. K. Gauravdeep Investments & Finance Co. Private Limited
229.	001943	M/s. Sitara Investment & Trading Company Private Limited	256.	002600	M/s. Sanchi Export Private Limited
230.	001948	M/s. M. P. Vikas Electrodes Private Limited	257.	002649	M/s. Padson Chem Pharma Private Limited
231.	001953	M/s. Teknomech Switchgears Private Limited	258.	002650	M/s. Shivam Cements Limited
			259.	002658	M/s. Pratap Cement & Industries Private Limited

1	2	3	1	2	3
260.	002661	M/s. Satpura Stones Private Limited	289.	003100	M/s. Korea Credit and Investment Private Limited
261.	002662	M/s. Pitambra Breweries Private Limited	290.	003105	M/s. Nix Group of Borewells Private Limited
262.	002686	M/s. Sewa Electronics Private Limited	291.	003139	M/s. Dean Foods Private Limited
263.	002687	M/s. Easton Televisions Private Limited	292.	003149	M/s. Kith Engineering Private Limited
264.	002690	M/s. Hotel Shriman and Properties Private Limited	293.	003150	M/s. Shahdol Plastics Private Limited
265.	002696	M/s. Pasajan Electro Private Limited	294.	003195	M/s. Suta Wire Industries Private Limited
266.	002708	M/s. Fareast Oriental Impex Private Limited	295.	003258	M/s. P. C. Electrochem Processores Private Limited
267.	002712	M/s. Ashoka Gelicap Private Limited	296.	003259	M/s. Malwa Hotels Private Limited
268.	002720	M/s. Yamuna Pipe Industries Private Limited	297.	003278	M/s. Bhopal Technical and Vocational Training Centre
269.	002723	M/s. Madhya Pradesh Surekha Cement Limited	298.	003340	M/s. Gramlaxmi Oil & Foods Limited
270.	002726	M/s. Agile Domestic and Project Services Private Limited	299.	003346	M/s. Bankhan Deshwar Construction Private Limited
271.	002728	M/s. S. H. Badsha Construction Private Limited	300.	003441	M/s. Maharashtra Land Development & Investment Company Limited
272.	002736	M/s. Annapurna Spinners Private Limited	301.	003515	M/s. Gwalior Chrome Tannery Private Limited
273.	002747	M/s. Chirayu Engineers and Manufacturers Private Limited	302.	003587	M/s. Dhar Drillers & Engineers Private Limited
274.	002754	M/s. Indore Organics and Energy Private Limited	303.	003784	M/s. R. S. Shrivastava & Co. Surveyors Private Limited
275.	002758	M/s. J. P. Castings Private Limited	304.	003805	M/s. Pithampur Gases Private Limited
276.	002761	M/s. M. P. Castor Products (India) Private Limited	305.	003906	M/s. Oswal Constructions Private Limited
277.	002763	M/s. Polyfine Chemicals Private Limited	306.	004005	M/s. Shri Vanktesh Oil Extraction Private Limited
278.	002766	M/s. Lalwani Industrial & Decorators Private Limited	307.	004014	M/s. Shivpuri Chemicals Private Limited
279.	002767	M/s. Gwalior Beverages and Allied Industries Private Limited	308.	004020	M/s. Bhanu Packing & Plastics Private Limited
280.	002770	M/s. Joint Containers Private Limited	309.	004024	M/s. Bansal Disposable Health Products Private Limited
281.	002772	M/s. Dhanlaxmi Rubber Private Limited	310.	004025	M/s. Guru Aluminium Extrusion Private Limited
282.	002778	M/s. Midland Cement Private Limited	311.	004026	M/s. Bumpy Finance Private Limited
283.	002779	M/s. Bagree Profiles Private Limited	312.	004032	M/s. K. K. Electricals Industries Private Limited
284.	002784	M/s. Diamond Convention Chits and Finance Private Limited	313.	004034	M/s. Padmshree Constructions Private Limited
285.	002792	M/s. Sidharth Exports Co. Private Limited	314.	004037	M/s. Genuine Investments Private Limited
286.	002833	M/s. Mptron Electronics Private Limited	315.	004040	M/s. Hemu Agro Poly Products Private Limited
287.	003019	M/s. Modular Consultants Private Limited			
288.	003042	M/s. Central India Consultancy Organisation Private Limited			

1	2	3	1	2	3
316.	004047	M/s. Akrati Construction Private Limited	346.	004173	M/s. Taaj Management Consultancy Services Private Limited
317.	004050	M/s. Arkay Instrument Private Limited	347.	004181	M/s. Deepak Ispat Udyog Private Limited
318.	004053	M/s. Blue Sky Hotels Private Limited	348.	004184	M/s. Shan Medical Products Private Limited
319.	004066	M/s. Pravi Builders Private Limited	349.	004185	M/s. Kanak Ceramics India Private Limited
320.	004079	M/s. Maruti Minings Private Limited	350.	004190	M/s. Dhanlaxmi Investment & Leasing Private Limited
321.	004081	M/s. Rani Sati Buildings Products Private Limited	351.	004191	M/s. Havika Consultants & Traders Private Limited
322.	004094	M/s. Llyod Tools Private Limited	352.	004197	M/s. Suncon Steel Casting Private Limited
323.	004100	M/s. Tirupati Computers Private Limited	353.	004199	M/s. M. J. Paper Board Private Limited
324.	004105	M/s. S. S. J. Management & Financial Consultants Private Limited	354.	004212	M/s. Veeline Plastics Private Limited
325.	004106	M/s. Kashipra Marketing Services Private Limited	355.	004231	M/s. Parke Central Media Private Limited
326.	004111	M/s. Tap Polymers Private Limited	356.	004232	M/s. Mex Grills Private Limited
327.	004117	M/s. Modern Realtors Private Limited	357.	004238	M/s. Kapadia Fashions Private Limited
328.	004118	M/s. M. P. Cold Forms Limited	358.	004245	M/s. Progressive Computer Systems Private Limited
329.	004120	M/s. Tecomax Consultants Private Limited	359.	004246	M/s. Tripathi Industrial Consultants Private Limited
330.	004121	M/s. Annapurna Flour and Foods Private Limited	360.	004249	M/s. D. Krishna Exhibitors Private Limited
331.	004126	M/s. Kalyan Constructions Private Limited	361.	004250	M/s. Sanchi Granites & Marbles Private Limited
332.	004133	M/s. Shri Ambika Hoteliers & Builders Private Limited	362.	004263	M/s. A. K. Chemicals Private Limited
333.	004136	M/s. Shivendra Glass Private Limited	363.	004290	M/s. Daryasarang Pashu Dhan Private Limited
334.	004137	M/s. Refco Appliances Limited	364.	004343	M/s. Aearco Refrigeration Private Limited
335.	004138	M/s. Abhishek Techno Private Limited	365.	004484	M/s. Shubh Developers Private Limited
336.	004141	M/s. Berar Agro Industries Private Limited	366.	004499	M/s. Gaikwad Computers Stationeries Private Limited
337.	004142	M/s. Stan Tan Private Limited	367.	004501	M/s. Pacafic Pharmaceuticals Private Limited
338.	004144	M/s. N. K. Rubbers Private Limited	368.	004537	M/s. Raipur Cool Tech. Private Limited
339.	004149	M/s. Binota Metals Private Limited	369.	004589	M/s. Magnus Pharma Sales Private Limited
340.	004150	M/s. Satelite Engineering Industries Private Limited	370.	004598	M/s. Pan Hosiery Manufacturing Company Private Limited
341.	004151	M/s. Nidhi Sales Private Limited	371.	004703	M/s. Sarvottam Hosiery and Machineries Private Limited
342.	004155	M/s. Vimal Agro Industries Private Limited	372.	004914	M/s. Sanvaliya Agro Products Private Limited
343.	004158	M/s. Perfect Consulting Engineers Private Limited			
344.	004165	M/s. Rana Industrial Consultants Private Limited			
345.	004169	M/s. Rewa Plastics Private Limited			

1	2	3	1	2	3
373.	005106	M/s. Chatwani Builders Private Limited	402.	007137	M/s. Aries Powers Setters Private Limited
374.	005219	M/s. Gangwar Steelage Private Limited	403.	007150	M/s. Durshan Wires Private Limited
375.	005314	M/s. Laxmi Domestic Appliances Private Limited	404.	007499	M/s. Maruti Plantations Private Limited
376.	005338	M/s. Memory Constructions Private Limited	405.	007610	M/s. Naujawan Publication Private Limited
377.	005433	M/s. Sai Kripa Detective Agency Private Limited	406.	007651	M/s. Vijay Techno Chem (Gwalior) Private Limited
378.	005503	M/s. Singhanian Fashion Wears Private Limited	407.	007687	M/s. Nagrik Constructions Private Limited
379.	005853	M/s. Prakash Ceramics Limited	408.	007808	M/s. Katni Holdings Limited
380.	005912	M/s. Midland Tools Private Limited	409.	007815	M/s. Al-Amanat Finance & Capital Services Limited
381.	005925	M/s. Anubhuti Constructions Private Limited	410.	007816	M/s. Soma Oils and Chemicals Limited
382.	005982	M/s. Sameer Medicals Private Limited	411.	007846	M/s. Tambi Textiles Private Limited
383.	006039	M/s. Rajusha Housing & Real Estate Private Limited	412.	007925	M/s. Tarnado Investments and Sales Private Limited
384.	006356	M/s. Supershine Tinplate Company Private Limited	413.	008174	M/s. Duckfin Finance Limited
385.	006436	M/s. Madalsa Investment Company Private Limited	414.	008180	M/s. Chambal Finance and Leasing Limited
386.	006477	M/s. Tornado Coal Manufacturing Private Limited	415.	008204	M/s. Jeevansankya Housing Finance and Investment (India) Limited
387.	006483	M/s. Madalsa Trade & Finance Private Limited	416.	008214	M/s. Giridhar Securities and Finvest Limited
388.	006508	M/s. Narmada Pulverizers Private Limited	417.	008245	M/s. Khajranawala Finance Limited
389.	006532	M/s. Gautam Rasayan Private Limited	418.	008279	M/s. Allianz Interactive Digital Media Private Limited
390.	006543	M/s. Samaj Paper Private Limited	419.	008330	M/s. Kailashkuntal Engineering Private Limited
391.	006551	M/s. Mangalam Cryogenics Limited	420.	008412	M/s. A. R. K. Electricals Private Limited
392.	006625	M/s. Lokesh Oil Extractions Private Limited	421.	008454	M/s. Gauravdeep Overseas Limited
393.	006673	M/s. Atlantik Batteries Private Limited	422.	008460	M/s. Star Beam Finance Private Limited
394.	006691	M/s. Shanti Coal Private Limited	423.	008550	M/s. Kanha Construction Private Limited
395.	006706	M/s. Jabalpur Coals Private Limited	424.	008602	M/s. Western Laboratories Private Limited
396.	006711	M/s. Kanika Coals Private Limited	425.	008628	M/s. Vaishonoosharda Constructions Private Limited
397.	006754	M/s. Madharia Cement Private Limited	426.	008681	M/s. Rashmi Grih Nirman Private Limited
398.	006907	M/s. San Comp Stationery Private Limited	427.	008759	M/s. Jayaswal Transport Private Limited
399.	006933	M/s. Laxminarayan Radhaballabh Private Limited	428.	008848	M/s. Glacier Securities Private Limited
400.	007042	M/s. Raipur Abrasives Private Limited	429.	008855	M/s. Kamayani Capital Market Private Limited
401.	007131	M/s. Chamunda Marketing Company Private Limited	430.	008868	M/s. Utkarsh Foods Limited

1	2	3	1	2	3
431.	008904	M/s. Muchhal Capital Market Private Limited	460.	010898	M/s. Hukumchand Rerolling Mills Private Limited
432.	008924	M/s. Pragma Printers Private Limited	461.	011005	M/s. Mrignayni Green Forest (India) Limited
433.	008942	M/s. L. Jagwani Constructions Private Limited	462.	011013	M/s. Urvashi Trading Private Limited
434.	008992	M/s. Youth Agro and Housing Development Limited	463.	011071	M/s. P. V. Mushrooms Limited
435.	008999	M/s. Kashif Builders Private Limited	464.	011078	M/s. Sanskar Construction Private Limited
436.	009069	M/s. Beta Cements Limited	465.	011113	M/s. Kailash Pati Auto Fabricators Private Limited
437.	009218	M/s. M. R. Printers Limited	466.	011114	M/s. Protector (India) Pharmaceuticals Private Limited
438.	009223	M/s. N. J. A. Finvist Private Limited	467.	011115	M/s. C. K. Contractors and Builders Private Limited
439.	009352	M/s. Rajus Colonizing and Constructions Private Limited	468.	011177	M/s. Sagar Finsec Limited
440.	009493	M/s. Trishool Security Services Private Limited	469.	011188	M/s. Panchayati Plantation Private Limited
441.	009503	M/s. AAA Housing Finance Private Limited	470.	011189	M/s. SLK Construction Private Limited
442.	009584	M/s. Innovation Computers Private Limited	471.	011194	M/s. Fahad Industries Limited
443.	009608	M/s. Shreecon Housing Finance Limited	472.	011248	M/s. Pendrawala Finance Company Private Limited
444.	009768	M/s. Silversoft Informatics and Services Limited	473.	011250	M/s. Rosemary Agrotech and Investment Limited
445.	009892	M/s. Orbit Telecom (India) Private Limited	474.	011265	M/s. Sai Sidhi Finvest Private Limited
446.	009955	M/s. Sweta Builders Private Limited	475.	011271	M/s. Saral Finlease and Housing Finance Limited
447.	009960	M/s. J. J. Plywood Limited	476.	011287	M/s. Madhuri Finvest Limited
448.	010088	M/s. Navkar Capital Market Private Limited	477.	011288	M/s. Vallabhashriya Investment and Finance Limited
449.	010216	M/s. Arman Marketing Private Limited	478.	011312	M/s. Parastuti Media Communications Private Limited
450.	010251	M/s. Noble Footwear Private Limited	479.	011313	M/s. Chandrasen Petro and Finance Private Limited
451.	010265	M/s. Rain Top Farms and Forest Limited	480.	011314	M/s. Om Message Services Private Limited
452.	010362	M/s. Carewell Capital Markets Limited	481.	011321	M/s. Memorial Green Earth Plantation and Developers (India) Limited
453.	010401	M/s. Madhya Pradesh Lok Vikas Finance Limited	482.	011330	M/s. Trinity School Private Limited
454.	010466	M/s. Passim Constructions Private Limited	483.	011341	M/s. Hindustan Sunrise Agro Limited
455.	010540	M/s. M. P. Pacific Granites Limited	484.	011342	M/s. Moujilal Finance and Investment Private Limited
456.	010662	M/s. Mahaveer Dairys Private Limited	485.	011343	M/s. Golden Eagle Security Services Private Limited
457.	010743	M/s. Lifecare Maternity and Nursing Home Private Limited			
458.	010827	M/s. Aranya Wood Private Limited			
459.	010898	M/s. Hukumchand Rerolling Mills Private Limited			

1	2	3	1	2	3
486.	011349	M/s. Kalchuri Daires Limited	515.	011526	M/s. Shagun Finlease Limited
487.	011351	M/s. Viners Finvest (India) Limited	516.	011527	M/s. Perfect Micros Private Limited
488.	011352	M/s. P and B Finlease Private Limited	517.	011533	M/s. Aakriti Rocks Private Limited
489.	011357	M/s. Modern Biochem Private Limited	518.	011570	M/s. Dhanversha Plantation Private Limited
490.	011360	M/s. Chordia Agencies Private Limited	519.	011585	M/s. Jenam Finvest Private Limited
491.	011367	M/s. Vindhyawasni Finvest Private Limited	520.	011604	M/s. Mansarovar Departmental Stores Private Limited
492.	011377	M/s. Satyam Shivam Sundram Plantation and Finvest Limited	521.	011640	M/s. M. M. P. Enterprises Private Limited
493.	011385	M/s. Maharishi Green Forest Limited	522.	011652	M/s. Word Finvest Limited
494.	011401	M/s. Juneja Safe Works (Gwalior) Private Limited	523.	011655	M/s. Vector Drugs Private Limited
495.	011403	M/s. Akshyavat Agro and Farms Limited	524.	011673	M/s. Vasundhara Gurukulam Private Limited
496.	011406	M/s. Tiberwal Infotech Private Limited	525.	011712	M/s. Sugandha Finsec (India) Limited
497.	011410	M/s. Vyas Estates India Private Limited	526.	011715	M/s. Mangal Nath Agrotech Limited
498.	011412	M/s. Reliable Daily Need Services Private Limited	527.	011716	M/s. Contech Digital Systems Private Limited
499.	011417	M/s. Maiher Commercial and Finance Company Limited	528.	011737	M/s. Jay Jay Em Leasing and Finance (India) Limited
500.	011427	M/s. Renown Interior Private Limited	529.	011741	M/s. Pee-Bee Edifying Informatics Private Limited
501.	011431	M/s. Kanha Courier Services Private Limited	530.	011746	M/s. Pace Infolink Private Limited
502.	011433	M/s. Ashwarya Finvest Limited	531.	011750	M/s. Licap Health Care Private Limited
503.	011445	M/s. Goldline Green India Finsec Limited	532.	011754	M/s. Mahakaushal Resorts and Hotel Limited
504.	011463	M/s. Gauravdeep Laboratories Private Limited	533.	011755	M/s. Mahakaushal Finvest Limited
505.	011467	M/s. Fenny Constructions Private Limited	534.	011771	M/s. Tribhuvan Finlease Private Limited
506.	011475	M/s. Nihal Karan Constructions Private Limited	535.	011780	M/s. Sanskar Dhani Agro Vet Pharma Limited
507.	011476	M/s. Upendra Singh Developer and Contractor Private Limited	536.	011799	M/s. Kalpraj Developers and Builders Private Limited
508.	011481	M/s. Stephano Consultancy Limited	537.	011801	M/s. Shreecon Agro Limited
509.	011482	M/s. Anchal Tour and Travels Private Limited	538.	011811	M/s. Adi Sai Construction and Management Private Limited
510.	011489	M/s. CIC Leasing (India) Limited	539.	011814	M/s. Deepsangit Plantation Limited
511.	011490	M/s. G. R. S. Constructions Private Limited	540.	011829	M/s. Prakhar Iron and Steel Private Limited
512.	011511	M/s. Mahakali General Finance and Leasing Private Limited	541.	011842	M/s. Bandhavgarh Agro Forestry Limited
513.	011516	M/s. Senatorial India Leasing and Finance Limited	542.	011844	M/s. Saubhagya Grains and Horticultop Limited
514.	011519	M/s. Wainaganga Finlease (India) Limited	543.	011845	M/s. Shri Manibhadra Coating Private Limited

1	2	3
544.	011856	M/s. Anjani Cold Storage Private Limited
545.	011856	M/s. Anjani Cold Storage Private Limited
546.	011870	M/s. Rising Overseas Private Limited
547.	011879	M/s. Kanishka Colonisers Private Limited
548.	011977	M/s. Vasundhara Communications Limited
549.	011989	M/s. Dot to Dot Courier and Cargo Private Limited
550.	012013	M/s. Chetak Carriers Private Limited
551.	012125	M/s. H. K. Real Estates (India) Limited
552.	012132	M/s. Teon Impex Private Limited
553.	012168	M/s. Dwarkadas Hotels Private Limited
554.	012206	M/s. Zorin Labs Private Limited
555.	012677	M/s. Yaman Farms and Forestry Limited
556.	012783	M/s. Mine and Quest Equipment International Limited
557.	012798	M/s. Nextgen Information Systems Private Limited
558.	012803	M/s. Status Portfolio Private Limited
559.	012804	M/s. Ambika Finvesti Limited
560.	012808	M/s. Dharohar Agrotech Private Limited
561.	012815	M/s. Long Life Finlease Limited
562.	012832	M/s. Aditya Milk Specialities Private Limited
563.	012846	M/s. Amaltas Club and Resorts Private Limited
564.	012869	M/s. Almas Constructions and Builders Private Limited
565.	012872	M/s. Almas Overseas Private Limited
566.	012905	M/s. Gold Star Preservative and Foods India Limited
567.	012944	M/s. Patel Wires Private Limited
568.	013000	M/s. Aditya Plasters Private Limited
569.	013148	M/s. Ashok Solvex Limited
570.	013200	M/s. Saideva Plasto Machine Private Limited
571.	013383	M/s. Balaji Prakashan Private Limited
572.	013416	M/s. Maa Jagdambe Real Estate Private Limited
573.	013419	M/s. Saidrishti Tradelinks Private Limited
574.	013455	M/s. Jaydee Biocorn High Tech Systems Private Limited

1	2	3
575.	013568	M/s. Scott Development and Contracts Private Limited
576.	013868	M/s. Sunam Marketing Private Limited
577.	013962	M/s. Prudent Consolidate Limited
578.	013996	M/s. S. G. Remedies Private Limited
579.	014018	M/s. Daji Trading Private Limited
580.	014139	M/s. Macbro Institute of Information Technology Private Limited
581.	014239	M/s. Stupa Power Limited
582.	014356	M/s. Sarvottam Diagnostic Centre Private Limited
583.	014384	M/s. Uma Flux Private Limited
584.	014416	M/s. Sheetal Palace Private Limited
585.	014459	M/s. N. T. T. Construction Private Limited
586.	014466	M/s. Anmol Herbs Private Limited
587.	014541	M/s. Shubhkaran Formulations Private Limited
588.	014544	M/s. ENM Infotech Private Limited
589.	014545	M/s. Shubham Future Point Private Limited
590.	014601	M/s. Vishram Breweries Private Limited
591.	014602	M/s. I. M. Network Distribution Private Limited
592.	014604	M/s. Nine-O-Nine Departmentals Private Limited
593.	014612	M/s. Serveshwari Mahashakti Ispat Limited
594.	014621	M/s. Jai Chhatisgarh Films Private Limited
595.	014763	M/s. Holani Trade Link Private Limited
596.	014763	M/s. Holani Trade Link Private Limited
597.	014768	M/s. Shah Derivatives Private Limited
598.	014859	M/s. Payal Fashion Exports Private Limited
599.	014909	M/s. Style Tuffs Private Limited
600.	015467	M/s. T. T. C. Carriers Private Limited
601.	015679	M/s. Orbit Departmental Store Private Limited
602.	015799	M/s. Lahar Net Concept Private Limited
603.	015801	M/s. M. P. Coat Farm and Research Centre Private Limited
604.	015808	M/s. Haripriya Foods and Cold Storage Private Limited

1	2	3	1	2	3
605.	015840	M/s. Ginia Infrastructure Private Limited	634.	016537	M/s. Shri Rani Sati Sponge Private Limited
606.	015866	M/s. Kamayani Foods and Cold Storage Private Limited	635.	016632	M/s. Maxthera Pharmaceuticals Private Limited
607.	015873	M/s. Kalpana Vision Limited	636.	016658	M/s. Brahmy Technologies Private Limited
608.	015894	M/s. Denube Overseas Private Limited	637.	016695	M/s. Klaxon Pharmaceuticals Private Limited
609.	015900	M/s. Varunodaya Expo-Links Private Limited	638.	016726	M/s. S. R. V. Hotels and Resorts Private Limited
610.	015961	M/s. Pearl Marketmen Private Limited	639.	016728	M/s. Om Sai Shakthi Bio Plantec Private Limited
611.	015983	M/s. Om Shree Marketing Private Limited	640.	016736	M/s. B. I. Chemicals Private Limited
612.	016014	M/s. Taurus Edutech Private Limited	641.	016770	M/s. Aryans Web Channels India Private Limited
613.	016015	M/s. Mpona Commercial Private Limited	642.	016771	M/s. W. V. Inet Media Private Limited
614.	016055	M/s. Dream Project Development Private Limited	643.	016788	M/s. Dav Consultants Private Limited
615.	016064	M/s. Moon Concept Marketing Private Limited	644.	016867	M/s. Ebenezer Education Private Limited
616.	016095	M/s. U. B. Soft Computers Private Limited	645.	016928	M/s. Dr. Chandak Diagnostic Hospital and Research Centre
617.	016096	M/s. Jigyasa Developers and Construction Private Limited	646.	016969	M/s. D.M. Commodity Private Limited
618.	016144	M/s. Aura Public Services Private Limited	647.	017029	M/s. Secured Home and Kids Insurance Private Limited
619.	016155	M/s. Essential Gases Private Limited	648.	017155	M/s. Ramplus Software Private Limited
620.	016202	M/s. D. S. Fuel Services Private Limited	649.	017192	M/s. Swapna Saakaar Marketring Company Private Limited
621.	016247	M/s. Planet Exports Private Limited	650.	017242	M/s. Life Long Vision Private Limited
622.	016276	M/s. Master Solution Private Limited	651.	017257	M/s. NDimensional Cyber Communication Private Limited
623.	016297	M/s. Bharadwaj Marketing and Trading Company Private Limited	652.	017294	M/s. Dhruva Marketing Private Limited
624.	016338	M/s. Institute of Nursing and Medical Sciences Private Limited	653.	017322	M/s. Backwaters Forest Resorts Private Limited
625.	016360	M/s. Shree Vishwa Overseas Private Limited	654.	017330	M/s. Shri Jagdeo Sponge Iron Private Limited
626.	016402	M/s. Bandhan Hotels Private Limited	655.	017338	M/s. Master Aluminium Private Limited
627.	016424	M/s. Napaster Technologies Private Limited	656.	017363	M/s. Gajra Juggernaut Capital Private Limited
628.	016438	M/s. You Care Marketing Private Limited	657.	017390	M/s. Murari Buildcon Private Limited
629.	016443	M/s. Computing and Technology Consultants Private Limited	658.	017404	M/s. Subodh Infotech Private Limited
630.	016466	M/s. Aquatechnic Consultancies Private Limited	659.	017456	M/s. Modi Rate Wires and Engineering Private Limited
631.	016479	M/s. Valentis Bio-Tech Private Limited	660.	017607	M/s. B. R. S. Builders and Developers Private Limited
632.	016487	M/s. Santoshkumar Ravindrakumar Trading Company Private Limited			
633.	016529	M/s. Vrindhra Real Estate Private Limited			

1	2	3
661.	017620	M/s. Rishi Reality Private Limited
662.	017726	M/s. Singhanian Teleservices Private Limited
663.	017829	M/s. A. N. B. Dairies and Allied Private Limited
664.	018134	M/s. Prodigy Foods Private Limited
665.	018143	M/s. Shrihari Iron and Steel Tube Company Private Limited
666.	018161	M/s. Narmada Agriculture Private Limited
667.	018271	M/s. Altech Infoline Raipur Private Limited
668.	018323	M/s. Sigma Institute and Career Development Private Limited
669.	018902	M/s. Pinnacle Comptech Private Limited
670.	001035	M/s. Dhanshri Private Limited
671.	001264	M/s. L. K. Mehta Trading Private Limited
672.	001315	M/s. Narmada Paper and Pulp Mills Private Limited
673.	001327	M/s. Shelly Products Private Limited
674.	001351	M/s. Shree Pashupatinath Match Industries Private Limited
675.	001766	M/s. Kalpana Steel Rollings Private Limited
676.	001815	M/s. Felt Fabrics Private Limited
677.	001972	M/s. Santosh Ice and Cold Storage Private Limited
678.	002206	M/s. Al Kapuri Construction Co. Private Limited
679.	002329	M/s. Packsuiles Pharma Private Limited
680.	002684	M/s. Central India Lease & Financing Limited
681.	002781	M/s. Sita Steels Limited
682.	003224	M/s. Vikrant Auto Lamps Private Limited
683.	005071	M/s. Sarkar Infrastructures Private Limited
684.	006081	M/s. Tripathi Solar Equipments Private Limited
685.	008408	M/s. Katni Investment Private Limited
686.	008416	M/s. Sankyo Financial Consultants Private Limited
687.	009497	M/s. Geetam Securities Private Limited
688.	011379	M/s. Al Favision Orchards and Plantations Limited

1	2	3
689.	011388	M/s. AB Rogate Finance Private Limited
690.	011472	M/s. Narmada Natural Agro Products Private Limited
691.	011500	M/s. Stallion Iron and Steel Fabricators Private Limited
692.	011595	M/s. Romilac Agritech (India) Private Limited
693.	011905	M/s. Ortem Iron and Steel Private Limited
694.	011912	M/s. Edem Machine Fabricators Private Limited

Dr. RAJ SINGH
Registrar of Companies
M. P. & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Patna-800 001, the 29th April 2008

No. ROC/Pat/560(3)/158—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that on the expiry of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. Number	Name of the Company
1.	1171	M/s Gopalganj Saving & Financing Company Private Limited
2.	7759	M/s Trim Economy India Private Limited
3.	4333	M/s Apurva Food & Allied Products Private Limited
4.	4632	M/s Harikripa Finance & Investment (India) Private Limited
5.	5383	M/s Ajgaibi Economy India Limited
6.	5913	M/s Ambience Fish Gold Limited

K. PRASAD
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Patna-800 001, the 30th April 2008

No. ROC/Pat/560/167—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been

struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. Number	Name of the Company
1.	2631	M/s Minar Construction Private Limited
2.	9211	M/s Mishra Medicare Private Limited
3.	2153	M/s Chitragupta Films Private Limited
4.	9635	M/s Mythol Technology House Private Limited
5.	6127	M/s Indradhan Finance Company Limited
6.	5188	M/s. Continental Organic Industries Limited
7.	5492	M/s Askos Economy Development Limited

K. PRASAD
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Ahmedabad-380 013, the 2nd May 2008

No. ROC/Guj/u/s 560/2007-08—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. Number	Name of the Company
1	2	3
1.	34782	M/s Smita Tapes Private Limited
2.	42877	M/s Akshar Informatics Private Limited
3.	32542	M/s Moon Overseas Private Limited
4.	6785	M/s Mangalam Synfab Private Limited
5.	39942	M/s Neelam Tiles Private Limited
6.	33958	M/s. Pilot Metallurgy Private Limited
7.	34728	M/s. Vasantlal Chunilal Tapes Private Limited
8.	330	M/s. Hind Boring Works Private Limited
9.	35260	M/s. Chetan Tapes Private Limited
10.	40761	M/s. Dr. N. M. Mody Hospital Private Limited
11	18867	M/s. Amizara Foods Private Limited
12.	8467	M/s. J. B. Perfumes Private Limited

1	2	3
13.	50272	M/s. Omega Impex (India) Private Limited
14.	14376	M/s. Govind Dyestuff Private Limited
15.	31766	M/s. Chanchal Fashions Private Limited
16.	2230	M/s. Mahendra Dyes and Chemicals Limited
17.	37103	M/s. Road Master Infrastructure Private Limited
18.	37122	M/s. Solid 2000 Trade Limited
19.	14674	M/s. Mascon Machineries Private Limited
20.	25371	M/s. Abhi Priya Granites Private Limited
21.	45597	M/s. Lonza Pharmaceuticals Private Limited
22.	23536	M/s. Spectrum Technical Services Private Limited
23.	34436	M/s. Simran Apparels Private Limited
24.	44583	M/s. Concept M. R. Multiproducts Private Limited
25.	32540	M/s. Neelam Equipment Private Limited
26.	45457	M/s. Trinetrans Security and Control Private Limited
27.	44268	M/s US Inject Private Limited

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Roshni Agriculture Private Limited
Mumbai-400 002, the 31st October 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00217—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Roshni Agriculture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Inland Agriacqua Private Limited
Mumbai-400 002, the 31st October 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00227—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of M/s. Inland Agriacqua Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Somo Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st October 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00232—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Somo Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shuchita Harvest Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st October 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00241—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shuchita Harvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmivilas Farmhouse Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st October 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00246—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Laxmivilas Farmhouse Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Glade Herbals Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00255—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Golden Glade Herbals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Garden View Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00260—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Garden View Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Palaceview Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00269—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Palaceview Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarvaritu Horticulture Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00286—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of three months from the date hereof the name of M/s. Sarvaritu Horticulture Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Inter-City Farm Club Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00291—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Inter-City Farm Club Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Khandelwal Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00301—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khandelwal Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manikgarh Agro Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00307—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manikgarh Agro Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orange-Boom Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00322—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Orange-Boom Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambari Agro Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00332—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ambari Agro Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sajeew Krushi Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00338—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sajeew Krushi Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Elite Marathwada Seed Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00344—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Elite Marathwada Seed Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prithvi Farm Projects Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00411—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prithvi Farm Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahdi Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00414—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahdi Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Vighnaharta Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00417—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Vighnaharta Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhimashankar Agro Development Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00421—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhimashankar Agro Development Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ronira Bio-Tech (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00428—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ronira Bio-Tech (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Apurva Agrogenetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00434—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apurva Agrogenetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. B. Bio-Tech. Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00473—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. S. B. Bio-Tech. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. G and G Floriculture Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00476—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. G and G Floriculture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bio-Syn Herbs (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00483—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bio-Syn Herbs (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indus Cropscience Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00489—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indus Cropscience Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anvimo Plantation Growth Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00493—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anvimo Plantation Growth Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalyani Forest Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00499—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalyani Forest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Greencione Biotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00504—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Greencione Biotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasant Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00508—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Vasant Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tej Kiran Trade and Investment Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00039—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tej Kiran Trade and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Ram Hari Biotech Plantation Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00448—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Ram Hari Biotech Plantation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Unique Agro Products (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00439—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Unique Agro Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shudh Spices and Seeds Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00032—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shudh Spices and Seeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bloom Nurseries Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00039—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bloom Nurseries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Universal Seeds Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00042—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Universal Seeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vithal Seeds Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00048—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Vithal Seeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Harvest Seed Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00054—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Golden Harvest Seed Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Maheshwar Resorts and Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00057—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Maheshwar Resorts and Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragati Agro Farm Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00060—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pragati Agro Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahyadri Mushrooms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00063—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sahyadri Mushrooms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mira Floriculture Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00066—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mira Floriculture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. C. K. Vegetables Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00069—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. C. K. Vegetables Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swasti Seeds Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00079—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Swasti Seeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aviraj Flowers Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00090—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aviraj Flowers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Harvest Vegetation Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00109—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Golden Harvest Vegetation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramtara Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00114—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramtara Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Varaskol Agro Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00096—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Varaskol Agro Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sangam Agro Processing Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00101—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sangam Agro Processing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vedic Agro-Herbs Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00105—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vedic Agro-Herbs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Param Harvest Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00132—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Param Harvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rutu Parna Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00120—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rutu Parna Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sarkar Baba Plantation Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00123—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Sarkar Baba Plantation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kings Garden and Plantation Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00126—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kings Garden and Plantation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Fields Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00092—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Green Fields Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Santro Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00367—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Santro Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alps Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00408—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alps Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhusudan Neons Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00052—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhusudan Neons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreya Dye Chem Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00071—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shreya Dye Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dynasty Impoexpo Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00213—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dynasty Impoexpo Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Link Plaza Hotels India Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00215—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Link Plaza Hotels India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Parmatma Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00435—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parmatma Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Murli Manohar Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00432—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Murli Manohar Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harsil Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00416—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harsil Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ladine Happy Homes Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00401—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ladine Happy Homes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Digitech Telematics Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00364—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Digitech Telematics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun and Moon Travels (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00314—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sun and Moon Travels (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Star Books Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00352—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Star Books Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SPG Pharma Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00269—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SPG Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harshrekha Tours and Travels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00257—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harshrekha Tours and Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Balmiki Commercial Finance India Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00252—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Balmiki Commercial Finance India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zen Travels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00212—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zen Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Keshav Travels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00209—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Keshav Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivraj Industrial Guard Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00067—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivraj Industrial Guard Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patni Housing Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00062—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Patni Housing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bairagi Enterprises Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00014—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bairagi Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Your Choice Business Link Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00330—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Your Choice Business Link Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paradigm Orga Manuars Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00221—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Paradigm Orga Manuars Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Channels Services and Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00224—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Channels Services and Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Compusoft Logic Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00230—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Compusoft Logic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Valentine Music Centre Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00227—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Valentine Music Centre Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chandrama Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00241—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chandrama Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nagda Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00201—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nagda Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vicsons and Daysons Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00579—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vicsons and Daysons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maleic India Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00245—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maleic India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Charan Resorts Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00247—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Charan Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nupur Rayon Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00124—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nupur Rayon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dimplomat Fabricfashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00794—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dimplomat Fabricfashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalyan Ram Aqua Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00302—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalyan Ram Aqua Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Advent Acqua Projects Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00267—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Advent Acqua Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Bhavani Goat Farming, Plantations and
Cultivations Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00149—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Bhavani Goat Farming, Plantations and Cultivations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cinco Exporters Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00202—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cinco Exporters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apricot Magazines Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00274—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apricot Magazines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharadi Fisheries Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00193—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharadi Fisheries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Medi-Id Health Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00096—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Medi-Id Health Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Shyam Forms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00426—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Shyam Forms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Corn Finance and Investment Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00236—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Corn Finance and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pawan-Sur Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00188—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pawan-Sur Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trinetra Apartments Erector Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00103—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trinetra Apartments Erector Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Konkan Agro Frozen Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00129—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Konkan Agro Frozen Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Top Creations Mumbai Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00279—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Top Creations Mumbai Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trinity Clothing Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00136—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trinity Clothing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanskar Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00127—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanskar Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rushi International Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00106—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rushi International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Performanz Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00215—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Performanz Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lambodar Garments Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00221—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lambodar Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crescendo Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00230—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Crescendo Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kashish Fashion Designers Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00247—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kashish Fashion Designers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishnangi Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00275—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krishnangi Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pra Plus Exim Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00288—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pra Plus Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shepherd Clothing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00318—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shepherd Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dayal Knitters and Weavers Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00287—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dayal Knitters and Weavers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vijlaxmi Global Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00273—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vijlaxmi Global Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. No Gap Apparel (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00242—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. No Gap Apparel (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Choksey Structural Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00174—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Choksey Structural Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Moino Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00328—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Moino Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nasa Supromos Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00311—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nasa Supromos Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hetal Merchandising Private Limited Hetal

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00085—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hetal Merchandising Private Limited Hetal unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Relief Nonwovens Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00387—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Relief Nonwovens Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Weather Coast Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00368—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Weather Coast Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Smart Interiors Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00358—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Smart Interiors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dot Clothing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00028—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dot Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Members Clothing Company (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00041—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Members Clothing Company (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Winsome Foundation Garments Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00050—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Winsome Foundation Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sameera Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00061—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sameera Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Fashion Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00070—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Fashion Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Avinash Garments Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00076—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Avinash Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shashibala Garments and Plastoengineers
Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00016—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shashibala Garments and Plastoengineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mitu Furnishing Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00022—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mitu Furnishing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishee Designer Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00335—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krishee Designer Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lilavati Designer Clothing Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00344—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lilavati Designer Clothing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satva Clothing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00066—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Satva Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Krishna Towels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00070—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Krishna Towels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fabric Art Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00043—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fabric Art Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manasvi Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00055—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manasvi Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kamran Denim Clinic Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00061—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kamran Denim Clinic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Halo Clothing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00058—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Halo Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maque-Jouzz Coats Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/000295—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maque-Jouzz Coats Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raiment (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00380—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raiment (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishesh Clothiers Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00579—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vishesh Clothiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Class Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00091—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Class Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Burlington Knits Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00084—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Burlington Knits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harsha Dresses Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00073—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harsha Dresses Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Achievers Clothing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00127—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Achievers Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumit Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00115—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sumit Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suraj Colour Cartons Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00110—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Suraj Colour Cartons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leading Edge Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00140—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Leading Edge Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suhas Dyeing and Knitting Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00136—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Suhas Dyeing and Knitting Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. KTC Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00160—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. KTC Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Millinium Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00154—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. New Millinium Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. HMA Interlinings Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00148—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. HMA Interlinings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sultana Expotrades Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00201—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sultana Expotrades Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S S Ginning and Pressing Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00194—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S S Ginning and Pressing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Euro Fabrics and Garments (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00187—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Euro Fabrics and Garments (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aikon Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00181—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aikon Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shorey Fashion Consultancy Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00169—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shorey Fashion Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chicago Club Clothing Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00034—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chicago Club Clothing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. The Fine Clothing Company (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00255—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. The Fine Clothing Company (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crusoe Apparels Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00208—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Crusoe Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ecotex Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00366—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ecotex Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Frill Knit Elastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00371—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Frill Knit Elastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fem Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00378—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fem Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Body Basics Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00328—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Body Basics Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ecstasy Fashion House Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00265—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ecstasy Fashion House Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Ambika Knitting Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00302—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Ambika Knitting Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nandan Fibres Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00306—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nandan Fibres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Viral Apparels and Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00310—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Viral Apparels and Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chhaya Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00354—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chhaya Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Rani Sati Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00400—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jai Rani Sati Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chaudhari Dairies Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00394—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chaudhari Dairies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanuman Agri Business Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00390—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hanuman Agri Business Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sumitra International Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00385—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sumitra International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tripura Krishi Sahayog Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00381—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tripura Krishi Sahayog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amrut Krushi Organic Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00374—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amrut Krushi Organic Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Girija Krishi Udyog Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00367—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Girija Krishi Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhoomi Putra Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00356—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhoomi Putra Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khateeja Agro Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00345—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khateeja Agro Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Diksha Agrofarms and Constructions Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00250—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Diksha Agrofarms and Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalpataru Green Revolution Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00262—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalpataru Green Revolution Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mother Pulses Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00269—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mother Pulses Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kokan Bhoo Va Krushi Vikas Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00278—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kokan Bhoo Va Krushi Vikas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pingara Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00284—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pingara Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hindustan Grains and Merchandise Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00291—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hindustan Grains and Merchandise Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tej Agro Promotion Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00298—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tej Agro Promotion Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Haystauk Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00184—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Haystauk Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chaitnya Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00084—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chaitnya Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Right Agrotech Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00164—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Right Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nakshetra Seed Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nakshetra Seed Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Janardhana Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00146—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Janardhana Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chintamani Herbals Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00124—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chintamani Herbals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sudarshan Agriculture and Farming Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00120—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sudarshan Agriculture and Farming Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shehan's Agro Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00116—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shehan's Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Howard Spices Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00108—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Howard Spices Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pink Rose Agrotek Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00103—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pink Rose Agrotek Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasundhara Agro Homes Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00036—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vasundhara Agro Homes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Astvinayak Fruit Growers and Processors
Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00033—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Astvinayak Fruit Growers and Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nage Agri and Aqua Tech Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00028—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nage Agri and Aqua Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lord Shiva Import and Exports (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00024—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lord Shiva Import and Exports (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiva Agrigenetics Private Limited
Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00020—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiva Agrigenetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kelwe Pan Utpadak Vikreta Company Private Limited
Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00013—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kelwe Pan Utpadak Vikreta Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohol Greenaries Private Limited
Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mohol Greenaries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Datta Greenary Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00007—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Datta Greenary Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shripad Greenaries Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shripad Greenaries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalpavriksha Agro Acres Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00052—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalpavriksha Agro Acres Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sudhagad Industrial Plantations Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00061—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sudhagad Industrial Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Precision Cartons Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00142—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Precision Cartons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tryearn Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tryearn Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. T. Global Marketing Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00178—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J. T. Global Marketing Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalpit Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00362—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kalpit Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anchor Pipes Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00385—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anchor Pipes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Orion Offset Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00388—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Orion Offset Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Salins Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00392—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Salins Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rapport Multimedia Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00328—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rapport Multimedia Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Emdee Financial Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00354—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Emdee Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lopamudre Financial Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00357—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lopamudre Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V. P. Finance Consultants Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00374—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. P. Finance Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swastik Shipping Agency Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00377—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swastik Shipping Agency Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambali Construction Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00381—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ambali Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aaren Savings Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00366—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aaren Savings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhalerao Builders Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00370—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhalerao Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dee Pee Organics Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00202—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dee Pee Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anshul Dairy Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00406—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anshul Dairy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Flexipan Conproducts Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00418—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Flexipan Conproducts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soham Agro (Dahiwal) Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00432—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Soham Agro (Dahiwal) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. JB and M Communications Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00437—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. JB and M Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDA NE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Shakti Shipping Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00440—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiv Shakti Shipping Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Regal Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00448—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Regal Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreehari Plastics Private Limited

Mumbai-400 002, the 31st December 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/sec 560/2007/00046—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shreehari Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kolkata-700 020, the 5th May 2008

No. ROC/WB/IPC/560(SM)/07/197—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

D. BANDYOPADHYAY
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhusan Securities and Services Private Limited

Cuttack-753 001, the 24th April 2008

No. 560(3) MCA/RoC-Cuttack/sec 560/2008/00007/382—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhusan Securities and Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

MOHANTY BIBEKANANDA
Dy. Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following company

Hyderabad-500 195, the 10th April 2007

No. RAP/FTS/560(3)/2001—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 issued by the Department of Company Affairs, Government of India, that at the expiration of 3 months hereof, the name of the following company unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Company No.	Name of the Company	Date of Incorporation
01-11585	M/s. Agrasen Syn-Tex Private Limited	10.08.1990

D. RAMAKRISHNAN
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following
Companies

Coimbatore-641 005, the 30th April 2008

No. ROC/CBE/560(5)/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
625.	5	M/s. Annur Bharathajothi Mills Limited
626.	22	M/s. Coimbatore Janasahayam Private Limited

1	2	3
627.	356	M/s. Ambika Bus Co Private Limited
628.	1022	M/s. Annai Spinning Mills Private Limited
629.	5060	M/s. Allwin Coconut Products Private Limited
630.	5166	M/s. Sarani Steels Private Limited
631.	5179	M/s. Apple Granite Export Private Limited
632.	5201	M/s. V.S.P. Security Services Private Limited
633.	5206	M/s. Sreetham Frago Limited
634.	5210	M/s. Prajaa Chit Funds Private Limited
635.	5231	M/s. Sree Ganesh Transport Private Limited
636.	5252	M/s. Gem Display Systems Private Limited
637.	5267	M/s. Kadeswar Garments Private Limited
638.	5281	M/s. Allwin Textiles Spare Private Limited
639.	5292	M/s. Saraswathi Nataraj Spinners Private Limited
640.	5305	M/s. Padiyoor Textiles Private Limited
641.	5316	M/s. Sri Virushaka Vinayak Spinners Private Limited
642.	5350	M/s. Espeel Chits Private Limited
643.	5355	M/s. K.K.G. Fabrics Private Limited
644.	5357	M/s. Idapadi Spinning Mills Private Limited
645.	5359	M/s. Sri Kumaran Enterprises Private Limited
646.	5374	M/s. Lee Brothers Travels and Trades Private Limited
647.	5386	M/s. Yamuna Granite Private Limited
648.	5405	M/s. Shivasakthi Chemicals Private Limited
649.	5409	M/s. K.R. And Sons Jewellers Private Limited
650.	5412	M/s. Shivasakthi Magnesiya Refractory Private Limited
651.	5421	M/s. Periyar Textiles Mills Private Limited
652.	5424	M/s. Blue Diamond Engineers and Chemicals Private Limited
653.	5434	M/s. Venkat Textiles Private Limited
654.	5468	M/s. Thiruchengode Textiles Private Limited
655.	5475	M/s. Rajarajan Constructions Private Limited
656.	5482	M/s. Akashsri Fashion Garments Private Limited
657.	5523	M/s. R.P.J. Cotton Spinning Mill Limited
658.	5532	M/s. Best Trading Company (India) Private Limited

1	2	3
659.	5538	M/s. Combite Engineering Company Private Limited
660.	5543	M/s. Realworth Tree Magnum India Limited
661.	5550	M/s. Visal Coir Private Limited
662.	5582	M/s. Rasipuram Starch and Sago Effluent Treatment Limited
663.	5584	M/s. Aran Stones Private Limited
664.	5606	M/s. R.M.R. Textiles Private Limited
665.	5645	M/s. Nagappa Textiles Private Limited
666.	5646	M/s. Shrii Sathiesh Machineries Private Limited
667.	5680	M/s. P.R.V. Giri Chit Fund Private Limited
668.	5685	M/s. Annapooraneshwari Estates Private Limited
669.	5720	M/s. Lynx Resort Resources (India) Private Limited
670.	5721	M/s. Corniche Hotels and Resorts (India) Private Limited
671.	5736	M/s. Omkar Coating Private Limited
672.	5762	M/s. Saru Colour and Art House Private Limited
673.	5804	M/s. Coimbatore Cooling Towers Private Limited
674.	5810	M/s. Annaiklakshmi Export Private Limited
675.	5813	M/s. Charakaanu Constructions Private Limited
676.	7083	M/s. Alagusurya Orchards Private Limited
677.	7093	M/s. Safiya Leathers Private Limited
678.	7165	M/s. K.S.N. Electro-Vacuum Plastic Metallizing Private Limited
679.	7171	M/s. Hashmee Properties Limited
680.	7173	M/s. Alagusurya Textiles Private Limited
681.	7183	M/s. Sri Saravanavel Property Promoters Private Limited
682.	7250	M/s. Kathiravan Agro Integrated Farm Industries Products Export Private Limited
683.	7255	M/s. Indhradhanush Hill Resort Private Limited
684.	7257	M/s. A.V.N. Agro and Paper Products Private Limited
685.	7258	M/s. JF Foods Marketing Private Limited
686.	7259	M/s. S.D.M. Textiles Private Limited

1	2	3	1	2	3
687.	7261	M/s. T.S.R. Agro Farms Private Limited	719.	8036	M/s. Akkshayaa Home Appliances Private Limited
688.	7268	M/s. Cosmos Lasers Private Limited	720.	8039	M/s. Kumarapalayam Textiles Private Limited
689.	7287	M/s. Rajamurugan Spinning Mills Private Limited	721.	8040	M/s. Sri Sharada Parameshwari Steel Industries Limited
690.	7292	M/s. Sri Kalaiselvi Textiles Private Limited	722.	8048	M/s. Delco Agro India Private Limited
691.	7298	M/s. Iswariyalashmi Food Product Private Limited	723.	8053	M/s. Innovital Internetworking (Marketing) India Private Limited
692.	7308	M/s. Dhanasurya Apparels Private Limited	724.	8060	M/s. V.K.K.V. Textiles Private Limited
693.	7317	M/s. Shri Venkateswara Coats Private Limited	725.	8076	M/s. Sukra Steel Rolling Mills Private Limited
694.	7323	M/s. Mar Timotius Agro Farms Private Limited	726.	8078	M/s. Jubilee Embroideries Private Limited
695.	7333	M/s. Z and N Communications Private Limited	727.	8079	M/s. Kej International Private Limited
696.	7335	M/s. Akilaandam Textiles Private Limited	728.	8082	M/s. Cau-Uchu Engineers Private Limited
697.	7344	M/s. Kovai Romaa Resorts Farm House Private Limited	729.	8089	M/s. K.M.A. Desico Products Private Limited
698.	7347	M/s. M.R.P. Chemicals Private Limited	730.	8100	M/s. Jayamaruthi Cotton Mills Private Limited
699.	7351	M/s. Fullmark Garments Private Limited	731.	8102	M/s. Internet Couriers Private Limited
700.	7353	M/s. Siruvani Automobiles Limited	732.	8107	M/s. Combatore General Utility Service Private Limited
701.	7356	M/s. Rajaganpathy Trans and Cargo Private Limited	733.	8111	M/s. Wintrax Garments Private Limited
702.	7358	M/s. Praavin Vijay Enterprise Private Limited	734.	8116	M/s. Vamanan Steels Private Limited
703.	7577	M/s. Pitchaiammal Textiles Private Limited	735.	8117	M/s. G.K.G. General Exports Private Limited
704.	7580	M/s. AM and M Exports Private Limited	736.	8127	M/s. Shivambika Papers and Packagings Private Limited
705.	7806	M/s. S J Machine Tools Private Limited	737.	8248	M/s. Shivambika Cartons Private Limited
706.	7808	M/s. Arrana Agro Impex Private Limited	738.	8252	M/s. Anamika Compacting Private Limited
707.	7810	M/s. PGS Electricals Private Limited	739.	8259	M/s. Evergain Agro Farms Limited
708.	7814	M/s. Kanjiramattom Chits Private Limited	740.	8260	M/s. Metco Building Material Agency Private Limited
709.	7828	M/s. Ramya Textiles Private Limited	741.	8265	M/s. Eskv Roadways Private Limited
710.	7844	M/s. Tharuvam Textiles Private Limited	742.	8305	M/s. Big-Wig Computers Private Limited
711.	7849	M/s. Kurumanthur Textiles Private Limited	743.	8345	M/s. Calibre Tex Fashions Private Limited
712.	7851	M/s. Ce Vee Yes Auto Pressing Industries Private Limited	744.	8361	M/s. Silver Crown Metal Coatings Private Limited
713.	7856	M/s. Tornado Enterprises Private Limited	745.	8385	M/s. Sree Athivaragan Constructions Private Limited
714.	7859	M/s. AGS Computer and Solutions Private Limited	746.	8419	M/s. Venkataramana Alloys Private Limited
715.	7865	M/s. Raj Shalini Farms Private Limited	747.	8440	M/s. Sheridan Knits Private Limited
716.	7872	M/s. Amaravati Pumps Private Limited	748.	8446	M/s. V.A. Apparels Private Limited
717.	8031	M/s. Indhu Vignesh Farms Private Limited	749.	8500	M/s. Amrind Organics Private Limited
718.	8032	M/s. Dhanavisha Computers Private Limited	750.	8516	M/s. Jupiter Security Services Private Limited

1	2	3
751.	8517	M/s. Coleman Curatives Private Limited
752.	8519	M/s. Milka Softdrinks Private Limited
753.	8521	M/s. Sivakami Hotels Private Limited
754.	8545	M/s. Texcity Hotels Private Limited
755.	8558	M/s. K.M.P. Dairy Industries Private Limited
756.	8568	M/s. JSS Constructions Private Limited
757.	8571	M/s. Vishwaa Priya Jute Cotton Fabrics Limited
758.	8577	M/s. Vijayaraja Food and Spices Extracts Private Limited
759.	8585	M/s. Periasola Tea Factory Private Limited
760.	8597	M/s. Ponky Soft Drinks Private Limited
761.	8601	M/s. Highland Tea Factory Private Limited
762.	8605	M/s. Info Success Computers Private Limited
763.	8606	M/s. Monsan Business Infotech Private Limited
764.	8619	M/s. P K S Earth Movers Private Limited
765.	8632	M/s. Alagu Systems Private Limited
766.	8649	M/s. R. C. Tex Private Limited
767.	8653	M/s. R.R.K. Hi-Tech Fabrics Exports Private Limited
768.	8660	M/s. Con-Link Telecom India Private Limited
769.	8713	M/s. Jay and P.W. International Private Limited
770.	8717	M/s. Reproductive Health Institute Private Limited
771.	8724	M/s. K. M. Dairy Industries Private Limited
772.	8725	M/s. Shevroy Flying Club Limited
773.	10029	M/s. Sree Vasavi Sales and Economic Marketing Coimbatore Private Limited

P. RAJAGOPALAN
Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 30th April 2008

No. ROC(B)/MBR/560(3)/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies mentioned herein below unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Com. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	18454	M/s. Yashasvi Agrico Private Limited
2.	18903	M/s. Business Information and Guidance (India) Private Limited
3.	19005	M/s. Mystamp Marketing Systems Private Limited
4.	19149	M/s. Infant Credits and Investments Limited
5.	19851	M/s. Thandur Properties Private Limited
6.	19873	M/s. SNR Overseas Private Limited
7.	19896	M/s. Suruchi Fintrade Private Limited

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ideologix Communications Private Limited

Bangalore, the 30th April 2008

No. ROCB/AROC(SKG)/MM/560(5)/SES-2005/2008/29921—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the Company M/s. Ideologix Communications Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 30th April 2008

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies mentioned herein below unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Com. No.	Name of the company
1	2	3
1.	33231	M/s. Aadhyan Impex Private Limited
2.	37124	M/s. Moduslink India Private Limited

1	2	3
3.	15418	M/s. Dwarakami Farms and Developers Private Limited
4.	1716	M/s. Karnataka Film Industries Development Corpn. Limited
5.	43429	M/s. Lokapur Limestone Mining Private Limited
6.	28734	M/s. Esmart Turnkey Solutions Private Limited
7.	37573	M/s. MandN Consulting Private Limited
8.	25276	M/s. Prasaanth Project Private Limited
9.	41865	M/s. Quantaconnect Systems Private Limited
10.	34289	M/s. Sai Readywear Private Limited
11.	43804	M/s. Nisarga Travel Agency (Bangalore) Private Limited

1	2	3
12.	43058	M/s. Jasp IT Solutions Private Limited
13.	44258	M/s. TLC Systems Private Limited
14.	31496	M/s. Renuka Real Estates and Developers Private Limited
15.	33410	M/s. Chandrahasa Real Estates Private Limited
16.	33409	M/s. Jyostna Properties Private Limited
17.	33419	M/s. Ugandhar Estates Private Limited
18.	33290	M/s. Jain Villas Private Limited

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008.